



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 6—अक्टूबर 12, 2007 (आश्विन 14, 1929)  
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 6—OCTOBER 12, 2007 (ASVINA 14, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

दिनांक 25 सितम्बर 2007

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 सितम्बर 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/2310/ए-20023/7/82.--श्री तेजपाल सिंह ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, 31.08.2007 (अपराह) से उप-विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

सुरेन्द्र मोहन  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स.1/2007/170/3/35/2007.--गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 24 जुलाई, 2007 के आदेश संख्या 5/3/2005-रा.भा. (सेवा) के अनुसरण में श्रीमती सुषमा शर्मा, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, राजभाषा विभाग ने उनकी पदोन्नति के फलस्वरूप, तदर्थ आधार पर, सहायक निदेशक (राजभाषा) के रैंक में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में हिंदी अधिकारी के रूप में 21.08.2007 पूर्वाह्न से कार्यग्रहण कर लिया है।

सुरेन्द्र मोहन  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 24 सितम्बर 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/169/3/11/87.--श्री ए. एस. कुलाय ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30.06.2007 (अपराह) से उप-विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

सुरेन्द्र मोहन  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

केन्द्रीय सर्तकता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2007

सं. 2/21/07-प्रशासन.--केन्द्रीय सर्तकता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अवर सचिव, श्री सुरजीत सिंह को विशेष कार्य अधिकारी के पद पर

वेतनमान रुपये 12,000-375-16,500/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 18.09.2007 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

पी. एम. पिल्लै  
विशेष कार्य अधिकारी (प्रशासन)  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

#### गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 सितम्बर 2007

सं. पी. तीन-2/2007-कार्मिक-3.--सूबेदार मेजर/कार्यालय अधीक्षक से प्रशासन/अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप निम्नलिखित सूबेदार मेजर/कार्यालय अधीक्षकों ने प्रत्येक के सामने लिखे गए कार्यालय में दर्शाई गई तिथियों को प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहां कार्यभार संभाला	कार्यग्रहण करने की तिथि
1.	श्री के. पोन्नूस्वामी प्रशा. अधिकारी, ईरला-7258	कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र के.रि.पु.बल, अवडी, चेन्नै	02.06.2007 (पूर्वा.)
2.	श्री हर्य कुमार प्रशा. अधिकारी, ईरला-7265	कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र के.रि.पु.बल, रामपुर (यू.पी.)	27.06.2007 (पूर्वा.)
3.	श्री मंगला राम प्रशा. अधिकारी, ईरला-7268	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक द्रुत कार्य बल के.रि.पु.बल, नई दिल्ली	09.07.2007 (पूर्वा.)
4.	श्री एस. के. गर्ग प्रशा. अधिकारी, ईरला-7270	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक के.रि.पु.बल, अगरतला	09.07.2007 (पूर्वा.)
5.	श्री कंबर सिंह प्रशा. अधिकारी, ईरला-7260	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक पश्चिमोत्तर सेक्टर के.रि.पु.बल, चंडीगढ़	16.07.2007 (पूर्वा.)
6.	श्री के. टी. गोपालकृष्णन प्रशा. अधिकारी, ईरला-7275	परिचालन शाखा महानिदेशालय, के.रि.पु.बल, नई दिल्ली	18.07.2007 (पूर्वा.)
7.	श्री पी. राघवन प्रशा. अधिकारी, ईरला-7264	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, मध्य सेक्टर के.रि.पु.बल, लखनऊ	19.07.2007 (पूर्वा.)
8.	श्री सी. एच. रविन्द्रन प्रशा. अधिकारी, ईरला-7252	कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र के.रि.पु.बल, गुडगांव	18.08.2007 (पूर्वा.)
9.	श्री अबुल हुसैन प्रशा. अधिकारी, ईरला-7272	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) के.रि.पु.बल, श्रीनगर	27.08.2007 (पूर्वा.)

के. के. शिवा प्रसाद  
अपर पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

दिनांक 24 सितम्बर 2007

सं. पी. तीन-2/2007-कार्मिक-3.--प्रशासन/अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर बिहार सेक्टर में आवंटन होने के फलस्वरूप कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल, हैदराबाद के श्री सी. के. सुकुमारन (ईरला संख्या-7263) ने दिनांक 31.05.2007 (पूर्वाह्न) को ग्रुप केन्द्र के.रि.पु.बल, हैदराबाद में प्रशासन/अनुभाग अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तत्पश्चात् उक्त प्रशासन/अनुभाग अधिकारी को ग्रुप केन्द्र मोकामाघाट में पदस्थ किया गया है।

के. के. शिवा प्रसाद  
अपर पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 सितम्बर 2007

सं. ई-28017/6/नोटी/2007/कार्मिक-2/2246.--केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-48ए के अधीन सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप, श्री सी एस वैला ने दिनांक 15.08.2007 (अपराह्न) से सहायक कमांडेंट के.ओसुब इकाई, एफ एल सी नैवेली के पद का परभार छोड़ दिया है।

ह./- अपरनीय  
महानिदेशक के.ओसुब

दिनांक 18 सितम्बर 2007

सं. ई-28017/6/नोटी/2007/कार्मिक-2/2281.--श्री वी के शर्मा, सहायक कमांडेंट के.ओसुब 8वीं आरक्षित वाहिनी किशतवाड़ का दिनांक 03.07.2007 को देहांत हो गया। उनका नाम दिनांक 04.07.2007 (पूर्वाह्न) से के.ओसुब को नफरी से हटा दिया गया है।

ह./- अपरनीय  
महानिदेशक के.ओसुब

सं. ई-28017/6/नोटी/2007/कार्मिक-2/2282.--श्री पी एल लखुर, उप कमांडेंट के.ओसुब इकाई, एफ वी पी फरक्का का दिनांक 03.04.2007 को हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। उनका नाम दिनांक 04.04.2007 (पूर्वाह्न) से के.ओसुब की नफरी से हटा दिया गया है।

ह./- अपरनीय  
महानिदेशक के.ओसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. प्रशा.1/1255-एन/2007-08/702.--प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल के दिनांक 31.07.2007 के आदेश के तहत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को वेतनमान 7,450-225-1 2007/-

रुपये में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में दिनांक 01.08.2007 (पूर्वाह्न) अथवा सहायक लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक जो बाद में हो से पदोन्नति दिया गया है।

1. श्री अजीत कुमार साठ
2. श्री स्वपन कुमार राय-II

पदोन्नति होने पर उनका वेतन एफ.आर. 22(I)(क)(i) के अधीन निर्धारण होगा तथा उनके पदोन्नति के दिनांक से एक माह के भीतर अपना विकल्प दे सकते हैं।

जे. आर. विश्वास  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 21 सितम्बर 2007

सं. मा.ले.(ले. एवं ह.)/प्रशा.1/8-88/2007-08/92.--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ने सहर्ष अनुमति के साथ सहायक लेखा अधिकारी को पदोन्नत किया जाता है ताकि नीचे दर्शाये गये नामित कर्मचारी प्रस्तुत दिनांक से रुपये 7,500—12,000/- वेतनमान में स्थानापन्न रूप में लेखा अधिकारी के पद में काम करेंगे।

क्रम सं.	नाम	लेखा अधिकारी के पद में कार्यभार ग्रहण करने के तिथि
1.	एम. ज्योति	07.09.2007

यदि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में रिट अर्जी लंबित है। इसके अलावा भी यदि पदोन्नति बिना किसी वरिष्ठ कर्मचारी का दबाव या बिना पूर्वग्रह आदेश को जारी किया जाता है।

ई. श्रीनिवासन  
व. उप-महालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. ए-19012/460/2007-स्था.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एस. डब्ल्यू. डोक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एम ई) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 27.08.2007 (पूर्वाह्न) से सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

दिनांक 14 सितम्बर 2007

सं. ए-19011/239/2007-स्था./ए.पी.पी.--श्री अलोक वासु, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर

सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.08.2007 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

एस. दासगुप्ता  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

संस्कृति मंत्रालय

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 20 सितम्बर 2007

सं. 4-339/2007/स्था.--भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के निदेशक (प्रभारी), इस सर्वेक्षण के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, शिलांग के (डॉ.) मुरली कोटवाल, अनुसंधान सहायक (शा.) को उसी केन्द्र में सहायक मानव विज्ञानी (सां.) समूह-ख (राजपत्रित) वेतनमान रुपये 6,500-200-10,500/- के पद पर 28 अगस्त 2007 की पूर्वाह्न से अगले आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. आई. अहमद  
कार्यालय प्रधान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. सी-266/698-मैप क्यूरेटर.--श्री बी. आर. चक्रवर्ती, सहायक को दिनांक 06.08.2007 (पूर्वाह्न) से 3 वर्ष अथवा आवश्यकता पड़ने पर इससे कम अवधि के लिए पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता में प्रतिनियुक्ति आधार पर मैप क्यूरेटर, सामान्य केन्द्रीय सेवा (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर रुपये 5,500-175-9,000/- के वेतनमान में नियुक्त किया जाता है।

एम. गोपाल राव  
मेजर जनरल  
भारत के महासर्वेक्षक

भाभा परमाणु केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. पीडी/7(7)/2007/भर्ती-IV/एसओ(डी)/7862.--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'डी' के पद पर रुपये 10,00-325-15,200/- के वेतनमान में, दिनांक 01 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से, श्रीमती इन्दिरा एस. नायर, क्रम संख्या 7 एवं श्री जयपाल सिंह क्रम संख्या 13 जिनकी नियुक्ति तिथियाँ क्रमशः 5 फरवरी 2007 एवं 26 फरवरी 2007 के पूर्वाह्न से हैं, को छोड़कर, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1	2	3
1.	श्री अमित कुलश्रेष्ठ	एस ओ/सी
2.	श्री संजय कुमार श्रोत्रिय	एस ओ/सी

1	2	3
3. श्री संजय विश्वासराव हंगले	एस ओ/सी	
4. श्री जयप्रकाश देवदास	एस ओ/सी	
5. श्री प्रदीप चन्द्र	एस ओ/सी	
6. श्री सुलेन्द्र भूषण कुलश्रेष्ठ	एस ओ/सी	
7. श्रीमती इन्दिरा एस. नायर	एस ओ/सी	
8. श्री हरी गणपत पवार	एस ओ/सी	
9. श्री नवनाथ एकनाथ मवाल	एस ओ/सी	
10. श्री सुषेण जयधर	एस ओ/सी	
11. श्री भास्कर सन्याल	एस ओ/सी	
12. श्री अजय कुमार	एस ओ/सी	
13. श्री जयपाल सिंह	एस ए/ई	
14. श्री वेदेश कृष्णाचार्य वरखेडकर	एस ओ/सी	
15. श्री नरेन्द्र खण्डेलवाल	एस ओ/सी	
16. श्री विजय सिंह	एस ओ/सी	
17. श्रीमती स्मित्री मणिलाल	एस ओ/सी	
18. श्री पुलिपका वेंकट श्रीनिवास	एस ओ/सी	
19. श्री जालंदर कुडलीक धोंडकर	एस ओ/सी	
20. श्री एल. रामचंद्रन	एस ओ/सी	
21. डॉ. (श्रीमती) वोल्गा संदीप मोरे	एस ओ/सी	
22. डॉ. कौशीक चटर्जी	एस ओ/सी	
23. श्री प्रमोद कुमार गौतम	एस ओ/सी	
24. श्री प्रताप सिंह	एस ओ/सी	
25. श्री सोलापूरकर महिपत नारायण	एस ओ/सी	
26. श्री कन्हैया सिंह	एस ओ/सी	
27. श्री नरसिंहन अलगरसामी	एस ओ/सी	
28. श्री कलप्पुरयिल केशवन सानु	एस ओ/सी	
29. श्री विलास गोविंद शेलार	एस ओ/सी	
30. श्री डॅनी पोन्नराज राजैया	एस ओ/सी	
31. श्री अनिल अनंत शानभाग	एस ओ/सी	
32. श्री राजेन्द्र कृष्णराव शिवदे	एस ओ/सी	
33. श्री रविन्द्र राजाराम भिंगारे	एस ओ/सी	
34. श्री शशांक सुरेश सैदाने	एस ओ/सी	
35. श्री श्रीनिवास वैकुण्ठम	एस ओ/सी	

डॉ. जी. डी. पुंगले  
नियंत्रक

मुंबई-400033, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. पीडी/7(6)/2007-भर्ती-IV/एसओ/सी/8055.--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'सी' के पद पर रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में, दिनांक 01 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से, श्री हरिमोहन ईश्वर अय्यर, क्रम संख्या 1 जिनकी नियुक्ति तिथि 5 फरवरी 2007 के पूर्वाह्न से है को छोड़कर, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1	2	3
1.	श्री हरिमोहन ईश्वर अय्यर	एसओ/एसबी
2.	श्रीमती सीमा मंजय राउल	एसओ/एसबी
3.	श्री दिलीप कुमार नेहरू	एसओ/एसबी
4.	श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा	एसए/डी
5.	श्री चम्बयाल शेर मिश्र	एसए/डी
6.	श्री सौभाग्य कुमार नायक	एसओ/एसबी
7.	श्री अमोद कुमार मिश्रा	एसओ/एसबी
8.	श्री पंडारा पुरयित्त अर्नाप	एसए/डी
9.	श्री अरविंद अजित कुमार	एसए/डी
10.	श्रीमती सोफीया चंद पटेल	एसए/डी
11.	श्री इरनगौडा नीगनगौडा नरगुंद	एसओ/एसबी
12.	श्री कैलाश हैबलीराव परात	एसओ/एसबी
13.	श्री आर. जीवा	एसओ/एसबी

एस. जी. माकडेय  
नियंत्रक

सं. पीडी/7(6)/2007-भर्ती-IV/8055.--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के श्री दिनेश वटलुवल्लिल वासुदेवन, स्टेशन अधिकारी/ए (वेतनमान श्रेणी रु. 7,450-225-11,500/-) को स्टेशन अधिकारी बी (वेतनमान श्रेणी रु. 8,000-275-13,500/-) के रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में दिनांक 1 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

एस. जी. माकडेय  
नियंत्रक

दिनांक 18 सितम्बर 2007

सं. पीडी/2(7)/2006-भर्ती-IV/8106.--राष्ट्रपति, डा. नंदन मनोहर कामत को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'डी'

के पद पर रु. 10,000-325-15,200 + एन.पी.ए. के वेतनमान में दिनांक 6 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. जी. मार्कंडेय  
नियंत्रक

मुंबई-85, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. पीडी/6(2)/2007-आर-III/2007/8067.--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती मिनीक्षी सुब्रमणियन, सहायक, भापअ केन्द्र, मुंबई को दिनांक 03.09.2007 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 17 अगस्त 2007

सं. 20/3(7)/2005-सीसीएस/29.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के श्री पी. वेणुगोपालन, नियंत्रक (वेतनमान रु. 18,400-22,400/-) दिनांक 30.06.2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

सं. 26/2(1)/2005-सीसीएस/30.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के श्री एस. गांगुली, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) दिनांक 31.07.2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

सं. 20/3(4)/2005-सीसीएस/31.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के श्री एम. उन्नीकृष्णन, प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) दिनांक 31.05.2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

सं. 26/2(1)/2005-सीसीएस/32.--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री डी. बंधोपाध्याय, सुरक्षा अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500-10,500/-), परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, कोलकाता को दिनांक 01.08.2007 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक उसी केन्द्र में उप मुख्य सुरक्षा

अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

सं. 20/3(7)/2006-सीसीएस/33.--राष्ट्रपति, डा. जी. डी. पुंगले, आईडीएस (85), आंतरिक वित्त सलाहकार, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई को दिनांक 02.07.2007 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक, अपनी ड्यूटियों के अतिरिक्त, श्री पी. वेणुगोपालन, नियंत्रक जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होने के फलस्वरूप रिक्त हुए स्थान पर सांविधिक कर्तव्यों के निर्वाह हेतु शक्तियों सहित नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के पद की जिम्मेदारियाँ सौंपते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

दिनांक 21 अगस्त 2007

सं. 20/13(1)/2005-सीसीएस/34.--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री के. गोपालकृष्णन, सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500-10,500/-), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई को दिनांक 11.06.2007 (पूर्वाह्न) से दिनांक 01.08.2007 (पूर्वाह्न) तक की अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी केन्द्र में उप स्थापना अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

दिनांक 6 सितंबर 2007

सं. 21/3(2)/2007-सीसीएस/35.--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री एस. सांबत, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000-13,500/-), परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, कोलकाता को दिनांक 17.08.2007 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक उसी केन्द्र में उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

सं. 22/3(1)/2007-सीसीएस/36.--राष्ट्रपति, इस विभाग की श्रीमती शोभना प्रफुल्ल हडालगी, सहायक क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500-10,500/-), केन्द्रीय क्रय यूनिट, क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई को दिनांक 10.08.2007 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक उसी यूनिट में क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

सं. 26/2(1)/2005-सीसीएस/37.--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री देवदास जी. परदासनी, सहायक क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500—10,500/-), केन्द्रीय क्रय यूनिट, क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई को दिनांक 10.08.2007 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक उसी यूनिट में क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000—15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. 6(2429)/2006-प्रशा./5714.--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी (जी) (वेतनमान रु. 16,400-450-20,000/-) डॉ. बी. पूर्णय्या, को दिनांक 10 अगस्त 2007 के पूर्वाह्न से रु. 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में उसी विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी (एच) के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी  
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

मुंबई-400094, दिनांक 7 सितम्बर 2007

सं. पऊनिप/प्रशा/जी/214/629.--अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, श्री अशोक बी. गेरीरा, सहायक, परमाणु ऊर्जा विभाग को दिनांक 31 अगस्त, 2007 (अपराह्न) से आगामी आदेशों तक परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद में सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतनमान 6,500-200-10500/- रुपये) के रूप में नियमित आधार पर कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

वी. एम. थॉमस  
प्रशासन अधिकारी-III

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 13 सितम्बर 2007

सं. वीईसीसी/पदोन्नति(अगस्त)/2007/3366.--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के डॉ. ए. के. चौधरी, वैज्ञानिक अधिकारी 'जी' को इसी केन्द्र पर रु. 18400-500-22,400/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (एच) के पद पर काम करने के लिए 10 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं।

एस. बी. बोस  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. वीईसीसी/पदोन्नति(अगस्त)/2007/3367.--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के डॉ. उडायन डे, वैज्ञानिक अधिकारी 'जी' को इसी

केन्द्र पर रु. 18400-500-22,400/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (एच) के पद पर काम करने के लिए 10 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं।

एस. बी. बोस  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. वीईसीसी/पदोन्नति(अगस्त)/2007/3368.--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के डॉ. वाई. पी. वियोगी, वैज्ञानिक अधिकारी 'एच' को इसी केन्द्र पर रु. 22400-525-24,500/- के वेतनमान में विशिष्ट वैज्ञानिक के पद पर काम करने के लिए 10 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं।

एस. बी. बोस  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. वीईसीसी/पदोन्नति(अगस्त)/2007/3369.--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के श्री एस. के. मैत्रा, वैज्ञानिक अधिकारी 'जी' को इसी केन्द्र पर रु. 18400-500-22,400/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (एच) के पद पर काम करने के लिए 10 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं।

एस. बी. बोस  
प्रशासनिक अधिकारी-III

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. क्र.साराकेट/प्रशा./भ-902/886.--राष्ट्रपति एतद्वारा निर्माणरहित वैज्ञानिक अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित पदक्रम एवं दिनांक की पूर्वाह्न से स्थाई रूप से आगामी आदेशों तक राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में नियुक्त करने हैं:--

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद	दिनांक
1	2	3	4
1.	डॉ. (श्रीमती) अरुणा चक्रवर्ती	वै.अ./ई	01.04.2001
2.	श्री आशीष कुमार निवारि	वै.अ./डी	01.04.2002
3.	श्री सोभन चौधरी	वै.अ./डी	01.04.2003
4.	डॉ. हरनाथ घोष	वै.अ./ई	01.10.2003
5.	श्री प्रवीण मोहनिया	वै.अ.सी	01.10.2004
6.	श्री आकाश दीप	वै.अ./सी	01.10.2004
7.	श्री रितेश मलिक	वै.अ./सी	01.10.2004

1	2	3	4
8.	डॉ. कोस्तव दास	वै.अ./ई	01.04.2005
9.	श्री श्वेत केतु मिश्रा	वै.अ./सी	01.10.2005
10.	श्री नितिन लूलानी	वै.अ./सी	01.10.2005
11.	श्री सन्यासी राव बोम्बिलि	वै.अ./सी	01.10.2005
12.	श्री रवि शंकर वर्मा	वै.अ./सी	01.10.2005
13.	श्री सी कमल	वै.अ./सी	01.10.2005
14.	श्री सुरेन्द्र यादव	वै.अ./सी	01.10.2005
15.	श्री अब्दुर्हीम	वै.अ./सी	01.10.2005
16.	श्री हिमांशु श्रीवास्तव	वै.अ./सी	01.10.2005
17.	श्री सरोज कुमार जेना	वै.अ./सी	01.10.2005
18.	कु. अमिता चतुर्वेदी	वै.अ./सी	01.10.2005
19.	श्री सिद्धेश अरूण पाई	वै.अ./सी	01.10.2005
20.	श्री अनुज उपाध्याय	वै.अ./सी	01.10.2005
21.	श्री अनिरुद्ध बोस	वै.अ./सी	01.10.2005
22.	श्री प्रवीण कुमार यादव	वै.अ./सी	01.10.2005
23.	डॉ. चन्द्र पाल सिंह	वै.अ./डी	01.04.2006
24.	श्रीमती इतिश्री कल्पना नायक	वै.अ./सी	01.10.2006
25.	श्री तिरूमला प्रसाद टेन्का	वै.अ./सी	01.10.2006
26.	श्री राजेश कुमार पाटीदार	वै.अ./सी	01.10.2006

टी. एन. नायर  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

#### नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.1358/1464.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री पी. के. मार्थन्डा पिल्लै, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) ने दिनांक 31.05.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.0845/1465.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री पी. जे. विजयन, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' (वेतनमान रु. 12,000-

375-16,500/-) ने दिनांक 31.05.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.2229/1466.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री ए. वेंकट रामा राव, वैज्ञानिक अधिकारी 'जी' (वेतनमान रु. 16,400-450-20,000/-) ने दिनांक 30.06.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.0328/1467.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री प्रकाश, वैज्ञानिक अधिकारी 'डी' (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/-) ने दिनांक 31.08.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.2280/1468.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री के. लक्ष्मण राव, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) ने दिनांक 31.07.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.1319/1469.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री सी.एच. सिंघिया, सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-) ने दिनांक 31.07.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.2857/1470.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री सी. नागेश्वर, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) ने दिनांक 31.05.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.0140/1471.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री एम. एस. हरनाथा शर्मा, वरिष्ठ निजी सचिव (वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/-) ने दिनांक 31.07.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.2826/1472.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री के. के. रामानुजाचार्युलु, वैज्ञानिक अधिकारी 'एफ' (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300/-) ने दिनांक 31.05.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.3333/1473.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री एन. रवीन्द्रनाथ, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' (वेतनमान रु. 12,000-375- 16,500/-) ने दिनांक 30.06.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.0817/1474.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री एस. चौधरी, वैज्ञानिक अधिकारी 'एच' (वेतनमान रु. 18,400-500- 22,400/-) ने दिनांक 31.07.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.1897/1475.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री एन. भारत राज, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' (वेतनमान रु. 12,000-375- 16,500/-) ने दिनांक 30.06.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.2920/1476.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री के. गुरुमूर्ति, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' (वेतनमान रु. 12,000-

375- 16,500/-) ने दिनांक 30.06.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.0231/1477.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री पी. वी. रमना मूर्ति, वैज्ञानिक अधिकारी 'एफ' (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300/-) ने दिनांक 31.05.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.0815/1478.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री पी. एस. प्रकाश, वैज्ञानिक अधिकारी 'एच' (वेतनमान रु. 18,400-500- 22,400/-) ने दिनांक 30.04.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.2710/1479.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री पी. बसवेश्वर राव, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) ने दिनांक 31.07.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.0623/1480.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री एम. एच. भिक्षुपति, वैज्ञानिक अधिकारी 'सी' (वेतनमान रु. 8,000-275- 13,500/-) ने दिनांक 30.06.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.1268/1481.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री वी. के. गोपालकृष्णन, वैज्ञानिक अधिकारी 'सी' (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/-) ने दिनांक 31.05.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी



सं. नाईस/प्रशा./पें/का.कू.0792/1482.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री पी. एन. सदाशिवन पिल्लै, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) ने दिनांक 30.04.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति  
सहा. कार्मिक अधिकारी

हैदराबाद-500062, दिनांक 8 सितम्बर 2007

सं. नाईस/काप्रभ./I/03/58/1076.--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, श्री वी. एस. रामाकृष्णा राव, आशुलिपिक ग्रेड-I को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 22.08.2007 (पूर्वाह्न) से 21.11.2007 तक भावी आदेश होने तक अस्थाई हैसियत में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न नियुक्त करते हैं।

ए. एस. लक्ष्मण राव  
प्रशासनिक अधिकारी-III

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. पखनि/4/3/2007-भर्ती/842.--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को दर्शायी गई तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में रु. 18,400-500-22,400/- के वेतनमान पर वैज्ञानिक अधिकारी-एच के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	धारित स्थायी पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	सर्वश्री अच्युत पंडित (डॉ.) एस.	वैज्ञा. अधि.-जी	वैज्ञा. अधि.-एच	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	10.08.2007
2.	उनामहेश्वर के.	वैज्ञा. अधि.-जी	वैज्ञा. अधि.-एच	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	10.08.2007

डॉ. अंजन चाकी  
निदेशक

कम्पनी कार्य मंत्रालय  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोटद्वार रीफैक्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2007

सं. एल.सी./560(3)/1253.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कोटद्वार रीफैक्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

पटना-800001, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी. पैट 560(5)/5123.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती

है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिया जाता है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:-

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	4068	मैसर्स होटल अनिस प्राईवेट लिमिटेड
2.	4076	मैसर्स चामुण्डा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
3.	4079	मैसर्स राधे सावित्री कांटेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	4045	मैसर्स योशीबा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
5.	4059	मैसर्स शालो कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
6.	4056	मैसर्स ट्रिगुनैट कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
7.	3927	मैसर्स शेखर फाऊंडरी वर्क प्राईवेट लिमिटेड
8.	3926	मैसर्स रॉन कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
9.	4050	मैसर्स इंडिया कुकरस प्राईवेट लिमिटेड
10.	4051	मैसर्स अविनाश इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
11.	3931	मैसर्स दी खंडेलवाल टेक्सटाइल्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	3945	मैसर्स निवास बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	3943	मैसर्स एम. के. प्रोडक्ट्स एण्ड प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	3940	मैसर्स अजयावनी पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	3938	मैसर्स पाठक कोल्डस्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
16.	3937	मैसर्स कुवर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	3935	मैसर्स हजारीबाग कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
18.	3932	मैसर्स जपला कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
19.	3921	मैसर्स दाऊदनगर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
20.	3928	मैसर्स छापरदाह कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
21.	4134	मैसर्स छाबरिया केम डीसीविलरिस प्राईवेट लिमिटेड
22.	4136	मैसर्स आवास फाऊंडेशन एण्ड कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	4140	मैसर्स सशक्ति इंजीकोन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	4141	मैसर्स कैप्टन ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
25.	4146	मैसर्स अजय प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	4148	मैसर्स पुष्पांजली डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	4147	मैसर्स श्री राधा कृष्णा इंजीकोन्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	4149	मैसर्स मिनाक्षी नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
29.	4151	मैसर्स इंदुनगम बिल्डर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
30.	4159	मैसर्स एस. एस. ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	3674	मैसर्स कृष्णा इंजीटेक प्राईवेट लिमिटेड
32.	3702	मैसर्स एस. एम. रबर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	3703	मैसर्स भरत सिंह कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
34.	3705	मैसर्स फनटास्ट ओ प्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड
35.	3708	मैसर्स लालमणि पिगमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	3713	मैसर्स अम्बुजा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	3717	मैसर्स आनन्द विहार इंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
38.	3721	मैसर्स गुंछा इंजीकोन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	3669	मैसर्स पारामाऊंट ग्लास इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
40.	3663	मैसर्स अभिनवा अपार्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
41.	3720	मैसर्स सोन नगर फूड एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
42.	3675	मैसर्स जॉइंटिक कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
43.	3718	मैसर्स इंदुप्रस्था कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
44.	3661	मैसर्स डायक इंजीनियरिंग एण्ड कंसलटेंट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
45.	3673	मैसर्स माडन हेंचरीज प्राईवेट लिमिटेड
46.	3670	मैसर्स लक्ष्मी स्पेशल स्मोकलेस फायूल प्राईवेट लिमिटेड
47.	3662	मैसर्स डॉ. के. मिटरस एण्ड इक्विपमेंट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
48.	6938	मैसर्स कत्राक साफ्टवेयरस प्राईवेट लिमिटेड
49.	865	मैसर्स ग्रिहार एरोमेटिक प्राईवेट लिमिटेड
50.	937	मैसर्स निरहुत फूड्स एण्ड एगो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
51.	817	मैसर्स मिनको ट्रायलान मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	948	मैसर्स विद्युत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	972	मैसर्स मिटकम इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	1803	मैसर्स जे. डी. कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
55.	1874	मैसर्स सोलंकी कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
56.	1806	मैसर्स होटल रूपसी प्राईवेट लिमिटेड
57.	1865	मैसर्स बी. आई. कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	203	मैसर्स डॉ. धियाहुत कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
59.	2851	मैसर्स रांची मॉनोफालामेंट इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
60.	370	मैसर्स ग्रिहार एग्रीकल्चरल सोशल यूनिट प्राईवेट लिमिटेड
61.	668	मैसर्स विहार कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
62.	361	मैसर्स मगध कोल्डस्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
63.	672	मैसर्स पर्यावरण ट्रांसपोर्टेशन एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
64.	2570	मैसर्स लक्ष्मी डेटा प्राईवेट लिमिटेड
65.	2272	मैसर्स सन कव्हर कोल्डस्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
66.	1912	मैसर्स कार्नाटक बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	1951	मैसर्स प्रधान कंस्ट्रक्शन्स एण्ड केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	2345	मैसर्स मॉरिंग प्लाइवुड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
69.	2466	मैसर्स ओरिजेंट फूड प्राईवेट लिमिटेड
70.	2255	मैसर्स कमला लेम्प प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
71.	2251	मैसर्स अमित कॉसमेटिक्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	8193	मैसर्स मुनेश्वर योगेश्वर आदर्श कोल्डस्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
73.	8189	मैसर्स टेक्सास इंफार्मेशन टेक्नोलोजी लिमिटेड
74.	8155	मैसर्स खब्बास एग्रो ऑटो मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
75.	8196	मैसर्स आनंदी आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
76.	8194	मैसर्स प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट कंसलटेंसी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
77.	3876	मैसर्स तौफिल अहमद खान कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
78.	3600	मैसर्स छोटानागपुर आयुर्वेद भवन प्राईवेट लिमिटेड
79.	3650	मैसर्स मेगा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	3649	मैसर्स सुविधा मार्केटिंग एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
81.	3648	मैसर्स जे. के. नर्सिंग होग प्राईवेट लिमिटेड
82.	3645	मैसर्स अलडमुन एकजीम प्राईवेट लिमिटेड
83.	3644	मैसर्स चन्दन कुन्दन कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	3642	मैसर्स टेलेन्ट कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
85.	3640	मैसर्स बिरसा कोल केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	3638	मैसर्स विशाखा किव-मेक प्राईवेट लिमिटेड
87.	3637	मैसर्स जुगआर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
88.	3512	मैसर्स बिमला फलावर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	3511	मैसर्स नयना केमिकल्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	3633	मैसर्स जे. जी. कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
91.	3514	मैसर्स मेडीक्यूस्ट लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
92.	3542	मैसर्स साहबदेव इंजीकॉन प्राईवेट लिमिटेड
93.	3526	मैसर्स कामधेनु डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	3528	मैसर्स संजीव कंस्ट्रक्शन (रांची) प्राईवेट लिमिटेड
95.	3529	मैसर्स जानकी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	3531	मैसर्स विन्ध्यवासनी कार्बन्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	3534	मैसर्स शिव गाडगेट्स एण्ड एप्लायसेंस प्राईवेट लिमिटेड
98.	3539	मैसर्स पी. एच. कंसलटेंट्स आर्चीटेक्ट्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
99.	3541	मैसर्स अशोका कल्सीवाइड कोक प्राईवेट लिमिटेड
100.	3548	मैसर्स विवेक विशाल आग्नेनिक केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

के. प्रसाद  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एण्ड झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

पटना-800001, दिनांक 21 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी. पैट 560(5)/5163.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्र से काट दिया जाता है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3550	मैसर्स के. बी. पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	3551	मैसर्स आइडियल बिस्कुट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	3577	मैसर्स बमभोले खांडसरी सुगर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	3575	मैसर्स ऑग्रेनाइज फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	3570	मैसर्स जगदम्बा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	3569	मैसर्स वाइस टेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	3568	मैसर्स हर्षवर्धन डेवलपर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
8.	3565	मैसर्स एम. बी. ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	3564	मैसर्स एडवीन फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
10.	3563	मैसर्स पेट्रो केम प्राईवेट लिमिटेड
11.	3578	मैसर्स विंध्यवासनी खांडसरी सुगर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	3618	मैसर्स रविशंकर प्रसाद कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
13.	3616	मैसर्स बी. कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
14.	3615	मैसर्स देवानन्द कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
15.	3614	मैसर्स दिवेद्री कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
16.	3612	मैसर्स सजेंट कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
17.	3611	मैसर्स भवन परिजात बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
18.	3610	मैसर्स विजेता विकली लॉटरी एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड	49.	3742	मैसर्स आर. एम. पी. सिन्हा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
19.	3875	मैसर्स रीता बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	50.	3745	मैसर्स रत्नाशर तिवारी कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
20.	3874	मैसर्स विद्यापती कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	51.	3750	मैसर्स राजेश्वर यादव बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	3871	मैसर्स प्रतिमा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	52.	3751	मैसर्स शिवकुमार बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	3872	मैसर्स बन्ता कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	53.	3755	मैसर्स के. जी. सी. मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
23.	3870	मैसर्स महापती कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	54.	3756	मैसर्स रामेश कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	3868	मैसर्स राजकुमार बंशीधर कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	55.	3779	मैसर्स कोशरी नंदन कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
25.	3867	मैसर्स रामचंद्रा एण्ड वागेश्वर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	56.	3700	मैसर्स एस. जी. पाइप्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	3865	मैसर्स घायल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	57.	4017	मैसर्स इस्टर्न पोलस प्राईवेट लिमिटेड
27.	3863	मैसर्स कनक लेमिनेटेड शीट इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	58.	4019	मैसर्स शेर हाउस कम्पलेक्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	3862	मैसर्स चित्रागुप्ता बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	59.	4028	मैसर्स चौक कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
29.	3810	मैसर्स उमाकान्त कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	60.	4013	मैसर्स वैद्यनाथ कोल्डस्टोरेज एण्ड टी प्लान्ट प्राईवेट लिमिटेड
30.	3849	मैसर्स ऊदयान बिल्डर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	61.	4011	मैसर्स नाग कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
31.	3846	मैसर्स ए. पी. धनवा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	62.	4007	मैसर्स अमल केमिकल्स एण्ड डिस्ट्रीलरीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
32.	3853	मैसर्स कौशलया कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	63.	4005	मैसर्स अमरगन्धा प्रसाद सिंह कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
33.	3852	मैसर्स एस. के. पी. बिल्डर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	64.	4004	मैसर्स जय भोलानाथ कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
34.	3856	मैसर्स रविन्द्रा कुमार सिंह कंट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	65.	4003	मैसर्स देव माना ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
35.	3854	मैसर्स सिन्हा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	66.	4002	मैसर्स आनंद कुंज स्टेट डेवलपर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
36.	3804	मैसर्स एच. बी. इंजीटेक प्राईवेट लिमिटेड	67.	4001	मैसर्स अमर रत्न स्टेट प्राईवेट लिमिटेड
37.	3809	मैसर्स अमर उजाला कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	68.	3903	मैसर्स चौधरी एण्ड अच्युत कम्पनी (1989) प्राईवेट लिमिटेड
38.	3771	मैसर्स अमन राकेश कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	69.	3908	मैसर्स राम विरीकठ कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
39.	3778	मैसर्स फारबिसगंज कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	70.	3911	मैसर्स कर्मावरेकनो इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	3877	मैसर्स सीताराम सिंह कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	71.	3914	मैसर्स कल्याणनीशा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
41.	3727	मैसर्स स्वान (इंडिया) कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	72.	3915	मैसर्स कोरा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
42.	3728	मैसर्स एस. आई. पी. हैचरी प्राईवेट लिमिटेड	73.	3919	मैसर्स रामलखन इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
43.	3732	मैसर्स नव नालंदा बिहार कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	74.	4042	मैसर्स सी. बा. इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	3733	मैसर्स रंगलालाही कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	75.	4118	मैसर्स के. एन. कम्प्यूटर्स इन लिमिटेड
45.	3735	मैसर्स पूजा स्मोकलेस फ्यूल एण्ड कोलतार प्राईवेट लिमिटेड	76.	4040	मैसर्स के. वी. तिवारी कंट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	3736	मैसर्स पूजा पिगमेंट एण्ड ऑयल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	77.	4091	मैसर्स टी. के. बिल्डर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
47.	3737	मैसर्स लारकानस प्राईवेट लिमिटेड	78.	4089	मैसर्स श्रीगणेश प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	3740	मैसर्स रोसपा प्रिन्टेक प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
79.	4103	मैसर्स रीतू शुगर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	4101	मैसर्स पलामू बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	4100	मैसर्स रणविजय सिंह कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
82.	4083	मैसर्स मिजय एण्ड मिजय एनर्जी इक्यूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	4094	मैसर्स पीकौक बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	4093	मैसर्स तीरहूत फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	4038	मैसर्स पुरुषोत्तम कंटेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	4088	मैसर्स कुसूमपुर रूलर री-कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
87.	4121	मैसर्स दीपशीखा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	4120	मैसर्स शशी फटीलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	4125	मैसर्स नासरीगंज इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	4043	मैसर्स ट्रस्टेड कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	4123	मैसर्स सुनीछा केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
92.	6938	मैसर्स क्वार्क सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
93.	4129	मैसर्स मारुती कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
94.	4037	मैसर्स अमित टेक्नो इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
95.	4032	मैसर्स जी. एन. कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
96.	4014	मैसर्स रीजेंसी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	4086	मैसर्स शहानिको बिस्कुट प्राईवेट लिमिटेड
98.	4115	मैसर्स एसोसिएटेड जिक इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
99.	4184	मैसर्स एफीक एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
100.	10279	मैसर्स त्रिपुर सुंदरी कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
101.	4182	मैसर्स डी. एन. आर. इंजीकॉन प्राईवेट लिमिटेड
102.	4178	मैसर्स कौटिल्या सिक्कूरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
103.	4177	मैसर्स अम्बर इलेक्ट्रोनिक्स (इंडिया) लिमिटेड
104.	4173	मैसर्स सिकराना निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
105.	4169	मैसर्स ग्लोरियस कंसलटेंट एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
106.	4167	मैसर्स आर. एन. सराफ मार्केटिंग (इंडिया) लिमिटेड
107.	4163	मैसर्स ओशो फैंबकैम इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
108.	4162	मैसर्स शांडिलय एण्ड पंडित कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
109.	4161	मैसर्स अशल केम प्राईवेट लिमिटेड
110.	4156	मैसर्स बी. एन. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	4158	मैसर्स वर्मा मेकानाइज्ड बिरीक्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	3925	मैसर्स ए. बी. डी. रॉय कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
113.	3924	मैसर्स अनंतकला कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
114.	3923	मैसर्स जमुआर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
115.	3921	मैसर्स एल. एन. कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
116.	3920	मैसर्स मिडानिया कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
117.	3408	मैसर्स कम्प्यूटेग कार्विंग एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
118.	3407	मैसर्स कौटिल्या डेवलपर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
119.	3409	मैसर्स शिवाल्या मार्केट्स इंडिया लिमिटेड
120.	3404	मैसर्स प्रोग्रेसिव फियूल्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	3402	मैसर्स पंचम एग्रोकैम इंडस्ट्रीज (इंडिया)
122.	3401	मैसर्स समता कोल्डस्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
123.	3592	मैसर्स ओमकार फेरोकार्स्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
124.	3583	मैसर्स अरमान कंस्ट्रक्शन एण्ड लैंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
125.	3585	मैसर्स पाबरा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
126.	3591	मैसर्स पायलान रिसोर्ट्स एण्ड स्टेस प्राईवेट लिमिटेड
127.	3500	मैसर्स रामसन्स ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
128.	3504	मैसर्स एस. आर. एस. कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
129.	3505	मैसर्स महालक्ष्मी कल्टीवेटर इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
130.	3506	मैसर्स भीमा इंजीकॉन प्राईवेट लिमिटेड
131.	3415	मैसर्स अरचन जेनीस कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
132.	3418	मैसर्स एस्पार्टको एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
133.	3426	मैसर्स तुरया कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
134.	3425	मैसर्स गिद्धौर स्टेड प्राईवेट लिमिटेड
135.	3456	मैसर्स श्याम यादव कोल्डस्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
136.	3459	मैसर्स एस. एस. आर. कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
137.	3461	मैसर्स डायमालवा कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
138.	3449	मैसर्स शार्क एम्पेरल प्राईवेट लिमिटेड
139.	3437	मैसर्स चम्पारण केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	3453	मैसर्स एम. एस. लेदर्स प्राईवेट लिमिटेड
141.	3421	मैसर्स सुमन शॉप प्राईवेट लिमिटेड
142.	3439	मैसर्स विश्वनाथ कॉनसेटेक प्राईवेट लिमिटेड
143.	3443	मैसर्स आस्था कम्प्यूटर्स एण्ड डाटा प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड
144.	3445	मैसर्स ए. प्रत्यूष प्रिंटिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
145.	3446	मैसर्स अल्ट्रा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
146.	3484	मैसर्स सीमान्त ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड
147.	3485	मैसर्स किरण डेवलपर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
148.	3487	मैसर्स भोला कोल इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
149.	3495	मैसर्स त्रिमूर्ति हायर पचेज प्राईवेट लिमिटेड
150.	3458	मैसर्स पाटलीपुत्र वनस्पती (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
151.	3432	मैसर्स वर्द्धमान कोल्ड स्ट्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड
152.	3482	मैसर्स सपना अपार्टमेंट्स लिमिटेड
153.	3480	मैसर्स विश्ववर प्रसाद सिंह कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
154.	3467	मैसर्स आश्रमो इंजीनियर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
155.	3416	मैसर्स बिहार रिसर्च एण्ड स्टडीज प्राईवेट लिमिटेड
156.	3428	मैसर्स सनराइज टनिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
157.	3429	मैसर्स ए. ए. के. कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
158.	3430	मैसर्स पी. के. आर. कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
159.	3436	मैसर्स फ्रेंड्स कार्बोनिक इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
160.	3438	मैसर्स मोती फटीलाइजर प्राईवेट लिमिटेड
161.	3400	मैसर्स सुनील एण्ड सुरेन्द्रा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
162.	3772	मैसर्स राणा एण्ड राणा फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
163.	3759	मैसर्स बेनिफिक सिक्यूरिटी सर्विसेज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
164.	3760	मैसर्स भगवान भगवानी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
165.	3761	मैसर्स बाबा काशी विश्वनाथ कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
166.	3764	मैसर्स ओ. एस. कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
167.	3768	मैसर्स मिथिलांचल कैंटल फीड्स प्राईवेट लिमिटेड
168.	3770	मैसर्स जयाम बहादुर सिंह निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
169.	4189	मैसर्स पल्लवी मोटल प्राईवेट लिमिटेड
170.	4193	मैसर्स सिंह एण्ड शर्मा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
171.	4195	मैसर्स ओझा सिरामिक प्राईवेट लिमिटेड
172.	4188	मैसर्स टेक्सास रेऑन प्राईवेट लिमिटेड

क. प्रसाद  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुरुकृपा ऑटो लिंकर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/33492/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स गुरुकृपा ऑटो लिंकर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विक्रमेशी रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/33172/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स विक्रमेशी रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नरोडा जिमखाना प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/33163/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आरओसी/33408/एसटीए/560/2007-08. --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स सर्विस ऑटो-पैक प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्ज



नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रजभूमि फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 13 અગસ્ટ 2007

सं. आर.ओसी/33423/एसटीए/560/2007-08.---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स ब्रजभूमि फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निगर जिमखाना प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/33445/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स निंगर जिमखाना प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रेरणा टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/33490/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स प्रेरणा टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स त्रिडेन्ट इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/32417/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स त्रिडेन्ट इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नीरज रिफोइल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 13 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/32284/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स नीरज रिफाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जयदीप डायजीन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 13 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/32392/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स जयदीप डायजीन प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हिंगलाज एग्रो स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૩ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/8855/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स हिंगलाज एमो स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिलेश्वर ऑयल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૩ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/27011/एसटीपी/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स बिलेश्वर ऑयल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बोल्ड मैन्यूफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/28999/एसटीए/560/2007-08.---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स बोल्ट मैनुफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एसेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૩ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/26670/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स एसेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं

किए गए तो रजिस्टर में वापस दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

પો. એલ. અલેક્ઝ  
સહાયક કમ્પની મેજસ્ટ્રાર  
ગુજરાત, દાદરા અને નગર હવેલી

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रत्नदीप फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૪૦૦૧૩, દિનાંક ૧૩ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/26982/एमटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स एमटीए फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शाते नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. धीरूक  
सहायक कम्पनी मैनेजर  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कंपनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रंज टेक्नो-इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद - 380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/26721/एमटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैक्स ब्रंज टेक्नो-इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी मॅनेजर  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दुष्यंत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૬૦૦૧૩, દિનાંક ૧૩ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/26930/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स शुभंकर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शाते नहीं किए गए तो रजिस्टर में काट दिया जाएगा और कम्पनी विफल कर दी जाएगी।

पी. एल. नातिक  
 सहायक कम्पनी मॅनेजर  
 गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आरओसी/32855/एसटीए/560/2007-08. --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स नेस्ट ट्रांसमिशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

सं. आरओसी/32499/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स मधुरम सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स संजोग फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૩ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/32489/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स संजोग फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आशीर्वाद डेरी प्राइवेट लिमिटेड  
के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 13 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/32680/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 को धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स आशीर्वाद डेरी प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स परफेक्ट लुब्रिकेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/32713/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स परफेक्ट लुब्रिकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरूण डाइस्टक प्राइवेट लिमिटेड  
के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૩ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/32526/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स अरूण डाइस्टक प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चोटीला जिमखाना प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 13 અગસ્ટ 2007

सं. अमरओसी/32468/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560-की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स चोटीला जिमखाना प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स युवराज पोलीसेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 13 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/33179/एसटीए/560/2007-08.---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स युवराज पोलीसेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली.

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स केशान फेशन प्राईवेट लिमिटेड  
के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/42811/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स केशान फेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एकता स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 13 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/8965/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स एकता स्टील प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए-वन जिमखाना प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/8781/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स ए-वन जिमखाना प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जोली फेब्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/8759/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तरीख से तीन महीने के बाद मैक्स जॉन्सी फेब्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शन नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मॉन्क  
सहायक कम्पनी मॅनेजर  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अहमदाबाद पोलीक्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/8735 एस्टीए/560/2007-08. --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस दफ़्तर से तीन महीने के बाद सैसर्स अहमदाबाद क्लीनिक प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शाते नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मल्लिक  
सहायक कम्पनी संचालक  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पाटीधर सोशल क्लब प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૩ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/8668/एस्टीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स प्राइवेट सोशल क्लब प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शाते नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मणिक  
 सहायक कम्पनी मैजिस्ट्रेट  
 गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और गैसर्स रांको इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. आरओसी/8488/एसटीए/560/2007-08. --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स एको इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण संश्लेषित



सं. आरओसी/8130/एमटीए/560/2007-08. --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस नारिख से तीन महीने के बाद मैसम इको



डेवलेपमेंट एण्ड मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वानज्य पोलीपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૩ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/8359/एसटीए/560/2007-08.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स वानज्य पोलीपेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रायल प्री-कास्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 14 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/27641/एसटीए/560/2007-08.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स रायल प्री-कास्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शुभ योग लीसिंग एण्ड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 14 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/27653/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स शुभ योग लीसिंग एण्ड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पुश्करावत फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 14 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/27628/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स पुश्करावत फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनीकट मोटोल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 14 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/28394/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स अनीकेट मोटेल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 14 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/27507/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स राज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेनकोक्स कम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 14 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/28361/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स जेनकोक्स कम प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्वीसकेम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 14 अगस्त 2007

सं. आरओसी/28530/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स स्वीसकेम हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हर्ष सिक्कूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड  
के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૪ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/28541/एसटीए/560/2007-08. --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स हर्ष सिक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शाते नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डेवीना सिक्कूरटिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 14 अगस्त 2007

सं. आरओसी/29334/एसटीए/560/2007-08. --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स डेवीना सिव्क्यूरीटीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बबलू कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૪૦૦૧૩, દિનાંક ૧૪ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/28639/एम्पटीए/560/2007--08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इम् नारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स यशवन्त कार्गो मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण अर्पित नहीं किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मानक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अपना टेलीविजन एण्ड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૪ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/29464/एडटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह  
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स अपना  
टेलीविजन एण्ड कम्प्यूटिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके  
प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा  
और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मानक  
सहायक कम्पनी मॅनेजर,  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हरिधाम फाइनैस एण्ड इन्वेंस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૪ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/28563/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 को उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस मार्गचूच से तीन महीने के बाद मैसर्स हांशाम फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्राधिकृत कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. भास्कर  
सहायक कम्पनी मॅनेजर  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोविंद सोफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद- ३८००१३, दिनांक १४ अगस्त २००७

सं. आरओसी/28845/एमटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सं. आरओसी/29762/एसटीए/560/2007-08.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

सं. आरओसी/33173/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसम गणदी



सं. आरओसी/5781 एचटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स मेसर्स

सं. आरओसी/5830/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स एच राजचन्द्र सिमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण

सं. आरओसी/50/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सुझाव दी



पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आरओसी/30510/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

गुजरात, दादरा एवं न्या. त्वेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मार्शल फिनस्टोक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૬ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/30745/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स मार्शल फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कार्ड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૬ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/30712/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स कार्ड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अल्ट्रापयोर आइस-ब्रूक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/27666/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स अल्ट्रापयोर आइस-क्व्यूब प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हमेदाबाद कॉटन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/10/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956  
की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स हमेदा कॉटन मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शाते नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माऊंट पेकर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૬ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/31235/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स माऊंट पेकर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली.

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अर्थ बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/31222/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स अर्थ बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजमनी पोली-केम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 16 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/31219/एसटीए/560/2007-08.---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स राजमनी पोली-केम प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिप्ती ओवरसीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/31675/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स दिप्ती ओवरसीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नवज्योत फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/31644/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स नवज्योत फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्योर मेटल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૬ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/31628/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स प्योर मेटल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हब्ब क्लब प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૬ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/5413/एनटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तरीख से तीन महीने के बाद मैसर्स हक्क क्लब प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मल्लिक  
सहायक कम्पनी मॅनेजर  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जीवनलाल चौधरी इनव्हेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/5446/एसटीए/560/2007-08. --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 को उपधारा (3) के अनुसर्ण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स जीवनन्दा चौधरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. सांख्यिक  
सहायक कम्पनी साजमंदार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शुभलक्ष्मी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/27771/एमटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स शुभलक्ष्मी प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी मॅनेजस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आइसबर्ग जून फिसकल एंजवैस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ ૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૬ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/27111 एमटीए/560/2007-08.-कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स आइसबर्ग जून फिसक्ल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रमुख ओक्सीटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/27059/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स प्रमुख ओक्सीटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पालमोन फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/27269/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स पालमोन फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महाली मारबल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/27160/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स महाली मारबल प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं

किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुरुआशीष शिप ब्रेकिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/27212/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स गुरुआशीष शिप ब्रेकिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री इम्पेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/27196/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स श्री इम्पेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लहर गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/27435/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स लहर गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चैताली इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/27976/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स चैताली इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्टार बोर्डिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/9779/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स स्टार बोर्डिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री तुलसी एल्युमिन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/29697/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स श्री तुलसी एल्युमिन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वास्तु संस्कार प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/9766/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स वास्तु संस्कार प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रथ ट्रेवलनेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/30620/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स रथ ट्रेवलनेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रूबी लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/9737/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स रूबी लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डेइजी टोयस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 16 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/9679/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स डेडजी टोयस प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिराज सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 16 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/9673/एसटीए/560/2007-08.---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स शिराज सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भूमिका इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 16 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/9662/एसटीए/560/2007-08.---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स भूमिका इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण

दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जय जय इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૬ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/9646/एसटीए/560/2007-08. --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स जय जय इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एचजय इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 16 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/9644/एसटीए/560/2007-08.---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स दिप्ती एचजय इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टेहमुरास इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 16 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/9642/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स टेहमुरास इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

दर्शित नहीं किए गए तो गंजमस्टर से काट दिया जाएगा और कानून  
विधटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मणिमकर  
सहायक कम्पनी गंतव्यद्वारा  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैमर्स श्री रीयल्टी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૬ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/25345/एनटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स श्री गणपत्ये प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. नौवक  
सहायक कम्पनी मालदार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सातवीक इनटेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद- 380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/27184 एम्पटोप/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स सतवीक इनटेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एन. मलिक  
सहायक कम्पनी मैनेजर  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रेप-रेव अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद- 380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/25258 एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स एम रेव अर्थ मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण अर्थात् नहीं किए गए तो रजिस्टर में काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. नॉनिक  
सहायक कम्पनी मॅनेज्मन्ट  
गुजरात, दादरा एवं नगव हवेली





कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रह्मा एरोकेम प्राईवेट लिमिटेड  
के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/24167/एसटीए/560/2007-08.---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की संधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस दायीख से तीन महीने के बाद मैसर्स प्रिया एरोकेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. माने  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ही-टाइम सिक्यूरिटी एण्ड  
इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૬ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/24139/एमप्रैए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस ताराख से तीन महीने के बाद मैसर्स ही-राइम सिव्यूरिटी एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकार कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. माव्या  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कालिन्दी फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/24109/एसटीए 560/2007-08. --कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स कालिन्दा फार्मिनेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया जाए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मर्विक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 अंग मैसर्स जयसन स्टील्स एण्ड एलायम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007  
 सं. आरओसी/24102/एसडीए/560/2007-08. --कम्पनी अधिनियम  
 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स जयसन स्टील्स एण्ड एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुप्रीम एक्वा एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. आरओसी/24090/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स सुप्रीम एक्वा एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 18 सितम्बर 2007

सं. क.र./प.ब./आइ पी सी/560(एसएम)/07.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सू मोटे के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	19319	मैसर्स ए पंडित एण्ड ब्रदर्स (1916) प्राईवेट लिमिटेड
2.	89949	मैसर्स ए बी गेल्बेनाइसिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	72450	मैसर्स आयुष एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
4.	72451	मैसर्स आयुष सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	46045	मैसर्स अभिनव कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	80086	मैसर्स अभिषेक प्लाई प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	29722	मैसर्स अचारी एण्ड कम्पनी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
8.	78510	मैसर्स एडकॉम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	27766	मैसर्स एडसाइन डिजाइन एण्ड डिसप्ले सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
10.	85059	मैसर्स एडवांस फेब्रिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
11.	36658	मैसर्स एडविष्म केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	19288	मैसर्स एजेन्सीज एण्ड सप्लायज प्राईवेट लिमिटेड
13.	27313	मैसर्स एग्रीकल्चरल इन्पुट्स सप्लायज प्राईवेट लिमिटेड
14.	30300	मैसर्स एयर कम्प्रेसर एण्ड नियुमेटिक टूल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
15.	53966	मैसर्स अजीत प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	29842	मैसर्स अलाड्रो प्राईवेट लिमिटेड
17.	30356	मैसर्स अल्बेट्रोस प्राईवेट लिमिटेड
18.	85640	मैसर्स एलॉयड फेब्रिकेटर एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	79068	मैसर्स अम्को कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
20.	81242	मैसर्स अनाम कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	38637	मैसर्स अनामिका सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
22.	44251	मैसर्स अनन्या लीजिंग एण्ड हाउसिंग फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	84052	मैसर्स एएनसी ट्रेडिंग एण्ड फाइनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
24.	31104	मैसर्स एन्जेल फाइनांस (चिट) एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
25.	44888	मैसर्स अंगलिया पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	23090	मैसर्स अंजन फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
27.	19491	मैसर्स अत्रापूणा फार्मिंग एण्ड फिशेरिज प्राईवेट लिमिटेड
28.	55209	मैसर्स अनु मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
29.	82879	मैसर्स अनुदीप कोमोडिटीज प्राईवेट लिमिटेड
30.	85171	मैसर्स अनुप्रा सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	78056	मैसर्स अनुरोध कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
32.	19826	मैसर्स अनुशीलन एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
33.	79757	मैसर्स अप्कॉन एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	68994	मैसर्स अपोजी मर्कैन्डायल प्राईवेट लिमिटेड
35.	79823	मैसर्स एपीएस गृह निर्माण कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
36.	66373	मैसर्स अप्सरा ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
37.	75861	मैसर्स एक्युला ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
38.	55364	मैसर्स अराश इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
39.	85597	मैसर्स एरिज इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
40.	28784	मैसर्स अरूण सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	28312	मैसर्स अरूण टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
42.	30366	मैसर्स अरवीन चिट्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
43.	84260	मैसर्स अशान प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
44.	55490	मैसर्स आशिश कम्प्यूटर कंसलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
45.	28426	मैसर्स अशोक स्टील कारपोरेशन लिमिटेड
46.	24682	मैसर्स एसियाटिक मैनुफैक्चर एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
47.	09597	मैसर्स आसा बंगाल कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
48.	30659	मैसर्स एसोसियेटेड कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
49.	27067	मैसर्स एसोसियेटेड फोर्ज सेलिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
50.	27377	मैसर्स एसोसियेटेड पैटर्नड एण्ड वायर्ड ग्लास प्राईवेट लिमिटेड
51.	85198	मैसर्स एस्टर गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	78289	मैसर्स अटलांटा कंसलटेन्सी एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
53.	26816	मैसर्स एटलस इण्डस्ट्रीज (बैटरी) प्राईवेट लिमिटेड
54.	76609	मैसर्स अगस्त डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	53289	मैसर्स अगस्त टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
56.	73903	मैसर्स औरोविल मर्चेन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड
57.	38337	मैसर्स ऑटो ऑफसेट प्राईवेट लिमिटेड
58.	19944	मैसर्स ऑटो पॉवर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
59.	79687	मैसर्स अवाम ट्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड
60.	75490	मैसर्स अभिषेक सर्विसेज एण्ड ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
61.	71455	मैसर्स आवागमन टाई-अप प्राईवेट लिमिटेड
62.	08897	मैसर्स बी के दत्त एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
63.	77233	मैसर्स बैष्णो मर्केन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड
64.	44718	मैसर्स बजरंगबली फाउण्ड्री प्राईवेट लिमिटेड
65.	14708	मैसर्स बक्शी मनोहर लाल एण्ड संस प्राईवेट लिमिटेड
66.	73239	मैसर्स वाणिज्य इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	28332	मैसर्स बंसाम एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
68.	89980	मैसर्स बारासात फार्म प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
69.	70765	मैसर्स बारदोली कॉमर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
70.	08799	मैसर्स बार्निक यिनेमा कारपोरेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
71.	30382	मैसर्स बसार्क बनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
72.	70976	मैसर्स बसंत सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	85086	मैसर्स बसंती इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
74.	31762	मैसर्स बार्सल इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	85908	मैसर्स ब्रांडी कमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	38734	मैसर्स ब्रीनान कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	09712	मैसर्स ब्रिहार मिससेलेनी प्राईवेट लिमिटेड
78.	67904	मैसर्स बेल्लाना लेबेल्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	28111	मैसर्स बनारस टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	19189	मैसर्स बंगाल एजेन्सी एण्ड स्टोर्स सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड
81.	11833	मैसर्स बंगाल ऑयलर वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	38583	मैसर्स बंगाल सिन्थोप्लास्ट प्रोसेस प्राईवेट लिमिटेड
83.	11780	मैसर्स बंगाल वायर नेल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
84.	78817	मैसर्स भाग्य मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	24739	मैसर्स भारत फाउण्ड्री प्राईवेट लिमिटेड
86.	07888	मैसर्स भारत इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
87.	12032	मैसर्स भारत पेंट कलर एण्ड वार्निश वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	26642	मैसर्स भारती स्पन पाइप प्राईवेट लिमिटेड
89.	29357	मैसर्स भट्टाचार्य एण्ड चौधरी प्राईवेट लिमिटेड
90.	11285	मैसर्स भट्टाचार्य (एजेन्सी) एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
91.	70179	मैसर्स भोरेमंद सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	14075	मैसर्स बिजली प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
93.	76931	मैसर्स बिकासकण प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
94.	19655	मैसर्स बिमला इन्टरप्राइजेज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
95.	71834	मैसर्स बिमानी टेक्सफिन प्राईवेट लिमिटेड
96.	79537	मैसर्स बिमय फ्यूजन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	38402	मैसर्स बिमर ऑयलर प्राईवेट लिमिटेड
98.	46099	मैसर्स ब्रायंट कोल्ड प्रोसेस एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
99.	34541	मैसर्स बायोसिन प्राईवेट लिमिटेड
100.	87484	मैसर्स बिस्को टेक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड
101.	14347	मैसर्स बिष्णुपुर फिल्म कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
102.	12728	मैसर्स बिष्णुपुर सिल्क इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
103.	85078	मैसर्स ब्लूमैक्स कोरियर एण्ड कार्गो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
104.	73444	मैसर्स बोंगोंव सब-डिविजनल पेस्सीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड
105.	36142	मैसर्स बोन्सेज कॉन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	11499	मैसर्स बुक इम्पोरियम प्राईवेट लिमिटेड
107.	27215	मैसर्स बुक सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
108.	55878	मैसर्स बोरियलिस क्रेडिट प्राईवेट लिमिटेड
109.	10829	मैसर्स बोस ब्रदर्स एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
110.	87714	मैसर्स बोडबाजार होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	36029	मैसर्स ब्रह्मपति प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
112.	44822	मैसर्स ब्राइट कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	44610	मैसर्स ब्राउन पेट्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड
114.	71914	मैसर्स बजट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
115.	28304	मैसर्स बुनिदी कोल एण्ड एजेन्सी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
116.	31361	मैसर्स सी डी कोल्ड ड्रिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
117.	44617	मैसर्स सी के फर्नेस इरेक्टर्स एण्ड कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
118.	28808	मैसर्स सी आर वैलेस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
119.	07797	मैसर्स कलकत्ता कोल्लेप्सिबल गेट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
120.	08996	मैसर्स कलकत्ता क्रेडिट कारपोरेशन लिमिटेड
121.	26695	मैसर्स कलकत्ता होजियरी वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
122.	44803	मैसर्स कलकत्ता लेजर-ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
123.	20808	मैसर्स कलकत्ता शेल-लाईम एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
124.	31462	मैसर्स कलकत्ता बेकॉन सप्लाय प्राईवेट लिमिटेड
125.	44278	मैसर्स कैमेक इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
126.	70593	मैसर्स कैट्स विउ ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
127.	07368	मैसर्स सेन्ट्रल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
128.	84334	मैसर्स सेन्टरप्वाइंट टून्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
129.	44306	मैसर्स सीउ इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
130.	30384	मैसर्स चैताली चिट स्कीम्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
131.	74170	मैसर्स चक्रधारी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
132.	12707	मैसर्स चरक केमिकल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	19924	मैसर्स चारू चैत्र प्राईवेट लिमिटेड
134.	44399	मैसर्स चावला रसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
135.	79157	मैसर्स चेतक ट्राकोंन प्राईवेट लिमिटेड
136.	70014	मैसर्स चिक कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
137.	19001	मैसर्स चाइल्ड एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
138.	29326	मैसर्स चिरकुण्डा ऑयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
139.	72744	मैसर्स चित्रावली रिटेलर्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	77505	मैसर्स चोकसी मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड
141.	10055	मैसर्स चुरूलिया साधुज इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
142.	86343	मैसर्स सिट्रो एरोमा प्राईवेट लिमिटेड
143.	34207	मैसर्स क्लारियन फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
144.	17310	मैसर्स क्लारिया प्राईवेट लिमिटेड
145.	79248	मैसर्स क्लासिक मेरिन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
146.	52160	मैसर्स क्लासिक मल्टीमैक्स प्राईवेट लिमिटेड
147.	12555	मैसर्स कोल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
148.	67183	मैसर्स कोसेट्टा कोम्मोडिटीज प्राईवेट लिमिटेड
149.	26972	मैसर्स कॉक्स एण्ड वाल्वस मैनुफैक्चर स्पेशियलिटि प्राईवेट लिमिटेड
150.	86482	मैसर्स कंज्युमर ट्रेडविन्डस प्राईवेट लिमिटेड
151.	34167	मैसर्स कंट्रोल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
152.	27303	मैसर्स कंट्रोल इन्स्ट्रुमेंट्स एण्ड इक्युपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
153.	55714	मैसर्स कॉर्नफ्लावर मर्चेन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड
154.	14596	मैसर्स कॉरपोरेट इन्जीनियर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
155.	14341	मैसर्स कॉस्मिक इंजीनियरिंग कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
156.	52821	मैसर्स कॉस्मो हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड
157.	70254	मैसर्स कोजी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
158.	44128	मैसर्स कॉउनपोर फिनान्स प्राईवेट लिमिटेड
159.	79269	मैसर्स क्रिएटिव ऐस्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	71891	मैसर्स क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	38220	मैसर्स क्रोदा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
162.	75858	मैसर्स डी पी सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
163.	10841	मैसर्स डी एस बनर्जी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
164.	73579	मैसर्स डी. जी. ए. कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
165.	35746	मैसर्स डेफोडिल लेबोरेटोरिज प्राईवेट लिमिटेड
166.	78499	मैसर्स दलाल स्ट्रीट विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
167.	23097	मैसर्स दलजीत सिंह एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
168.	66393	मैसर्स डैम्न मर्केन्टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
169.	36876	मैसर्स दामोदर (पावर) इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
170.	27574	मैसर्स दर्पण पिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
171.	27159	मैसर्स दास एण्ड भौमिक एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
172.	19222	मैसर्स दास एण्ड दास प्राईवेट लिमिटेड
173.	33176	मैसर्स दयालेश्वर इण्डस्ट्रीयल फिनान्स प्राईवेट लिमिटेड
174.	29502	डी-लक्स पेंट्स एण्ड केमिकल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
175.	10299	मैसर्स देवीसहाय सुरजमल प्राईवेट लिमिटेड
176.	44023	मैसर्स डी पी मेटकैब प्राईवेट लिमिटेड
177.	82122	मैसर्स डेल्टा कोक कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
178.	19006	मैसर्स डीलक्स प्राईवेट लिमिटेड
179.	66377	मैसर्स डेनिमित कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
180.	46736	मैसर्स डेस्कटॉप प्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड
181.	19172	मैसर्स देथसलेप्सेन एण्ड बालक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
182.	32980	मैसर्स देवकान्त पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
183.	44480	मैसर्स देवराँन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
184.	85664	मैसर्स दे टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
185.	71476	मैसर्स धनचक्र कोम्पोजिटल प्राईवेट लिमिटेड
186.	79225	मैसर्स धनवंती मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
187.	27074	मैसर्स धनकनाल एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
188.	77361	मैसर्स धेनु सेल्स प्रमोशन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
189.	44160	मैसर्स धीमजन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
190.	44698	मैसर्स धुलियान फ्लावर मिल प्राईवेट लिमिटेड
191.	55985	मैसर्स डीयन डाटा सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
192.	44852	मैसर्स डिजिटल गैडगेट्स प्राईवेट लिमिटेड
193.	37192	मैसर्स दिग्गम फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
194.	77232	मैसर्स दिवाकर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
195.	44423	मैसर्स डायफन एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
196.	08518	मैसर्स डॉन वाटसन एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
197.	70125	मैसर्स दून कार्मिशियल प्राईवेट लिमिटेड
198.	31324	मैसर्स दोशा गांधी इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
199.	24464	मैसर्स दोज एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
200.	28935	मैसर्स डॉ. चोस एण्ड कम्पनी (केमिकल स्पेशियलिजिज) प्राईवेट लिमिटेड
201.	70027	मैसर्स द्रोणा चार्टर प्राईवेट लिमिटेड
202.	73092	मैसर्स ड्रॉम मार्केटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
203.	78004	मैसर्स ड्रॉम फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
204.	31340	मैसर्स डकम्म (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
205.	44793	मैसर्स दुगा प्रसाद फिनान्स प्राईवेट लिमिटेड
206.	75636	मैसर्स दुर्गा कम्प्यूटर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
207.	79857	मैसर्स ईस्ट क्रॉस्ट पेट्रोलियम प्राईवेट लिमिटेड
208.	11351	मैसर्स ईस्ट गोधर कोलियरी प्राईवेट लिमिटेड
209.	10695	मैसर्स ईस्टन स्मेल्टिंग एण्ड रिफाइनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
210.	52819	मैसर्स इस्टर्न त्रिबोटेक प्राईवेट लिमिटेड
211.	12043	मैसर्स इकॉनॉमिक हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड
212.	19336	मैसर्स इकॉनॉमिक प्रिंटिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
213.	19369	मैसर्स इकॉनॉमिक्स इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
214.	44472	मैसर्स इंपैफएल फूड लिमिटेड
215.	26333	मैसर्स इलेण्डको साइंटिफिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
216.	19227	मैसर्स इलुमिनेक प्राईवेट लिमिटेड
217.	30264	मैसर्स इन्वारा चिट एण्ड फिनान्स सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
218.	70284	मैसर्स इन्धो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	19767	मैसर्स एम्पायर होजियरी मिल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
220.	73797	मैसर्स एम्पायर रिटेलर प्राईवेट लिमिटेड
221.	19994	मैसर्स इंजीनियर्स एण्ड कंस्ट्रक्टर्स सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड
222.	70541	मैसर्स इप्पा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
223.	34185	मैसर्स इस्कॉन मेरिन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
224.	35221	मैसर्स इवलैण्ड होटेल एण्ड ट्रेवेलिंग प्राईवेट लिमिटेड
225.	75820	मैसर्स एक्सेल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
226.	68314	मैसर्स एक्सेल्सीयर इम्पोरियम प्राईवेट लिमिटेड
227.	28044	मैसर्स एक्सप्लोरर इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
228.	77507	मैसर्स एजरा इलेक्ट्रीकल्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
229.	36170	मैसर्स फरोहर एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
230.	82196	मैसर्स एफएनएफ इलेक्ट्रोमोल्ड प्राईवेट लिमिटेड
231.	74655	मैसर्स फोरचून ट्रेडफिन प्राईवेट लिमिटेड
232.	82518	मैसर्स फ्यूरोर केमिकल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
233.	44164	मैसर्स जी आर सी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
234.	52768	मैसर्स जी. एण्ड सी. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
235.	15051	मैसर्स जी. एन. बिश्वास एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
236.	10822	मैसर्स गैंगेज शिपिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
237.	28980	मैसर्स जनरल इण्डस्ट्रीयल सिक्यूरिटी एण्ड इन्वेस्टीगेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
238.	19541	मैसर्स जनरल सर्विस एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
239.	9721	मैसर्स जनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
240.	44757	मैसर्स जेनेसिस पब्लिसिटी प्राईवेट लिमिटेड
241.	31805	मैसर्स जियोमिन कंसलटेंट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
242.	19151	मैसर्स घोष फार्मसी प्राईवेट लिमिटेड
243.	34568	मैसर्स जिपफोर्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
244.	72873	मैसर्स ग्लासियल फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
245.	44593	मैसर्स ग्लोब डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
246.	86259	मैसर्स गोल्डलिक मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
247.	79525	मैसर्स गोल्डस्टेक ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
248.	86583	मैसर्स गोमती मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
249.	70656	मैसर्स गुडहोप व्यापार प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
250.	78825	मैसर्स गुडरॉक ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
251.	11715	मैसर्स गोपाल चन्द्र नन्दी प्राईवेट लिमिटेड
252.	9435	मैसर्स गौरीपुर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
253.	52809	मैसर्स ग्रीनलैण्ड प्रोपर्टीज एण्ड फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
254.	29829	मैसर्स ग्रीप्लेक्स एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड
255.	72464	मैसर्स ज्ञानीजय कोम्मोडील प्राईवेट लिमिटेड
256.	20795	मैसर्स एच हृदाती एण्ड घोस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
257.	44136	मैसर्स हैले-सेल्डॉन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
258.	76566	मैसर्स हाल्डेन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
259.	44526	मैसर्स हल्दिया आवासन प्रकल्प कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
260.	74163	मैसर्स हरिओम विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
261.	87630	मैसर्स हाति कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
262.	89853	मैसर्स हेर्ज टूरिज्म एण्ड मार्केटिंग (आई) प्राईवेट लिमिटेड
263.	29543	मैसर्स हेक्साद मैसिफ एण्ड कम्पनी (केमिकल्स) प्राईवेट लिमिटेड
264.	79759	मैसर्स हाई-टेक रिप्रोग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
265.	75819	मैसर्स हाईलैण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
266.	76373	मैसर्स हाईलैण्ड पार्क इन्क्लेव प्राईवेट लिमिटेड
267.	44375	मैसर्स हिमेल आइस प्राईवेट लिमिटेड
268.	70290	मैसर्स हिनयन डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
269.	30276	मैसर्स हिन्दुस्तान हैण्डलूम प्राईवेट लिमिटेड
270.	10255	मैसर्स हिन्दुस्तान फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
271.	52841	मैसर्स होटेल चन्द्रलिका प्राईवेट लिमिटेड
272.	44940	मैसर्स होटेल शहंशाह प्राईवेट लिमिटेड
273.	86922	मैसर्स होटलाइन एप्पिलियान्सेज प्राईवेट लिमिटेड
274.	19391	मैसर्स हाउस ऑफ कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड
275.	28427	मैसर्स हावड़ा पोर्टेरेज प्राईवेट लिमिटेड
276.	55113	मैसर्स इमेज एण्ड इम्प्रेसन प्राईवेट लिमिटेड
277.	44893	मैसर्स इम्पेक्स एम्पेरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
278.	89971	मैसर्स इम्प्रेसिव लेदर इन्वेषेशन प्राईवेट लिमिटेड
279.	14040	मैसर्स इण्डिया ड्रग्स लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
280.	78829	मैसर्स इन्दीवर कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
281.	19947	मैसर्स इन्केय प्राईवेट लिमिटेड
282.	77357	मैसर्स इन्ट्रोवेटिव डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
283.	74408	मैसर्स इन्सिलको डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
284.	17924	मैसर्स इंशोरेन्स फ्रेण्ड्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
285.	55443	मैसर्स इन्ट्रेग्रेटेड मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
286.	10155	मैसर्स इन्टरनेशनल लुब्रिकेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
287.	55808	मैसर्स इन्टरवेज मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
288.	85233	मैसर्स इंविंसिबल इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
289.	75066	मैसर्स इरिस मीडिया एण्ड कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
290.	76165	मैसर्स इस्या सिस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड
291.	12034	मैसर्स जे बी दत्त एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
292.	19790	मैसर्स जे मोतीभाई एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
293.	44665	मैसर्स जे एन एस फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
294.	28319	मैसर्स जे. सी. नारंग माइनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
295.	78808	मैसर्स जे. के. इन्टरप्राइजेज कल्याणी प्राईवेट लिमिटेड
296.	33827	मैसर्स जैक हीलर्स फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
297.	31243	मैसर्स जगदीप टूल्स एण्ड ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड
298.	76886	मैसर्स जगधात्री विन्ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
299.	20344	मैसर्स जाहरलाल पन्नालाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
300.	70336	मैसर्स जैधान व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
301.	70337	मैसर्स जयराधा मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
302.	11577	मैसर्स जजोदिया मर्केन्टाइल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
303.	70583	मैसर्स जलाराम मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
304.	70662	मैसर्स जलाश्री कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड
305.	38210	मैसर्स जलपाइगुरी बुडक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
306.	55197	मैसर्स जानियोर डेवलपर्स एण्ड स्काई स्क्रेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
307.	44662	मैसर्स जया कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
308.	70615	मैसर्स जयधान ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
309.	55165	मैसर्स जेसीडी स्टॉक ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
310.	38389	मैसर्स जेन्सन ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
311.	9283	मैसर्स झुनझुनवाला सन्स प्राईवेट लिमिटेड
312.	18207	मैसर्स जिआमा एजेन्सीज लिमिटेड
313.	55129-	मैसर्स जिरात कार्ड बोर्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
314.	74166	मैसर्स जेकेबी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
315.	11710	मैसर्स जोगेर्ग कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
316.	77792	मैसर्स जेटीएम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
317.	55070	मैसर्स जूही सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
318.	44554	मैसर्स जूल कमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
319.	72663	मैसर्स जूपैक्स विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
320.	89915	मैसर्स जूप्टर स्पन पाईप्स एण्ड कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
321.	55602	मैसर्स ज्योन एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
322.	19968	मैसर्स के. सी. घोष एण्ड ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
323.	14095	मैसर्स के. सी. गुप्ता एण्ड रोबसन प्राईवेट लिमिटेड
324.	12005	मैसर्स के. सी. प्रमानिक इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
325.	75301	मैसर्स के. एम. एन. ट्रेडर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
326.	14874	मैसर्स के. एन. हिमतरसिंघा एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
327.	86783	मैसर्स कलियों एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड
328.	36540	मैसर्स कल्याणेश्वरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
329.	29572	मैसर्स कल्याणेश्वरी सेविंग्स फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
330.	44741	मैसर्स कमला सीमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
331.	44906	मैसर्स कमला होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
332.	75410	मैसर्स कमलाओ बेरीन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
333.	84151	मैसर्स कनकधारा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
334.	53931	मैसर्स कान्हा टी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
335.	55347	मैसर्स करनो इन्क्लेव एण्ड होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
336.	89983	मैसर्स कमयांगी एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
337.	81306	मैसर्स करुन्डीया ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
338.	77667	मैसर्स कस्तुरी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
339.	23130	मैसर्स के.एच. कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
340.	78266	मैसर्स कवीएम फार्मास्यूटिकल प्राईवेट लिमिटेड



1	2	3
341.	27785	मैसर्स केन्टेक्स केमिकल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
342.	72471	मैसर्स केन्नेक्स बार्टर प्राईवेट लिमिटेड
343.	70335	मैसर्स केवल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
344.	17440	मैसर्स केयमर बाघशेव एण्ड कम्पनी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
345.	27088	मैसर्स कीस्टोन स्क्रिब एण्ड रिबेट प्राईवेट लिमिटेड
346.	018467	मैसर्स खास जीनागोरा कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
347.	29251	मैसर्स खेदवाल ऑरगेनाइजेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
348.	011724	मैसर्स खेमका ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
349.	76571	मैसर्स किटकैट व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
350.	68313	मैसर्स कोकिला सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
351.	19118	मैसर्स कोनार्क मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
352.	18952	मैसर्स केपी घोष एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
353.	82581	मैसर्स कृष फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
354.	29514	मैसर्स कृष्णा मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
355.	78245	मैसर्स कृष्णा ओरियेण्टल एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
356.	55477	मैसर्स कृति सिक्यूरिटीस कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
357.	55693	मैसर्स करूप स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
358.	68834	मैसर्स क्षणिक रिटेलर प्राईवेट लिमिटेड
359.	74131	मैसर्स कुइल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
360.	79878	मैसर्स कुण्डू फाईनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
361.	36636	मैसर्स एल. एन. प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
362.	29243	मैसर्स लैबको (फाउण्ड्री इंजीनियरिंग) प्राईवेट लिमिटेड
363.	78506	मैसर्स लगान विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
364.	12087	मैसर्स लायकडीह कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
365.	9614	मैसर्स लैण्ड एण्ड हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड
366.	70562	मैसर्स लीडर बार्टर प्राईवेट लिमिटेड
367.	27285	मैसर्स लेदेरेक्स प्राईवेट लिमिटेड
368.	44511	मैसर्स लियो बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
369.	76166	मैसर्स लिप्जीक कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
370.	19636	मैसर्स एम ए आर्ट प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
371.	19735	मैसर्स एम आई मिस्सेलेनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
372.	44524	मैसर्स एम के पॉलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
373.	19863	मैसर्स एम एल चटर्जी इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
374.	18702	मैसर्स एम पी वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
375.	44917	मैसर्स एम प्रभा पिग्चेम्स प्राईवेट लिमिटेड
376.	52375	मैसर्स मों पचा रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड
377.	19187	मैसर्स मदारीहाट वनीर एण्ड साव मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
378.	79516	मैसर्स मैग बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
379.	19132	मैसर्स महामाया कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
380.	24529	मैसर्स महामाया इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
381.	75339	मैसर्स मेनस्ट्रीम सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
382.	11593	मैसर्स मैत्र ब्रदर्स एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
383.	46418	मैसर्स मालंचल फाईनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
384.	74135	मैसर्स मंगल कृपा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
385.	73392	मैसर्स मंगल ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
386.	75521	मैसर्स मंगलपुर स्टील प्राईवेट लिमिटेड
387.	52230	मैसर्स मणिपुर टी एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
388.	75413	मैसर्स मंजारी इन्क्लेव प्राईवेट लिमिटेड
389.	34539	मैसर्स मानु प्राईवेट लिमिटेड
390.	12054	मैसर्स मैनुफैक्चरर्स एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
391.	70373	मैसर्स मनुष कोम्पोजिटीज प्राईवेट लिमिटेड
392.	70371	मैसर्स मनुष गुड्स प्राईवेट लिमिटेड
393.	70372	मैसर्स मनुष विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
394.	34543	मैसर्स मार्क पब्लिसिटी प्राईवेट लिमिटेड
395.	84283	मैसर्स मार्स प्रोटीन प्राईवेट लिमिटेड
396.	19659	मैसर्स मेकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
397.	79545	मैसर्स मेडी ब्लीस सर्विस सेन्टर एण्ड डायग्नोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड
398.	82610	मैसर्स मीरा फूड मैनुफैक्चरर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
399.	75970	मैसर्स मेघस्ट्रेस रिटेलर्स प्राईवेट लिमिटेड
400.	79831	मैसर्स मेकसिन शिपिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
401.	77631	मैसर्स मर्क इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
402.	71135	मैसर्स मरकरी केमिकल्स एण्ड मशीनरी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	434.	18013	मैसर्स न्यू कोमर्स ट्रेडिंग सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड
403.	38422	मैसर्स मेटल स्पीत्रर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	435.	19347	मैसर्स न्यू गोल्डन आर्ट प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
404.	10907	मैसर्स माइन्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	436.	71345	मैसर्स निवेदिता शिल्प ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
405.	75969	मैसर्स मिन्ना बार्टर प्राईवेट लिमिटेड	437.	44406	मैसर्स निलंजन हाउसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
406.	71808	मैसर्स मिरिक बार्टर प्राईवेट लिमिटेड	438.	81055	मैसर्स निलयोग कर्मशियल प्राईवेट लिमिटेड
407.	19911	मैसर्स मितदूर ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	439.	29568	मैसर्स निरसा ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
408.	44487	मैसर्स मित्तल प्लास्टिग्लास प्राईवेट लिमिटेड	440.	28153	मैसर्स नवरंग राय प्रवीण कुमार (ट्रेडिंग) प्राईवेट लिमिटेड
409.	71460	मैसर्स माडर्न पेट्रो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	441.	44536	मैसर्स एनपी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
410.	29949	मैसर्स माडर्न सर्वेयर्स एण्ड एसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड	442.	84046	मैसर्स नुतनगंज लाइक्स स्टॉक फार्म प्राईवेट लिमिटेड
411.	44556	मैसर्स मोहित फाईनांस एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	443.	36072	मैसर्स न्यूट्री फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
412.	78628	मैसर्स मॉन्टरी कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	444.	55948	मैसर्स ओसियनप्रेस फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
413.	87130	मैसर्स मोररीस कर्मशियल प्राईवेट लिमिटेड	445.	84207	मैसर्स ओएमसी ज्वाइंट वेन्चर प्राईवेट लिमिटेड
414.	70359	मैसर्स मोरतू डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	446.	31879	मैसर्स ओरियण्ट मेक्कान प्राईवेट लिमिटेड
415.	74365	मैसर्स माउण्ट व्यापार प्राईवेट लिमिटेड	447.	36682	मैसर्स ओरियन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
416.	60544	मैसर्स एमएसआर ट्रेड एण्ड इक्विपमेंट प्राईवेट लिमिटेड	448.	46000	मैसर्स ओवरलैण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
417.	27272	मैसर्स मुकामित ऑटो सर्विस प्राईवेट लिमिटेड	449.	17153	मैसर्स पी. सी. बनर्जी एण्ड बोस ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
418.	79886	मैसर्स मुक्ता डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	450.	55986	मैसर्स पी. एम. फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
419.	73016	मैसर्स मल्टीपल केमिकल्स एण्ड कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	451.	44499	मैसर्स पैक्स प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
420.	82510	मैसर्स मल्टीप्लेक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	452.	72613	मैसर्स पखेरू स्पलायस प्राईवेट लिमिटेड
421.	71969	मैसर्स मल्टीस्टायल व्यापार प्राईवेट लिमिटेड	453.	89865	मैसर्स पलास्मे एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
422.	18024	मैसर्स एन. डी. बनर्जी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	454.	8143	मैसर्स पलास्टल कोल कंसर्न प्राईवेट लिमिटेड
423.	52204	मैसर्स एन. ई. बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	455.	55573	मैसर्स पाम एक्जीम एण्ड टॉवर प्राईवेट लिमिटेड
424.	71492	मैसर्स नदिया सीमेन्ट वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	456.	86334	मैसर्स पामब्रोम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
425.	78653	मैसर्स नगिना सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड	457.	38742	मैसर्स पनानिविको एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
426.	77340	मैसर्स नागोरी ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड	458.	68909	मैसर्स पांचजन्य मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
427.	87657	मैसर्स नाका इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	459.	44551	मैसर्स पंचमुखी स्टील कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
428.	10187	मैसर्स नंदलाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	460.	73695	मैसर्स परिमल कॉन्ट्रा प्राईवेट लिमिटेड
429.	10704	मैसर्स नेशनल यूनियन इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	461.	75625	मैसर्स प्रताप कर्मशियल प्राईवेट लिमिटेड
430.	34509	मैसर्स नवनीत बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	462.	72727	मैसर्स पटोले एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
431.	10098	मैसर्स नितार्ई लाल दे एण्ड ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड	463.	38586	मैसर्स पात्री सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
432.	28958	मैसर्स न्यू एशिया रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	464.	84385	मैसर्स पवनपुत्र फूड प्राईवेट लिमिटेड
433.	19102	मैसर्स न्यू बंगाल केबिनेट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	465.	79569	मैसर्स पीसी डाटामेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
466.	70989	मैसर्स पीकॉक ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
467.	44532	मैसर्स पेलिकन ईक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
468.	28045	मैसर्स पीपल्स होमियो लेबोरेट्री प्राईवेट लिमिटेड
469.	55325	मैसर्स प्रफेक्ट आर्टिटेक्ट्स एण्ड बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
470.	51216	मैसर्स पार्किंस मार्केट्स प्राईवेट लिमिटेड
471.	87981	मैसर्स पिक्कादली होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
472.	77283	मैसर्स पायनियर हैचरी प्राईवेट लिमिटेड
473.	44730	मैसर्स प्लास्मा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
474.	78493	मैसर्स पोद्दार विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
475.	73640	मैसर्स पूर्णिमा ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
476.	23080	मैसर्स पोर्टसाइड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
477.	75975	मैसर्स प्रभात टाई अप प्राईवेट लिमिटेड
478.	79477	मैसर्स प्रदीप एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
479.	44292	मैसर्स प्राग एसोसिएट प्राईवेट लिमिटेड
480.	44927	मैसर्स प्रागमेटिक इरेक्टर प्राईवेट लिमिटेड
481.	76300	मैसर्स प्रजापति इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
482.	78595	मैसर्स प्रानित मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
483.	52322	मैसर्स प्रसाद एग्रो प्रोसेजर्स प्राईवेट लिमिटेड
484.	77703	मैसर्स प्रतिभूति फाईनैसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
485.	17347	मैसर्स प्रेसिजन इंस्ट्रुमेंट कारपोरेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
486.	38719	मैसर्स प्रसिजन कंट्रोल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
487.	79426	मैसर्स प्राइम इल्कैप (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
488.	46116	मैसर्स पृथ्वी कोम्पो-कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
489.	70376	मैसर्स प्रियरंजन कोम्पोडिटीज प्राईवेट लिमिटेड
490.	76424	मैसर्स प्रोगेसिव टॉक्स प्राईवेट लिमिटेड
491.	84064	मैसर्स पनफिन होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
492.	77391	मैसर्स पुनसुनी कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
493.	38234	मैसर्स पूर्वांचल हाउसिंग एण्ड क्रेडिट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
494.	11766	मैसर्स प्योर समला कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
495.	12586	मैसर्स प्योर टसरा कोलियरी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
496.	73364	मैसर्स पुष्पांजली बाटर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
497.	34292	मैसर्स क्युस्वा मैनुफैक्चरिंग उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
498.	12571	मैसर्स आर. सी. पॉल प्राईवेट लिमिटेड
499.	87963	मैसर्स आर. बी. ट्रेक्जीम प्राईवेट लिमिटेड
500.	53600	मैसर्स रैब डिजिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
501.	44818	मैसर्स रेडियेन्ट बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
502.	30361	मैसर्स रहमतनगर सेविंग्स एण्ड चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
503.	78651	मैसर्स राजा डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
504.	55514	मैसर्स राजा प्रोमोटर्स एण्ड इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
505.	44121	मैसर्स रजत मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
506.	52910	मैसर्स राजकमल इम्पेक्स एण्ड कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
507.	10888	मैसर्स रैली इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
508.	11172	मैसर्स रामा इन्वेस्टर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
509.	72561	मैसर्स रामनिक एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
510.	11923	मैसर्स रामसरन दास एण्ड राठौर प्राईवेट लिमिटेड
511.	77250	मैसर्स रानाघाट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
512.	24912	मैसर्स रानी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
513.	81077	मैसर्स रंजन इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
514.	19411	मैसर्स रेयर मिनरल एण्ड माइका माइनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
515.	70515	मैसर्स रावती विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
516.	75523	मैसर्स राय डायर्स प्राईवेट लिमिटेड
517.	89858	मैसर्स रेज्जल डेज्जल इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
518.	82181	मैसर्स आरबीजी उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
519.	28381	मैसर्स रिलायन्स पेपर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
520.	44293	मैसर्स रेनुकाना ऑयल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
521.	34261	मैसर्स राइथम स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
522.	87384	मैसर्स रितमैन कंक्रीट प्राईवेट लिमिटेड
523.	36913	मैसर्स रितुराज प्राईवेट लिमिटेड
524.	77680	मैसर्स रोहा कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
525.	38651	मैसर्स रोहिनी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
526.	30837	मैसर्स रोहित विक्रम प्रिय प्राईवेट लिमिटेड
527.	029659	मैसर्स रोहतास चिट स्कीम्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
528.	85003	मैसर्स रोल्लेक्स फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
529.	34259	मैसर्स रॉयल फूड्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
530.	55564	मैसर्स रोयम्जी इंजीनियर्स कम्प्लेक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
531.	55249	मैसर्स रूकमो अरूणाचल प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड
532.	53681	मैसर्स आरएक्स मैक्सस्टीम इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
533.	28027	मैसर्स एस गुप्ता बीडि मैनुफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
534.	85162	मैसर्स एस एन डी सुपरटेक प्राईवेट लिमिटेड
535.	44713	मैसर्स एस वी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
536.	73803	मैसर्स एस. डी. कास्टिंग्स एण्ड फोर्जिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
537.	31527	मैसर्स एस. पी. कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
538.	44288	मैसर्स साधु मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
539.	89992	मैसर्स साध्वी इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
540.	30726	मैसर्स सफदर प्राईवेट लिमिटेड
541.	34565	मैसर्स सलोम होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
542.	55434	मैसर्स समुसुक्ती ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
543.	27165	मैसर्स सनम इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
544.	55868	मैसर्स संदीप ऑयल एण्ड सीड प्राईवेट लिमिटेड
545.	55858	मैसर्स संकटमोचन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
546.	19621	मैसर्स संतोष सुगर प्राईवेट लिमिटेड
547.	12280	मैसर्स सान्याल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
548.	74136	मैसर्स सरजेवो कोमोट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
549.	29612	मैसर्स सरस्वती सेविंग्स एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
550.	31489	मैसर्स सरदार पुरन एण्ड रजनीकांत प्राईवेट लिमिटेड
551.	79532	मैसर्स सर्वमंगला हिमघर प्राईवेट लिमिटेड
552.	10245	मैसर्स सत्यनारायण श्यामसुन्दर प्राईवेट लिमिटेड
553.	78001	मैसर्स सति टाइ अप प्राईवेट लिमिटेड
554.	27957	मैसर्स सायन्ति ऑयल फाउण्ड्री प्राईवेट लिमिटेड
555.	66380	मैसर्स स्कोप-एन-रोली एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
556.	72729	मैसर्स स्क्रोनेल कार्मर्स प्राईवेट लिमिटेड
557.	35548	मैसर्स सीक्वीन शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
558.	14389	मैसर्स सेलेक्ट्रेड चोरा कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
559.	19298	मैसर्स सेलेक्ट्रेड पाथरडीह कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
560.	73453	मैसर्स सेलेहियम एजेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
561.	10934	मैसर्स सेनापति ब्रोस प्राईवेट लिमिटेड
562.	55984	मैसर्स सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
563.	19565	मैसर्स सेंटिया एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
564.	31093	मैसर्स सेंट इस्टेट डेवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
565.	27281	मैसर्स सेवेन सीज कमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
566.	84321	मैसर्स शाहावादी फिलम्स प्राईवेट लिमिटेड
567.	76199	मैसर्स शक्ति स्पिनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
568.	82100	मैसर्स शकुन फिनेक्स प्राईवेट लिमिटेड
569.	26818	मैसर्स श्यामबाजार सर्विस स्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
570.	76214	मैसर्स शान स्टॉक हंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
571.	26387	मैसर्स साउ एण्ड कम्पनी मैनुफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
572.	10765	मैसर्स शिवसाहायमल हीरालाल प्राईवेट लिमिटेड
573.	71976	मैसर्स शिल्पी ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
574.	79072	मैसर्स शिवाली टाइअप प्राईवेट लिमिटेड
575.	73696	मैसर्स शिपुजन वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड
576.	81107	मैसर्स श्री गणेश व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
577.	37754	मैसर्स श्रीगिरिराज ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
578.	52931	मैसर्स श्री हनुमान ट्रेडिंग एण्ड ऑयल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
579.	10938	मैसर्स श्री खेतावत ऑयल एण्ड राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
580.	30357	मैसर्स श्री शिवधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड
581.	44189	मैसर्स श्रीमा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
582.	55857	मैसर्स श्री माजदा फाईनान्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
583.	72328	मैसर्स मिद्धार्थ पेन्ट्स एण्ड कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
584.	87032	मैसर्स सिव्हरा इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
585.	75171	मैसर्स सिग्मा कुरियर एण्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
586.	72507	मैसर्स सिग्मा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
587.	72615	मैसर्स सिकारिया बार्टर प्राईवेट लिमिटेड
588.	19506	मैसर्स सिल्वर स्क्रीन कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
589.	81981	मैसर्स सिमरन ट्रेडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
590.	46381	मैसर्स सिन्वान एक्जुआस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
591.	72141	मैसर्स सिंगल फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
592.	55435	मैसर्स सिप्रा ग्रीज मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
593.	29902	मैसर्स सिकस स्टार्स सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
594.	38744	मैसर्स स्कोई (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
595.	68025	मैसर्स एसएलसी शेयर ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
596.	75386	मैसर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
597.	11098	मैसर्स सोनालेय पाइनएप्पल प्रोड्यूसर्स प्राईवेट लिमिटेड
598.	79383	मैसर्स सोपान कॉन्सोर्टियम प्राईवेट लिमिटेड
599.	36135	मैसर्स सोफिस्टेक इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
600.	75572	मैसर्स सोपोर्टलाइन एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
601.	11264	मैसर्स साउथेण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
602.	29997	मैसर्स सदर्न टैक्स प्राईवेट लिमिटेड
603.	38208	मैसर्स सोयूज इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
604.	85168	मैसर्स स्पीड वर्ड फार्निशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
605.	29191	मैसर्स स्पर फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
606.	44075	मैसर्स श्रीमा इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
607.	96446	मैसर्स श्रीमान चन्द्र सिन्हा राय एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
608.	70028	मैसर्स श्रीधारा कोमोर्टल प्राईवेट लिमिटेड
609.	70027	मैसर्स श्रीरूपायन कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
610.	38435	मैसर्स एसआरएम इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
611.	010920	मैसर्स स्टार मिनरल्स सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड
612.	23525	मैसर्स स्टायको ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
613.	38644	मैसर्स स्टुयाड मार्केटिंग कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
614.	52889	मैसर्स सुबर्न इन्वेस्टमेंट एण्ड ऑटो सेविंग्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
615.	31792	मैसर्स सुबासना कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
616.	55556	मैसर्स शुभम व्यापार एण्ड वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड
617.	19017	मैसर्स सुर्बबन (अली-टॉली) प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
618.	27127	मैसर्स सुधा फाईनान्स एण्ड मार्केटिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
619.	29640	मैसर्स सुजाला एग्रोकैम प्राईवेट लिमिटेड
620.	81263	मैसर्स सुजाता ट्राकॉम प्राईवेट लिमिटेड
621.	87951	मैसर्स सुमंगल साडीज प्राईवेट लिमिटेड
622.	71809	मैसर्स सुमनश्री मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
623.	071916	मैसर्स सुमी एक्जुआटिक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
624.	75527	मैसर्स सुनेप्स ट्रेडलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
625.	55021	मैसर्स संजिती ट्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
626.	55732	मैसर्स सुनियोजित फिनवेस्ट एण्ड क्रेडिट प्राईवेट लिमिटेड
627.	23428	मैसर्स सनशेड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
628.	29997	मैसर्स सुपर कारकेयर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
629.	44809	मैसर्स सुपर फेरो इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
630.	89938	मैसर्स सुप्रिम वेलिंग इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
631.	78952	मैसर्स सुप्रिया ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
632.	81143	मैसर्स सुथि कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
633.	71051	मैसर्स सूर्या टेक्नो सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
634.	70483	मैसर्स सतलज सर्वेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
635.	44149	मैसर्स सुदेस डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
636.	73591	मैसर्स एसजीवे फाईनान्स एण्ड कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
637.	72191	मैसर्स स्वामी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
638.	89913	मैसर्स स्वर्ण कलश कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
639.	87718	मैसर्स स्वीफ्ट कैरेज एण्ड ट्रेड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
640.	084332	मैसर्स सिन्चरोन कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
641.	89946	मैसर्स तनुस्मिता मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
642.	19901	मैसर्स तारा कोलियरी प्राईवेट लिमिटेड
643.	46267	मैसर्स टेक्सोन डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
644.	31898	मैसर्स टी लैण्ड बेवेरेगेज प्राईवेट लिमिटेड
645.	36148	मैसर्स टेक्नो स्टील इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
646.	37069	मैसर्स तेजा सीमा इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
647.	44533	मैसर्स ठक्कर्स कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
648.	82112	मैसर्स द गंगेज फेब्रिकेटर्स एण्ड इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
649.	10320	मैसर्स द मेथोडिस्ट चर्च इन नदर्न इण्डिया ट्रस्ट एसोसियेशन
650.	79570	मैसर्स टाइड्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
651.	52275	मैसर्स तिरुपति बालाजी रोड कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
652.	29598	मैसर्स तिरुपति चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
653.	44107	मैसर्स तिवारी ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
654.	76257	मैसर्स टॉप पिपुल एडवाइजरी प्राईवेट लिमिटेड
655.	77218	मैसर्स टॉपकोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
656.	70304	मैसर्स टॉपलाइन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
657.	44808	मैसर्स टॉपर्स कास्मेटिक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
658.	44097	मैसर्स तोरा केम प्राईवेट लिमिटेड
659.	66406	मैसर्स ट्रेलर टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
660.	53708	मैसर्स ट्रेण्ड टेक्नोक्राफ्ट्स एण्ड टेक्नोलॉजिस्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
661.	79544	मैसर्स त्रिडेन्ट सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
662.	78924	मैसर्स ट्रिओ ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
663.	55763	मैसर्स तृष्णा मैनेजमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
664.	44230	मैसर्स त्रिस्टार कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
665.	78645	मैसर्स त्रिस्टान ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
666.	74022	मैसर्स तुलिप मेडिक्स प्राईवेट लिमिटेड
667.	19516	मैसर्स तुलसीदास एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
668.	75123	मैसर्स टुम्पा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
669.	77229	मैसर्स यू बी कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
670.	11260	मैसर्स यू एन धुर एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
671.	011742	मैसर्स उदय नगर प्राईवेट लिमिटेड
672.	72631	मैसर्स उदयन सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
673.	63838	मैसर्स उमा हिमघर प्राईवेट लिमिटेड
674.	38761	मैसर्स उमेश इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
675.	34583	मैसर्स यूएमटी मिनरल्स इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
676.	85129	मैसर्स यूनिकार्न ट्रेवल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
677.	28827	मैसर्स यूनियमैगेजिन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
678.	44098	मैसर्स यूनिक प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
679.	73383	मैसर्स यूनिसंट प्रेस इंक प्राईवेट लिमिटेड
680.	79755	मैसर्स उपकार होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
681.	87038	मैसर्स उत्तरन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
682.	75977	मैसर्स वक्रेश्वर डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
683.	19661	मैसर्स वर्मा कच्ची सप्लाय ईंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
684.	74042	मैसर्स वशिष्ठ फार्मान्स प्राईवेट लिमिटेड
685.	74808	मैसर्स वरदक्स डीलर प्राईवेट लिमिटेड
686.	44916	मैसर्स विद्युतोर लेदर फिनिशिंग प्राईवेट लिमिटेड
687.	44555	मैसर्स विक्रम क्रेडिट एण्ड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
688.	11478	मैसर्स विक्रम कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
689.	77493	मैसर्स विजयोसिटी इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
690.	20485	मैसर्स विजयमंदिर प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
691.	44008	मैसर्स विजय ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
692.	44453	मैसर्स विजया मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
693.	79304	मैसर्स विजयक मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
694.	55019	मैसर्स विजयवार्मिनी सेल्स एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
695.	46079	मैसर्स विजय वैदा एण्ड एसोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड
696.	44645	मैसर्स वीआईपी फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
697.	75526	मैसर्स विवेकानन्द टायर्स टेडर्ज प्राईवेट लिमिटेड
698.	55733	मैसर्स वीएसएस कॉसलिंग प्राईवेट लिमिटेड
699.	9606	मैसर्स वीएसएस जिक पिमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
700.	73642	मैसर्स वाटरप्रूफ कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड
701.	055783	मैसर्स वीएच प्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड
702.	52200	मैसर्स विलमैन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
703.	78126	मैसर्स विल्ड टाइगर टूल्स एण्ड ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड
704.	78943	मैसर्स विन्सोम ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
705.	55486	मैसर्स विन्सुम डिकाउण्ट कार्ड प्राईवेट लिमिटेड
706.	89912	मैसर्स वासुदेव चन्द्र खाखीगोरी प्राईवेट लिमिटेड
707.	70365	मैसर्स वरमैन डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
708.	78916	मैसर्स जेम्स ट्रेडलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
709.	066407	मैसर्स विश्व ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
710.	44133	मैसर्स जोडायक लिफ्ट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
711.	15255	मैसर्स एयॉन प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
712.	30619	मैसर्स एवेरेस्ट हार्डवेयर प्राईवेट लिमिटेड
713.	77780	मैसर्स एवरराइस प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
714.	81006	मैसर्स एवरशाइन एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
715.	064067	मैसर्स एवरीटच विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
716.	44508	मैसर्स एक्सल विशन्स प्राईवेट लिमिटेड
717.	38525	मैसर्स एक्सक्लूसीव मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
718.	54154	मैसर्स एकजीक्यूटीव कूरियर्स एण्ड काप्रो प्राईवेट लिमिटेड
719.	66446	मैसर्स एकजीक्यूटीव इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वीपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
720.	52712	मैसर्स एक्सीम स्क्रिप्स एक्सचेन्ज प्राईवेट लिमिटेड
721.	52873	मैसर्स एक्सीम स्क्रिप्स प्राईवेट लिमिटेड
722.	30414	मैसर्स एक्सपिआन पेट्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड
723.	17642	मैसर्स फैक्टरीज प्राईवेट लिमिटेड
724.	76882	मैसर्स फालकॉम विनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
725.	74759	मैसर्स फेडरल वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड
726.	70856	मैसर्स फियोज कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
727.	79242	मैसर्स फाइनलाइन एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
728.	54145	मैसर्स फ्लोरिकल्चर होल्डिंग्स एण्ड बिसनस प्राईवेट लिमिटेड
729.	18766	मैसर्स फ्लाअर एण्ड फ्लोरा प्राईवेट लिमिटेड
730.	54577	मैसर्स फ्लाईंग विनियोग एण्ड कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
731.	72930	मैसर्स फ्रेजर सेल एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
732.	77296	मैसर्स फ्रिबकान प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
733.	64225	मैसर्स फ्रान्टियर ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
734.	67457	मैसर्स फुलब्लूम डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
735.	32400	मैसर्स जी. पी. गुप्ता एण्ड कम्पनी (एजेन्सीस) प्राईवेट लिमिटेड
736.	30621	मैसर्स जी. सी. केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
737.	73581	मैसर्स जी. एम. एच. इन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड
738.	60478	मैसर्स गेइनवेल कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
739.	44867	मैसर्स गेलेक्सी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
740.	60706	मैसर्स गणपति प्लाजा प्राईवेट लिमिटेड
741.	38245	मैसर्स गणेश अपार्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
742.	60757	मैसर्स गंगा फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
743.	20612	मैसर्स गंजेश प्लाइवुड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
744.	52648	मैसर्स गुवाहाटी इन्डोर रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड
745.	38872	मैसर्स जेमको बिसनस प्राईवेट लिमिटेड
746.	52136	मैसर्स जेमेक्स लेफिन प्राईवेट लिमिटेड
747.	81297	मैसर्स जिमस डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
748.	28920	मैसर्स जनरल अपलाइंस प्राईवेट लिमिटेड
749.	30937	मैसर्स जनरल इक्विपमेंट्स (वेस्ट बंगाल) प्राईवेट लिमिटेड
750.	029348	मैसर्स जियोटेकनिक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
751.	37506	मैसर्स ग्लोबल इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
752.	54932	मैसर्स ग्लोरी डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
753.	27542	मैसर्स जिमिव ऑटो इंजीनियरिंग सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
754.	31001	मैसर्स गोल्डन टाइपराइटर एण्ड इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
755.	70845	मैसर्स गोमानटक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
756.	70508	मैसर्स गुडहोप मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
757.	77366	मैसर्स गुडवार्ड कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
758.	32974	मैसर्स गुमबीरा वेयरहाउस प्राईवेट लिमिटेड
759.	10882	मैसर्स गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
760.	77497	मैसर्स गोपाला ऑटो ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
761.	55354	मैसर्स गोप मूवीस प्राईवेट लिमिटेड
762.	55405	मैसर्स गोपी सिल्क प्राईवेट लिमिटेड
763.	16510	मैसर्स गोपीबल्लवपुर पथचारी संघ प्राईवेट लिमिटेड
764.	44459	मैसर्स गौर पेकेजिंग इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
765.	15611	मैसर्स ग्रेट इंडिया सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
766.	018028	मैसर्स ग्रेट नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
767.	16070	मैसर्स ग्रीनवेली फार्म एण्ड फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड
768.	30043	मैसर्स ग्रीनलैंड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
769.	77439	मैसर्स ग्राइन्डवेल ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
770.	32665	मैसर्स जीएसए ट्रेडिंग एण्ड फाईनांस प्राइवेट लिमिटेड
771.	30069	मैसर्स गुप्ता निडल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
772.	78173	मैसर्स गुरुवायूर डेवलोकॉन प्राइवेट लिमिटेड
773.	52622	मैसर्स गुटगुटिया कमर्शियल एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
774.	15631	मैसर्स एच डी मुखर्जी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
775.	20133	मैसर्स एच के लाबा प्राइवेट लिमिटेड
776.	66025	मैसर्स हल्दिया शिपिंग एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
777.	33008	मैसर्स हालमार्क एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
778.	32437	मैसर्स हरालालका स्क्रैप प्रोसेसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
779.	053042	मैसर्स हरिओम कॉमर्स एण्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
780.	78172	मैसर्स हरिओम विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
781.	29530	मैसर्स हरिरामपुर कॉमर्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
782.	74432	मैसर्स हर्ष ट्रेडविन प्राइवेट लिमिटेड
783.	37035	मैसर्स हासाराम इम्पेक्स ट्रेडिंग एण्ड प्राइवेट लिमिटेड
784.	46946	मैसर्स हेलाट्स ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
785.	76451	मैसर्स हाई-टेक क्वॉर्स प्राइवेट लिमिटेड
786.	33753	मैसर्स हाई-टेक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
787.	032085	मैसर्स हाई-टेक मेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
788.	32438	मैसर्स हिमालय कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
789.	74179	मैसर्स हिमालय इन्फ्रक्स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
790.	20207	मैसर्स हिमवतवाण क्वॉर्स प्राइवेट लिमिटेड
791.	66498	मैसर्स हिममाधव ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
792.	18368	मैसर्स हिन्दुस्तान साइबरॉटिफिक कोमिटरियल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
793.	51531	मैसर्स होमली सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
794.	36208	मैसर्स होपास कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
795.	29435	मैसर्स हॉस्पिटल एपलाइनसेस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
796.	31353	मैसर्स हवरा श्यामा श्री टॉकाज प्राइवेट लिमिटेड
797.	60692	मैसर्स ह्यूमन मनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
798.	38342	मैसर्स आई. एम. सी. ए. मशीनरी मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
799.	36739	मैसर्स आई. आर. आई. (फूड एण्ड केमिकल) प्राइवेट लिमिटेड
800.	53748	मैसर्स आई. एम. ट्रेडिंग एण्ड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
801.	32402	मैसर्स आई.पी. पेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
802.	35489	मैसर्स आइफान कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
803.	52645	मैसर्स आइजेक्स ट्रेडिंग एण्ड फाईनांस प्राइवेट लिमिटेड
804.	51635	मैसर्स इम्प्रीवेल क्लास्टिक वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
805.	70923	मैसर्स इन्फोमेटिक्स ट्रेडिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
806.	38301	मैसर्स इन्फोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
807.	17933	मैसर्स इन्फोमेटिक्स कन्सलटेन्ट्स (1940) प्राइवेट लिमिटेड
808.	12312	मैसर्स ई.एस. इंडस्ट्रियल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
809.	18729	मैसर्स ई.एस. मेटल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
810.	12545	मैसर्स ई.एस. इकोनॉमिक एण्ड प्राइवेट लिमिटेड
811.	12039	मैसर्स ई.एस. इकोनॉमिस्ट प्राइवेट लिमिटेड
812.	12528	मैसर्स ई.एस. मेटल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
813.	16445	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक एंसेसरीज कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
814.	16944	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
815.	022999	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक प्राइवेट लिमिटेड
816.	76454	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक प्राइवेट लिमिटेड
817.	16965	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक प्राइवेट लिमिटेड
818.	036347	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक प्राइवेट लिमिटेड
819.	79980	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक प्राइवेट लिमिटेड
820.	36593	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक प्राइवेट लिमिटेड
821.	77357	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक प्राइवेट लिमिटेड
822.	53323	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक प्राइवेट लिमिटेड
823.	20787	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक प्राइवेट लिमिटेड
824.	15473	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक प्राइवेट लिमिटेड
825.	61527	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक प्राइवेट लिमिटेड
826.	20670	मैसर्स ई.एस. मेटल एंजिनिफिक प्राइवेट लिमिटेड



1	2	3	1	2	3
827.	80149	मैसर्स इसा प्रफिक्स प्राईवेट लिमिटेड	857.	72660	मैसर्स जुपेक्स सेल्स एण्ड सप्लाय प्राईवेट लिमिटेड
828.	18482	मैसर्स इशान चंद्रा चटर्जी एण्ड सन प्राईवेट लिमिटेड	858.	29985	मैसर्स जुपिटर इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
829.	33113	मैसर्स इशीका इन्वेस्टमेंट एण्ड कमर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	859.	35894	मैसर्स ज्योति डेवलपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
830.	55712	मैसर्स ईश्वर सेल्स एण्ड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड	860.	29285	मैसर्स ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
831.	017848	मैसर्स इटको प्राईवेट लिमिटेड	861.	88612	मैसर्स ज्योत्सना एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
832.	12798	मैसर्स जे अग्रवाल एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड	862.	30699	मैसर्स के. के. एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
833.	32344	मैसर्स जे टी इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	863.	009499	मैसर्स के. के. साहा एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
834.	87304	मैसर्स जे एम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	864.	44330	मैसर्स के. बी. एस फोम प्राईवेट लिमिटेड
835.	20197	मैसर्स जगदीश इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	865.	77171	मैसर्स के. जी. एन फिशरी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
836.	70619	मैसर्स जगन्नाथ बार्टर प्राईवेट लिमिटेड	866.	46481	मैसर्स के. एम. लोधा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
837.	52634	मैसर्स जगजीवन एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड	867.	66331	मैसर्स के. आर. मेनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
838.	80804	मैसर्स जय मां काली ऑटो फार्नांस प्राईवेट लिमिटेड	868.	18150	मैसर्स कामकरतास प्राईवेट लिमिटेड
839.	35960	मैसर्स जैन एण्ड अग्रवाल एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	869.	36578	मैसर्स काडेक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
840.	27360	मैसर्स जैन एलुमिनिसिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	870.	75511	मैसर्स कैलाश टी प्राईवेट लिमिटेड
841.	70337	मैसर्स जयराधा मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	871.	19907	मैसर्स कल्याण फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
842.	60577	मैसर्स जनादेश सेविंग्स एण्ड फार्नांस लिमिटेड	872.	54148	मैसर्स कमल कंस्ट्रक्शन्स एण्ड एनक्लेव प्राईवेट लिमिटेड
843.	79220	मैसर्स जैशमीन ट्रेकॉन प्राईवेट लिमिटेड	873.	70984	मैसर्स कमलपुर मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
844.	70121	मैसर्स जटाऊ कोमोडियल प्राईवेट लिमिटेड	874.	66096	मैसर्स कामरूप टाइ-अप प्राईवेट लिमिटेड
845.	012356	मैसर्स जातिया इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	875.	33479	मैसर्स कंचनजंघा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
846.	17295	मैसर्स जातिया शिल्पोनायानो पुनोरबासाति समिति प्राईवेट लिमिटेड	876.	80877	मैसर्स केनोसियन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
847.	28057	मैसर्स जयपी मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	877.	15352	मैसर्स केनोरिसा जनरल डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
848.	50764	मैसर्स जी वल्ड वाइड प्राईवेट लिमिटेड	878.	29589	मैसर्स कारतिसा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
849.	20353	मैसर्स जीनागढ़ ईस्ट बारारी कोलियरी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	879.	44807	मैसर्स कश्मीर शाल भंडार प्राईवेट लिमिटेड
850.	38803	मैसर्स जेसौर कोम्ब इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	880.	66307	मैसर्स कस्तूरी वाणिज्य एण्ड विनियोग प्राईवेट लिमिटेड
851.	80397	मैसर्स जेवलरॉक कोमोट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	881.	36676	मैसर्स काथडिया टेक्नो-इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
852.	32219	मैसर्स झारग्राम सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड	882.	70974	मैसर्स केपलर सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
853.	18154	मैसर्स झारग्राम ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	883.	36713	मैसर्स कोनिंग क्रोम एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
854.	89364	मैसर्स जेएसपी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	884.	79031	मैसर्स खतरी स्टॉक ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड
855.	44554	मैसर्स जुल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	885.	64029	मैसर्स खातु एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
856.	72668	मैसर्स जुपेक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	886.	79265	मैसर्स किहारा अकुआ प्राईवेट लिमिटेड
			887.	54439	मैसर्स के. के. केबल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
			888.	44117	मैसर्स को-ही-नूर फूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
889.	029646	मैसर्स कोडरमा सर्विस स्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
890.	29423	मैसर्स कोहिनूर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
891.	84085	मैसर्स कोले बिस्कुट कम्पनी 1996 प्राईवेट लिमिटेड
892.	79133	मैसर्स कोनार्क लॉन्ज प्राईवेट लिमिटेड
893.	55854	मैसर्स कोनिका लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
894.	60852	मैसर्स कोन्सुमेक्स माइक्रोसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
895.	32349	मैसर्स कोठारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
896.	87908	मैसर्स कोपीएस प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
897.	53938	मैसर्स कृष्णा आकाश मरकनटाइल प्राईवेट लिमिटेड
898.	55335	मैसर्स कृष्णा एपारेल्स प्राईवेट लिमिटेड
899.	053239	मैसर्स कृष्णा कमलाबाला क्रेडिट एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
900.	20513	मैसर्स कृष्णा नगर मोटर ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
901.	19250	मैसर्स कृष्णा श्री प्राईवेट लिमिटेड
902.	52852	मैसर्स कुबासा टेक्नो क्रॉफ्ट इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
903.	77328	मैसर्स कुबेर विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
904.	27510	मैसर्स कुमारघाट पेपर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
905.	34534	मैसर्स कुनाल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
906.	029399	मैसर्स क्वालिटी होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
907.	35032	मैसर्स लतीफ सन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
908.	17900	मैसर्स लौरी एन्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
909.	037889	मैसर्स लीडर आर्टक्स प्राईवेट लिमिटेड
910.	80218	मैसर्स लीगल इनफॉर्मेशन एण्ड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
911.	55319	मैसर्स लियो इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
912.	70758	मैसर्स लिबरा इक्युपरफ सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड
913.	52620	मैसर्स लाइफ-डाइमन्ड कमर्शियल फिनवेस्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
914.	87647	मैसर्स लीला ऑटो फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
915.	17162	मैसर्स लाइम वाइट इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
916.	78023	मैसर्स लीववेल एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
917.	77777	मैसर्स लोकार्पण कमर्स प्राईवेट लिमिटेड
918.	80946	मैसर्स लोकनाथ कंसलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
919.	72211	मैसर्स एम. बी. फाईनैसियल रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
920.	70919	मैसर्स एम. बी. कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
921.	37515	मैसर्स एम. के. एस. आपरेटरस प्राईवेट लिमिटेड
922.	52680	मैसर्स एम. टी. सी. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
923.	70797	मैसर्स मासप्रिच कमर्स प्राईवेट लिमिटेड
924.	66030	मैसर्स मेबको ट्रेविन प्राईवेट लिमिटेड
925.	12392	मैसर्स मशीनरीज एण्ड स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड
926.	75170	मैसर्स मधुसूदन हिमघर प्राईवेट लिमिटेड
927.	77333	मैसर्स मधुराई बार्टर प्राईवेट लिमिटेड
928.	77820	मैसर्स महधन प्रोमार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
929.	28357	मैसर्स महाजन इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
930.	26623	मैसर्स महलझीम टी एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
931.	78076	मैसर्स महामाया ट्रेकॉन प्राईवेट लिमिटेड
932.	80855	मैसर्स महाराजा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
933.	51590	मैसर्स महाराष्ट्रा ग्रीन फिल्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
934.	74156	मैसर्स महाश्वेता वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड
935.	17419	मैसर्स मजुमदार ब्रदर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
936.	35714	मैसर्स मेक्स थर्म फाउन्डरी प्राईवेट लिमिटेड
937.	77180	मैसर्स मालान्छा टाई कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
938.	15293	मैसर्स मॉल ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
939.	44825	मैसर्स ममता कोल एण्ड कोक प्राईवेट लिमिटेड
940.	070559	मैसर्स मंछाधन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
941.	76577	मैसर्स मंगोली कोमोट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
942.	70065	मैसर्स मनीरुद्दिन टाइ-अप प्राईवेट लिमिटेड
943.	70211	मैसर्स मंजन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
944.	52639	मैसर्स मंजु फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
945.	70201	मैसर्स मनोकामना सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
946.	44240	मैसर्स मंत्री फाईनैसियल कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
947.	43693	मैसर्स मारटिक्स ओरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
948.	52630	मैसर्स मशीनेना होटल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
949.	72586	मैसर्स मास मोडिया सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
950.	20914	मैसर्स मास्टरयुन्स प्राईवेट लिमिटेड
951.	053286	मैसर्स माताजी अपार्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
952.	70936	मैसर्स मेवारिक कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
953.	35198	मैसर्स मेक्सवर्थ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
954.	37205	मैसर्स मयुक (फ्राइटरर्स) प्राईवेट लिमिटेड
955.	37681	मैसर्स मयूरराक्षी कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
956.	30657	मैसर्स मेकग्रेगर एण्ड बलफोर (इंडिया) लिमिटेड
957.	30231	मैसर्स मिटल्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
958.	66583	मैसर्स मेदिनी एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
959.	82985	मैसर्स मेघा स्क्रीन एडवरटाइसिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
960.	84032	मैसर्स मेघ धनुष केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
961.	36491	मैसर्स मेहरा इलेक्ट्रीकल प्राईवेट लिमिटेड
962.	32186	मैसर्स मेलट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
963.	38960	मैसर्स मेटकॉन कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
964.	28968	मैसर्स मेट्रोपोलिटन वायर इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
965.	66586	मैसर्स मेज्जो मर्चेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
966.	80336	मैसर्स माइक्रो डाइमेन्शन प्राईवेट लिमिटेड
967.	70597	मैसर्स मिडलटन विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
968.	66064	मैसर्स मीना एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
969.	30411	मैसर्स मीरा टेलरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
970.	44758	मैसर्स मिस्ट्री इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
971.	79337	मैसर्स एमएलएस क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड
972.	32911	मैसर्स मॉड वे होटल्स हाउसिंग एण्ड इंडस्ट्रीयल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
973.	35097	मैसर्स मोडाक कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
974.	28343	मैसर्स मोनालीसा केमिकल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
975.	66955	मैसर्स मोनोरेट सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
976.	55718	मैसर्स मोनोटोना मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
977.	66000	मैसर्स मोरटॉर मर्चेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
978.	34525	मैसर्स मुखर्जी एलायंस प्राईवेट लिमिटेड
979.	72443	मैसर्स मल्टीस्टाइल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
980.	77959	मैसर्स मुर्शिदाबाद कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम प्राईवेट लिमिटेड
981.	79983	मैसर्स मिस्टिक फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
982.	15768	मैसर्स एन बोस एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
983.	28909	मैसर्स एन बनर्जी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
984.	28891	मैसर्स एन. के. चक्रवर्ती कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
985.	17604	मैसर्स एन एल रॉय एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
986.	19725	मैसर्स एन मैत्रा ब्रदर्स एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
987.	30061	मैसर्स नाज फाइनांस (चिट) एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
988.	20794	मैसर्स नवीन चंद्रा दास एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
989.	20533	मैसर्स नदिया सम्पद प्राईवेट लिमिटेड
990.	36773	मैसर्स नजात इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
991.	70204	मैसर्स नन्द टाइ-अप प्राईवेट लिमिटेड
992.	52767	मैसर्स नरमदा प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
993.	79460	मैसर्स नसीवा फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
994.	18055	मैसर्स नेशनल चेमोयस वर्क (1949) प्राईवेट लिमिटेड
995.	75779	मैसर्स नवीन ट्रेडकॉन प्राईवेट लिमिटेड
996.	31571	मैसर्स एनडीएम एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
997.	82990	मैसर्स नीलाम्बर इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
998.	73802	मैसर्स नीलिमा प्लानटेशन्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
999.	20584	मैसर्स नियो प्रोग्रेसिव पिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
1000.	26468	मैसर्स नियो प्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड
1001.	32451	मैसर्स न्यूइन (रबर) प्राईवेट लिमिटेड
1002.	15754	मैसर्स न्यू हाफटन प्राईवेट लिमिटेड
1003.	53992	मैसर्स न्यू यूनाइटेड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1004.	27099	मैसर्स निबोन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1005.	33950	मैसर्स निकोलाइट प्राईवेट लिमिटेड
1006.	38433	मैसर्स नीलाचल वायरर्स प्राईवेट लिमिटेड
1007.	84323	मैसर्स नायन स्टार नोवलिटीज प्राईवेट लिमिटेड
1008.	36459	मैसर्स निरविन इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1009.	73188	मैसर्स निरीक्षण बार्टर प्राईवेट लिमिटेड
1010.	70788	मैसर्स निसिम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1011.	54248	मैसर्स नुक फिस्कल प्राईवेट लिमिटेड
1012.	33108	मैसर्स नार्थ बंगाल रिसर्च क्लीनिक कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1013.	20771	मैसर्स नार्थन पेपर हाउस प्राईवेट लिमिटेड
1014.	37782	मैसर्स नार्थन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1015.	54334	मैसर्स नोवेक्स मरकॉनटाइल प्राईवेट लिमिटेड
1016.	72634	मैसर्स नोवोनिका कमोडीटीज प्राईवेट लिमिटेड
1017.	70708	मैसर्स एनपीएस रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड
1018.	64006	मैसर्स एनआरआई सोलर थर्मल प्राईवेट लिमिटेड
1019.	74360	मैसर्स न्यूक्लीयस व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
1020.	51473	मैसर्स नरसिंग ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1021.	43657	मैसर्स ओ. पी. ए. फाइनैसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1022.	54245	मैसर्स ओ. वाई. एच. फिवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
1023.	79294	मैसर्स ओमनियम फिनकॉन प्राईवेट लिमिटेड
1024.	43656	मैसर्स ओ. पी. ए. सप्लाय एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1025.	44962	मैसर्स ओपन एयर कम्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
1026.	31551	मैसर्स ओपीएस पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
1027.	77266	मैसर्स ओपुलेन्ट डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
1028.	79317	मैसर्स ओरबीटल एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
1029.	31167	मैसर्स ओरियन्ट माइक्रो अब्रेसिव लिमिटेड
1030.	79017	मैसर्स ओरियन्टल कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड
1031.	29484	मैसर्स ओरियन्टल ट्रांसफार्मर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1032.	24288	मैसर्स ऑस्कर इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
1033.	44362	मैसर्स पी. इ. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1034.	16407	मैसर्स पी. पी. पाठक एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
1035.	66044	मैसर्स पास साल्ट प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड
1036.	35240	मैसर्स पाफ प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1037.	72613	मैसर्स पखेरू सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
1038.	38639	मैसर्स पंचकोटि एग्रीकल्चर एण्ड मिनरल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1039.	53399	मैसर्स पंचशील टॉवर प्राईवेट लिमिटेड
1040.	51893	मैसर्स पंचवटी ट्रेड एण्ड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
1041.	30266	मैसर्स पंडाब सेविंग्स एण्ड चिट स्कीम प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1042.	44138	मैसर्स पंकज मूवीस प्राईवेट लिमिटेड
1043.	20664	मैसर्स पेपर मिल सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
1044.	33368	मैसर्स पैरामाऊंट फाइबर ग्लास इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1045.	35906	मैसर्स पारसमणि इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1046.	30294	मैसर्स पार्वती सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (चिट) कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1047.	52715	मैसर्स परिजात लैंड एण्ड हाउसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1048.	38552	मैसर्स पार्कर ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
1049.	38774	मैसर्स पार्कर सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1050.	80530	मैसर्स पटेल हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
1051.	54213	मैसर्स पत्थर प्रतिमा शिव शक्ति आइस फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
1052.	29631	मैसर्स पाल चौधुरी एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1053.	51454	मैसर्स पाल ऑयल फिलिंग प्राईवेट लिमिटेड
1054.	54271	मैसर्स पीसीआई टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
1055.	60811	मैसर्स परफेक्ट व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
1056.	46414	मैसर्स पेटल इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1057.	82993	मैसर्स पेटरुशका ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
1058.	17464	मैसर्स पिचग कोलियरी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1059.	20368	मैसर्स पायोनियर कोक एण्ड कोल प्राईवेट लिमिटेड
1060.	66447	मैसर्स पिसमायर सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1061.	72317	मैसर्स पीयूष मेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
1062.	28547	मैसर्स प्लास्टिक एक्सट्रूडर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1063.	29248	मैसर्स पॉलिगान इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1064.	75973	मैसर्स पूर्णेश मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1065.	15309	मैसर्स पवित्र बैटरी एण्ड प्लेट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1066.	70956	मैसर्स प्रभुधन सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
1067.	9417	मैसर्स प्रकाश एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1068.	30607	मैसर्स प्रमोद स्टील्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1069.	66081	मैसर्स प्राणीतत्वा संधान एण्ड प्रयोग प्राईवेट लिमिटेड
1070.	44629	मैसर्स प्रयोग एडवर्टाइसिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
1071.	32803	मैसर्स प्रिंसीशन इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	1098.	89805	मैसर्स राधे एलुम केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1072.	61433	मैसर्स प्रिलीनरी कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	1099.	33395	मैसर्स राधवराज प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1073.	31586	मैसर्स प्रीमियर होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	1100.	38792	मैसर्स राहुल सिन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
1074.	9510	मैसर्स प्रीमा फिल्मस (1938), प्राईवेट लिमिटेड	1101.	53004	मैसर्स रायकुट टी प्राईवेट लिमिटेड
1075.	36566	मैसर्स प्रीति शेयर्स एण्ड सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	1102.	70889	मैसर्स रायमकॉम कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
1076.	88514	मैसर्स प्रियन्ती कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	1103.	79131	मैसर्स राज-एन-प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
1077.	32361	मैसर्स प्रोफेशनल फेबरीकेशन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1104.	74002	मैसर्स राजगीर एम्पोरियम प्राईवेट लिमिटेड
1078.	79120	मैसर्स प्रोग्रेसिव कार्ड बोर्ड बॉक्स प्राईवेट लिमिटेड	1105.	31255	मैसर्स राजगुरु मशीन कम्पौनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1079.	53411	मैसर्स प्रोलिफिक जनरल हायर परचेस एण्ड हाऊसिंग फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	1106.	30617	मैसर्स राजहंस फाइनांस एण्ड चिट स्कीम प्राईवेट लिमिटेड
1080.	44802	मैसर्स प्रस्तुति हायर परचेस एण्ड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	1107.	29645	मैसर्स राजरानी सर्विस स्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
1081.	66475	मैसर्स पीआरपी इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1108.	10888	मैसर्स रेली इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
1082.	67233	मैसर्स पफको सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	1109.	20383	मैसर्स रामकुमार अग्रवाला एण्ड ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
1083.	30650	मैसर्स पुलमेन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1110.	38804	मैसर्स रामका कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1084.	84497	मैसर्स पुल्लोक मर्केंटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	1111.	31336	मैसर्स रामपाल प्राईवेट लिमिटेड
1085.	32268	मैसर्स पुरबानी पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	1112.	79430	मैसर्स रंगकला मर्चेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1086.	12586	मैसर्स प्योर तासरा कोलियरी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1113.	34221	मैसर्स रानीसती जूट इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1087.	28289	मैसर्स पुरलिया रिफेक्टरीज एण्ड सिरेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड	1114.	53209	मैसर्स रंजित एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
1088.	17939	मैसर्स पुरुषोत्तम रामजी एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड	1115.	15953	मैसर्स रनकेन एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1089.	37851	मैसर्स क्वाली फोटो प्रोसेस प्राईवेट लिमिटेड	1116.	36786	मैसर्स रसेन्दु रिसोर्सस प्राईवेट लिमिटेड
1090.	36808	मैसर्स क्वालिटी बिल्डर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	1117.	31305	मैसर्स आडीजी प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
1091.	37858	मैसर्स क्वालिटी डीजल एसेसरीज एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	1118.	38787	मैसर्स रेडबैंक टी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1092.	81320	मैसर्स कॉन्टम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1119.	81237	मैसर्स रीमा पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1093.	15549	मैसर्स क्वीन स्टेशनरी स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड	1120.	37216	मैसर्स रीगल एडवर्टाइसिंग सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
1094.	44337	मैसर्स आर. सी. एम. कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	1121.	43382	मैसर्स रिजेन्सी बियरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1095.	36463	मैसर्स आर. के. रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	1122.	32429	मैसर्स रेगुलेटर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1096.	60441	मैसर्स आर. एम. टेक्नोप्लास्ट एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	1123.	36769	मैसर्स रिकॉन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1097.	38996	मैसर्स राधा निकेत अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	1124.	26575	मैसर्स रिलायन्स श्रीम्स (डिस्ट्रीब्यूटर्स) प्राईवेट लिमिटेड
			1125.	67881	मैसर्स रिनोविशिन ट्रेकॉन प्राईवेट लिमिटेड
			1126.	30681	मैसर्स रेप्यूट फाइनांस एण्ड सेविंग्स प्राईवेट लिमिटेड
			1127.	70906	मैसर्स रिकोचेत सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
			1128.	70878	मैसर्स रिकोचेत व्यापार प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1129.	70876	मैसर्स रिकॉन व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
1130.	79334	मैसर्स रिथी डिस्ट्रीब्यूटर्स सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
1131.	36584	मैसर्स रिनिसुरा फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1132.	67911	मैसर्स रिन्नी इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1133.	52707	मैसर्स रिरट्च इन्वेस्टमेंट्स एण्ड होलिडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1134.	67722	मैसर्स रिटोना कमोडीटीज प्राईवेट लिमिटेड
1135.	52888	मैसर्स आरकेजी मल्टीकॉम प्राईवेट लिमिटेड
1136.	37288	मैसर्स राकवेल प्यूमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1137.	70060	मैसर्स रोलाटेनरर्स सप्लाय प्राईवेट लिमिटेड
1138.	55398	मैसर्स रूमिंग हाउस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1139.	51597	मैसर्स रोस टी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1140.	32897	मैसर्स रोसीडाभ सर्वे कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1141.	15991	मैसर्स राय ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
1142.	23112	मैसर्स राय केमिकल प्राईवेट लिमिटेड
1143.	16353	मैसर्स राय फार्मसी प्राईवेट लिमिटेड
1144.	56028	मैसर्स रूम रान मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1145.	20980	मैसर्स एस. बी. इलेक्ट्रीक मार्ट प्राईवेट लिमिटेड
1146.	12688	मैसर्स एस. बी. इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1147.	15325	मैसर्स एस. सी. चौधरी एण्ड ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
1148.	44630	मैसर्स एस. ई. कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
1149.	16397	मैसर्स एस. जी. आर. इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1150.	39324	मैसर्स एस. एस. एफ. रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड
1151.	54378	मैसर्स एस. सेन कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1152.	37530	मैसर्स एस. सी. केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1153.	30469	मैसर्स एस. डी. बी. ट्रेडिंग एण्ड चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
1154.	44451	मैसर्स एस. जी. इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
1155.	52662	मैसर्स एस. के. डिजीटल टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
1156.	38956	मैसर्स एस. के. प्रगति प्राईवेट लिमिटेड
1157.	37250	मैसर्स एस. एस. सेल्स एण्ड सर्विस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1158.	79245	मैसर्स सावित्री साड़ी सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
1159.	70207	मैसर्स साधन विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
1160.	30227	मैसर्स सेफ चिट यूनिट्स प्राईवेट लिमिटेड
1161.	79013	मैसर्स सहयोगी एडवाइसरी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
1162.	76157	मैसर्स सैकत श्यामा मा फिश फार्म प्राईवेट लिमिटेड
1163.	44216	मैसर्स सैसाउन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
1164.	20668	मैसर्स शाकाम्बरी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1165.	55390	मैसर्स सान्ट लेक सर्विस सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
1166.	46831	मैसर्स समर गुप्ता एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1167.	37908	मैसर्स सान्द्रा बिलडर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
1168.	79045	मैसर्स संगम कोमोट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
1169.	37590	मैसर्स सनींग एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1170.	66940	मैसर्स संजना फार्मस एण्ड आर्चर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
1171.	54269	मैसर्स संजित ट्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1172.	36848	मैसर्स संजीव इम्पेक्स सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
1173.	31346	मैसर्स संसार सेविंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1174.	73135	मैसर्स शंता क्रुज फाईनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1175.	76687	मैसर्स सनयंक ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
1176.	12280	मैसर्स सान्याल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1177.	52672	मैसर्स सरथ होलिडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1178.	53680	मैसर्स सर्वोधन हाउसिंग कम्प्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1179.	10245	मैसर्स सतनारियन श्यामसुन्दर प्राईवेट लिमिटेड
1180.	26603	मैसर्स सत्यानारायण कोलियरी प्राईवेट लिमिटेड
1181.	70747	मैसर्स सत्याप्रकाश टाइ-अप प्राईवेट लिमिटेड
1182.	30670	मैसर्स सेवर्नाक फेब्रिकेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1183.	38905	मैसर्स स्वालका ऑटो (महाराष्ट्र) प्राईवेट लिमिटेड
1184.	66720	मैसर्स एसबीजी लीसिंग एण्ड हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड
1185.	77804	मैसर्स एसबीपी लेदर्स प्राईवेट लिमिटेड
1186.	33288	मैसर्स स्कैन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1187.	78494	मैसर्स स्कानिडिया कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
1188.	78495	मैसर्स स्कानिडिया कमोडील प्राईवेट लिमिटेड
1189.	52693	मैसर्स स्कनर डाइग्नोस्टिक क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
1190.	18466	मैसर्स सियालदह रेस्टोरेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	1217.	18050	मैसर्स श्री रामकृष्णा इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1191.	79753	मैसर्स सेकफीना होल्डिंग्स एण्ड सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	1218.	54469	मैसर्स श्री सिल्कीना एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
1192.	54498	मैसर्स सेनकॉन कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	1219.	36000	मैसर्स श्रोफ रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड
1193.	44632	मैसर्स सिरामपुर व्हीकल फाईनांस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1220.	54023	मैसर्स सीबा मेडीकेयर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड
1194.	31093	मैसर्स सेट्ट एस्टेट डेवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1221.	52661	मैसर्स सिद्धान्त ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
1195.	61926	मैसर्स सेवन आर्कड सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1222.	73942	मैसर्स सिद्धि कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
1196.	36300	मैसर्स साइ केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	1223.	52671	मैसर्स सिगनल वर्ड्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
1197.	18075	मैसर्स शाखी चरन राय एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड	1224.	80854	मैसर्स सिलिकॉन रिफेक्टरीज प्राईवेट लिमिटेड
1198.	76423	मैसर्स शालीमार पॉलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड	1225.	53842	मैसर्स सिल्वर स्ट्रेक एयर केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1199.	18750	मैसर्स शाम लाल सेन प्राईवेट लिमिटेड	1226.	43715	मैसर्स सिनक्लेयर्स कंसलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
1200.	67082	मैसर्स शंकर पार्वती डील कॉम प्राईवेट लिमिटेड	1227.	51332	मैसर्स सिंचानिया क्रेडिट प्राईवेट लिमिटेड
1201.	34298	मैसर्स शंकरलाल मुंद्रा एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड	1228.	60634	मैसर्स शिवा ब्यूटीज प्राईवेट लिमिटेड
1202.	53564	मैसर्स शांतनु ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	1229.	26551	मैसर्स स्कार्फ इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
1203.	44462	मैसर्स शांति रबर इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	1230.	46447	मैसर्स स्कार्म मीनी राइस मिल प्राईवेट लिमिटेड
1204.	76807	मैसर्स शेखावत कंसलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	1231.	70952	मैसर्स स्किपर इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
1205.	79695	मैसर्स शेलजा सिक्यूरिटी प्राईवेट लिमिटेड	1232.	81026	मैसर्स स्काइलार्क टूरिस्ट एण्ड ट्रेवल गाइड प्राईवेट लिमिटेड
1206.	38508	मैसर्स शेलक्राफ्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1233.	18283	मैसर्स स्माल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1207.	28718	मैसर्स शेलका वुलन्स प्राईवेट लिमिटेड	1234.	53279	मैसर्स स्मीडम्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
1208.	28962	मैसर्स शिल्पा आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1235.	79817	मैसर्स स्नॉप वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड
1209.	52748	मैसर्स शीतलामाता ब्रिक फील्ड प्राईवेट लिमिटेड	1236.	78163	मैसर्स स्नूपर सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
1210.	74977	मैसर्स शिवललित इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	1237.	27059	मैसर्स सोहनलाल प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1211.	74978	मैसर्स शिव ललित मरकॉनडाइस प्राईवेट लिमिटेड	1238.	54394	मैसर्स सोल फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
1212.	52625	मैसर्स शोभा कमर्शियल एण्ड एक्सीम प्राईवेट लिमिटेड	1239.	76664	मैसर्स सोना राइस मिल प्राईवेट लिमिटेड
1213.	53493	मैसर्स श्रद्धा एक्सीम प्राईवेट लिमिटेड	1240.	77152	मैसर्स सोनी एयर बुकिंग प्राईवेट लिमिटेड
1214.	31161	मैसर्स श्री अग्रवाल एन्टरप्राइसिस (एजेन्सी) प्राईवेट लिमिटेड	1241.	70281	मैसर्स सूर कमोडील प्राईवेट लिमिटेड
1215.	30419	मैसर्स श्री अर्चना डीटरजेन्ट एण्ड केमिकल प्राईवेट लिमिटेड	1242.	52615	मैसर्स सुरिन्द्रा किरण टी प्राईवेट लिमिटेड
1216.	79173	मैसर्स श्री राधा रानी मार्बल एण्ड ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड	1243.	11264	मैसर्स साउण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
			1244.	37815	मैसर्स साउदर्न क्रास रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड
			1245.	76542	मैसर्स स्पार्टक्स इंजीनियरिंग एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
			1246.	26341	मैसर्स स्पार्टक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1247.	77810	मैसर्स स्पीड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
1248.	80814	मैसर्स स्पीडफास्ट मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1249.	32428	मैसर्स स्पीडिंग कॉसटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1250.	74134	मैसर्स स्पिनपिक सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
1251.	38167	मैसर्स श्री दुर्गा एलॉयस एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
1252.	32107	मैसर्स श्री गोपीकिशन स्टील वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
1253.	77876	मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
1254.	54022	मैसर्स श्री शुभम टोर्बोको प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1255.	70961	मैसर्स श्रीधन कोमोट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
1256.	31380	मैसर्स श्रीवास्तवा एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1257.	80224	मैसर्स एसआरपीसी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1258.	51694	मैसर्स स्टेनलस फिसकल सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड
1259.	44414	मैसर्स स्टेनमोर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
1260.	16296	मैसर्स स्टानिक मेटल्स एण्ड एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
1261.	16807	मैसर्स स्टार कॉटन एण्ड होसरी मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
1262.	29747	मैसर्स स्टार लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1263.	37418	मैसर्स स्टार विन्डिंग वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
1264.	70315	मैसर्स स्टारबस्ट कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
1265.	26480	मैसर्स स्टील प्लान्ट एण्ड रोलिंग मिल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1266.	54112	मैसर्स स्ट्रुमेक (इंडिया) क्रैन्स प्राईवेट लिमिटेड
1267.	28318	मैसर्स सुवर्णरेखा इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1268.	55236	मैसर्स शुभम हाउसिंग एण्ड फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
1269.	35157	मैसर्स सुभद्रा पेपर एण्ड पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1270.	32599	मैसर्स सुबीर एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1271.	60570	मैसर्स सुगंध होम फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
1272.	35399	मैसर्स सुजीकॉन कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1273.	60980	मैसर्स सुकलपतारू क्लीनिक एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
1274.	50698	मैसर्स सुलभ मरकॉनडाइस प्राईवेट लिमिटेड
1275.	31330	मैसर्स सुलता सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1276.	70323	मैसर्स सुलोचना मिनिमय प्राईवेट लिमिटेड
1277.	66916	मैसर्स सुमेधा मरकॉनडाइल प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1278.	54539	मैसर्स सुनन्दा जिनकोचेम प्राईवेट लिमिटेड
1279.	53826	मैसर्स सुनयना एनक्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1280.	27098	मैसर्स सनवीम इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1281.	51899	मैसर्स सनवीम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1282.	37824	मैसर्स सुंदरम ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
1283.	10452	मैसर्स सुंदरदास एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
1284.	32885	मैसर्स सनफ्लाअर पेपर कनवर्टरस प्राईवेट लिमिटेड
1285.	43516	मैसर्स सनफ्लाअर वॉडिओ एण्ड एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
1286.	55732	मैसर्स सुनियोजित फिनवेस्ट एण्ड क्रेडिट प्राईवेट लिमिटेड
1287.	79018	मैसर्स सुपाक ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
1288.	33074	मैसर्स सुपर फाउंड्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1289.	30223	मैसर्स सुपरट्रॉनिक्स माइक्रोडीजिटल प्राईवेट लिमिटेड
1290.	44997	मैसर्स संपाट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1291.	66996	मैसर्स स्पेयरप्रो पोर्टफोलियो कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1292.	43534	मैसर्स सूर्या आइरन वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
1293.	74905	मैसर्स सूर्या-शक्ति सेल्स एण्ड सप्लाय प्राईवेट लिमिटेड
1294.	33676	मैसर्स स्वच्छणी डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1295.	15538	मैसर्स स्वदेशी एन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
1296.	16339	मैसर्स स्वानोडेन्ट (इस्टर्स) प्राईवेट लिमिटेड
1297.	51764	मैसर्स स्वर्णम एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
1298.	77430	मैसर्स स्वर्णरेखा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1299.	52884	मैसर्स स्वर्णिमक फाईनेंसियल एण्ड कमर्शियल सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड
1300.	79526	मैसर्स सिम्फनी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1301.	76630	मैसर्स सिम्फनी टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
1302.	35594	मैसर्स टी.सी.आईडी.एण्ड.सन्स (ज्वेलर्स) प्राईवेट लिमिटेड
1303.	54323	मैसर्स टैंगोर पार्क एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1304.	52640	मैसर्स टाइपेक इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1305.	16753	मैसर्स ताम्रज्योति वर्कर्स ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड



1	2	3	1	2	3
1306.	30281	मैसर्स ताम्रलिप्ता चिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1336.	30649	मैसर्स ट्रेफॉयल्स प्राईवेट लिमिटेड
1307.	31481	मैसर्स ताम्रलिप्ता कोल्ड स्टोरेज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1337.	53241	मैसर्स ट्राइ शक्ति एगो इक्वीपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1308.	29557	मैसर्स तानसेन नेवीगेशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1338.	27337	मैसर्स त्रिवेणी ग्लास इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1309.	34559	मैसर्स तनुज प्राईवेट लिमिटेड	1339.	12009	मैसर्स त्रिपुरा एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
1310.	51671	मैसर्स तराई इन्वेस्टमेंट एण्ड लीसिंग प्राईवेट लिमिटेड	1340.	84582	मैसर्स त्रिवेणी सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
1311.	37281	मैसर्स तरित पाँवर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	1341.	89675	मैसर्स टीआरएस ऑटो-रेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
1312.	79209	मैसर्स टाटू कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	1342.	28345	मैसर्स टूफार्म टूल्स एण्ड गेजस प्राईवेट लिमिटेड
1313.	27363	मैसर्स टेस्टी फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1343.	31351	मैसर्स ट्रसस एण्ड टॉवरर्स कंक्र्रीट प्राईवेट लिमिटेड
1314.	88189	मैसर्स टीबीएस कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	1344.	33079	मैसर्स तुलसी इलेक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1315.	44234	मैसर्स टेक्नो एड्ड प्राईवेट लिमिटेड	1345.	64166	मैसर्स तुंगाभद्रा व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
1316.	30672	मैसर्स टीटेक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1346.	67590	मैसर्स तुंगरोली व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
1317.	30247	मैसर्स टेकडिजाइन प्राईवेट लिमिटेड	1347.	66587	मैसर्स टरमायल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
1318.	43314	मैसर्स टेरा फार्मा (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1348.	60917	मैसर्स टर्नकी कंसलटेंट्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1319.	16299	मैसर्स टेक्सटाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	1349.	74527	मैसर्स यू-निक कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1320.	77688	मैसर्स श्री चियर्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	1350.	44739	मैसर्स उदयन ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1321.	76136	मैसर्स तिलोकसन्स ब्रिक्वरी एण्ड डिस्टिलरी प्राईवेट लिमिटेड	1351.	43619	मैसर्स अल्टीमेट फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
1322.	31878	मैसर्स टिपिंगटान इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1352.	51670	मैसर्स यूनीकोर फेबरीकेशन एण्ड इरेक्शन प्राईवेट लिमिटेड
1323.	34199	मैसर्स टिपी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1353.	36482	मैसर्स यूनीफ्लेक्स ट्रांसमिशन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
1324.	52684	मैसर्स तीर्था भारती हाउसिंग एण्ड ऑटो फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड	1354.	17756	मैसर्स यूनिनयन टी गारडेन स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड
1325.	53155	मैसर्स टिस फाईनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1355.	81127	मैसर्स यूनिसाफ्ट इनफोरमेटिक प्राईवेट लिमिटेड
1326.	70509	मैसर्स टॉपग्रेन एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	1356.	76491	मैसर्स यूनिसन एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
1327.	70304	मैसर्स टॉपलाइट सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	1357.	80167	मैसर्स यूनीटेक ट्रेयलर्स एण्ड बॉडी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1328.	44808	मैसर्स टाप्स कॉस्मेटिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1358.	16252	मैसर्स यूनाइटेड बंगाल प्रिंटिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
1329.	73134	मैसर्स तोरित इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	1359.	20498	मैसर्स यूनाइटेड पेपर स्टेशनरीज प्राईवेट लिमिटेड
1330.	67062	मैसर्स टॉवक्कि डीलकॉम प्राईवेट लिमिटेड	1360.	15257	मैसर्स यूनाइटेड ट्रेडिंग एजेन्सी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1331.	67257	मैसर्स टॉवक्कि विनकॉम प्राईवेट लिमिटेड	1361.	30279	मैसर्स यूनिवरसल स्पॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
1332.	37201	मैसर्स ट्रेडिको एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड	1362.	66471	मैसर्स अपस्विंग मेरकॉन्डाइस प्राईवेट लिमिटेड
1333.	72841	मैसर्स ट्रामार्क कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	1363.	29528	मैसर्स उषा एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
1334.	87072	मैसर्स ट्रेवल यूनिवर्स प्राईवेट लिमिटेड	1364.	62262	मैसर्स उत्सव कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1335.	52619	मैसर्स ट्रीटमेंट होम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1365.	79559	मैसर्स उत्तर सिटी ब्रिक वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1366.	30740	मैसर्स वी. एस. इन्वेस्टमेंट एण्ड चिट स्कीम प्राईवेट लिमिटेड
1367.	35824	मैसर्स वेको प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
1368.	66612	मैसर्स वाघानी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
1369.	76301	मैसर्स वैशानव इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1370.	72532	मैसर्स वरुण टेक्सट्राई प्राईवेट लिमिटेड
1371.	37704	मैसर्स वशिष्ठ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
1372.	76691	मैसर्स वसुन्धरा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1373.	76079	मैसर्स वसुन्धरा टाइ-अप प्राईवेट लिमिटेड
1374.	60960	मैसर्स वी पी इपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1375.	37279	मैसर्स विबायोर प्रिंटिंग एण्ड पैकिंग लिमिटेड
1376.	36386	मैसर्स विजय ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
1377.	36754	मैसर्स विजय रोड सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड
1378.	37152	मैसर्स विजयाता शिपिंग एण्ड शिपमेनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1379.	75991	मैसर्स विजयश्री मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1380.	027872	मैसर्स विकास प्रोड्यूसर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
1381.	44621	मैसर्स विकास मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1382.	76433	मैसर्स विनार कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
1383.	73301	मैसर्स विनायक बार्टर प्राईवेट लिमिटेड
1384.	70890	मैसर्स विनियोगा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1385.	72851	मैसर्स विनलॉक टाइ-अप प्राईवेट लिमिटेड
1386.	79492	मैसर्स विनोद फाईनैसियल सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड
1387.	38783	मैसर्स विशाल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1388.	79982	मैसर्स वाइटल सिग्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
1389.	20943	मैसर्स विवेकानन्द प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
1390.	28678	मैसर्स वावशी एण्ड डचमारा प्राईवेट लिमिटेड
1391.	52641	मैसर्स वास्यो इन्वेस्टमेंट एण्ड केमिकल प्राईवेट लिमिटेड
1392.	44325	मैसर्स वेक्स एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
1393.	82389	मैसर्स वेलप्लान ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
1394.	66017	मैसर्स वेन्डर वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड
1395.	23788	मैसर्स वेस्ट बंगाल जनरल इंजीनियरिंग कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1396.	53902	मैसर्स वेग्ट वींग्स ट्रेवलस एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1397.	38904	मैसर्स वेन्टन प्रेसिंग प्राईवेट लिमिटेड
1398.	30603	मैसर्स विलियम काक्स एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1399.	43162	मैसर्स विनमोर ट्रेड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1400.	51499	मैसर्स वुडन फार्निचर्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1401.	38791	मैसर्स वकार्स प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
1402.	85095	मैसर्स वंदुकी ओवरसीस प्राईवेट लिमिटेड
1403.	46199	मैसर्स विलार्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
1404.	75626	मैसर्स वीनथ इंजीनियरिंग एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1405.	44492	मैसर्स जोर्डियाक फाइबर प्राईवेट लिमिटेड

मैसर्स सिंह

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

प. धरमपुर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साउथ वेस्ट टेनिस अकादमी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. 18778/560.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 को उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साउथ वेस्ट टेनिस अकादमी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। -

एस. एम. अमीरुल मिस्किन

कम्पनी रजिस्ट्रार

कोच्चि

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ससुरा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 19 सितम्बर 2007

सं. 560(3)/एम सी ए/आर ओ सी/एरनाकुमल/560/2007/000011, 11020.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ससुरा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज से तीन महीने के बाद रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एस. एम. अमीरुल मिस्किन

कम्पनी रजिस्ट्रार

कोच्चि

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

हैदराबाद-500195, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. आर ए पी/एस ई एस/2003/560(5)/एस टी ए 1/07.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
1. 34266	मैसर्स श्री सारादा सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2. 26038	मैसर्स मिलाग्रो इन्टरप्राइसिस लिमिटेड
3. 10000	मैसर्स तरन्या सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
4. 24300	मैसर्स एन आर एस हाट्चरीस प्राईवेट लिमिटेड

हेनरी रिचर्ड  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. 560(3)/टी. ए./2007.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1. 7818		मैसर्स एक्सेससियर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2. 7922		मैसर्स सी एन सी इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
3. 19230		मैसर्स इशु डेग्नोस्टिक्स लिमिटेड
4. 19231		मैसर्स इशु रिसोर्ट्स लिमिटेड
5. 19233		मैसर्स एश्वर्या सिल्कस लिमिटेड

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/560(3)/2007.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में यह सूचना दी जाती है कि इस

तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित हो जाएंगी:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	5003	मैसर्स सनराइज अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	5025	मैसर्स इम्मारजय प्रोपर्टी डेवलपमेंट एण्ड मेनेजमेंट कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	5027	मैसर्स पी एण्ड जे कम्प्यूटेशन डिवाइस प्राईवेट लिमिटेड
4.	5028	मैसर्स के. एम. एलाय एण्ड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	5031	मैसर्स सिंडिकेट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
6.	5036	मैसर्स रीमाकोन रिसोर्स मेनेजमेंट कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	5037	मैसर्स डागा टेक्सटाइल प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	5040	मैसर्स एम. एस. फास्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	5042	मैसर्स प्रीज फास्ट प्राईवेट लिमिटेड
10.	5064	मैसर्स के. एन. डी. फाउंड्रीज प्राईवेट लिमिटेड
11.	5071	मैसर्स सोना एवरेसिब प्राईवेट लिमिटेड
12.	5087	मैसर्स अशोका फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	5092	मैसर्स एच. एम. टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	5097	मैसर्स इनसैट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
15.	5104	मैसर्स वन्देकर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
16.	5105	मैसर्स माधवी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	5126	मैसर्स स्कन्दा ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
18.	5135	मैसर्स अल-याम ट्रेवलस एण्ड एलाईड एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
19.	5145	मैसर्स नित्या सर्वमंगला ट्रेडिंग एण्ड एलाईड एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
20.	5159	मैसर्स चोपड़ा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
21.	5160	मैसर्स रॉयल इक्यूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	5169	मैसर्स स्पेशियलटी टी सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड
23.	5171	मैसर्स केटीरैड्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
24.	5184	मैसर्स इलेक्ट्रो पावर इन्स्यूलेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	5217	मैसर्स अल-आमीन ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	5123	मैसर्स रोहिनी स्टेच एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
27.	5223	मैसर्स सन-वैली सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	5224	मैसर्स बोनस्टन लीजिंग (इंडिया) लिमिटेड
29.	5225	मैसर्स अजय एण्ड अमित मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
30.	5226	मैसर्स रस्तापुर आनन्द होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	5227	मैसर्स सोमप्पा गिनिंग एण्ड ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	5236	मैसर्स प्रसाद कौस्यू प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	5250	मैसर्स 20वीं सेन्चुरी प्रिंट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	5256	मैसर्स एम. कन्नू कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	5318	मैसर्स बंगलोर ऑफसेट प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	5314	मैसर्स यम्मू ओ कनैक्शनरीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	5303	मैसर्स महावीरा ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
38.	5295	मैसर्स गायत्री टेक्सटाइल्स सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	5294	मैसर्स सूरी एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	5275	मैसर्स रीगल मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	5261	मैसर्स वेलब्रो सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड
42.	5275	मैसर्स वन्दना ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	5264	मैसर्स राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
44.	5395	मैसर्स केतक केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	5277	मैसर्स एसोसिएटेड आरचिटेक्ट एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	5272	मैसर्स पुसालकर इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	5362	मैसर्स गुब्बी वीराना ब्रिक्स एण्ड टाईल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
48.	5259	मैसर्स एस. बी. एस. फूड इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
49.	5254	मैसर्स कश्यप बैट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
50.	5352	मैसर्स इण्डो-जैप सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	5348	मैसर्स रजीत बन्धु वाक्स वेल्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	5343	मैसर्स स्वर्ण प्रिसिजन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	5330	मैसर्स परफेक्ट ड्राईवस प्राईवेट लिमिटेड
54.	5451	मैसर्स प्रोरेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
55.	5469	मैसर्स माईकम प्राईवेट लिमिटेड
56.	5470	मैसर्स गिगि इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
57.	5411	मैसर्स ट्वंटी फर्स्ट सेन्चुरी नोह कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	5416	मैसर्स विट्टलन फ्रूट्स कैंनिंग प्राईवेट लिमिटेड
59.	5426	मैसर्स अनुग्रह इंटरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड
60.	5434	मैसर्स अन्नपूर्णा मार्केटिंग एण्ड ट्रेडिंग एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
61.	5439	मैसर्स अपेक्षा एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	5480	मैसर्स पावर लाईन कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	5483	मैसर्स एडॉलिव प्राईवेट लिमिटेड
64.	5476	मैसर्स मां इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
65.	5475	मैसर्स कन्नड सीमेंट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
66.	5493	मैसर्स राजधानी केबल्स एण्ड कंक्रिट्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	5516	मैसर्स वीसांगमएस प्राईवेट लिमिटेड
68.	5510	मैसर्स डी. जे. एन. प्रेसिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	5502	मैसर्स वन्दन प्राईवेट लिमिटेड
70.	5597	मैसर्स कविता डायलस प्राईवेट लिमिटेड
71.	5600	मैसर्स कम्यूटेक सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	5547	मैसर्स पायोनियर एक्स्ट्रेक्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	5557	मैसर्स मुलवागल सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	5545	मैसर्स मेडिकल डायग्नोस्टिक रिसर्च लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
75.	5534	मैसर्स सिसार्गी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	5533	मैसर्स हरियाणा पंजाब रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड
77.	5521	मैसर्स न्यू डोलक्स डेवलप्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	5651	मैसर्स डिनडेट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
79.	5661	मैसर्स जय भवानी सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	5648	मैसर्स माधुर खान्डासरी शूगर्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	5645	मैसर्स सिल्वर व्हेलेंट मोटरसाइकिल स्पोर्ट शो कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
82.	5628	मैसर्स जदम इंटरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
83.	5624	मैसर्स आर्यन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	5625	मैसर्स देव परफ्यूम्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
85.	5619	मैसर्स देव पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	116.	5815	मैसर्स सिटरा ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	5601	मैसर्स कराना गैस सिलिन्डर्स एण्ड एलाईड इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड	117.	5915	मैसर्स पौरनामी इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
87.	5609	मैसर्स रेनू टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	118.	5917	मैसर्स मुद्रा ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	5757	मैसर्स चित्रा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	119.	5920	मैसर्स फरमेन्ड्रक प्राईवेट लिमिटेड
89.	5755	मैसर्स राजवंशी कंस्ट्रक्शन्स एण्ड एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड	120.	5921	मैसर्स अक्षय मुद्रण प्राईवेट लिमिटेड
90.	5723	मैसर्स रूममैन इन्स्यूलेशन प्राईवेट लिमिटेड	121.	5834	मैसर्स वेंकटेश्वरा पाईपस मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
91.	5685	मैसर्स ऊनहोदया मैसीन सिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड	122.	5835	मैसर्स वेलडार्क प्राईवेट लिमिटेड
92.	5676	मैसर्स सामिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	123.	5838	मैसर्स आरोलाईट प्राईवेट लिमिटेड
93.	5665	मैसर्स इनजय स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	124.	5827	मैसर्स रूपा मेटलस प्राईवेट लिमिटेड
94.	5709	मैसर्स आदर्श ऑटो वर्कशाप प्राईवेट लिमिटेड	125.	5923	मैसर्स दीप प्रेशर वेसल्स (कर्नाटक) प्राईवेट लिमिटेड
95.	5714	मैसर्स मल्टी प्रिंटस प्रोसेस इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	126.	5839	मैसर्स इन्टीग्रेटेड कंसलटेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
96.	5720	मैसर्स नीगसन प्राईवेट लिमिटेड	127.	5856	मैसर्स श्रीधि सिल्क प्राईवेट लिमिटेड
97.	5675	मैसर्स वेलगुन्दी सीमेंट्स लिमिटेड	128.	5868	मैसर्स सुतालिया स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	5583	मैसर्स कैमेट्राड प्राईवेट लिमिटेड	129.	5855	मैसर्स रत्ना कैंन्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	5449	मैसर्स दीमाशु सिलकस प्राईवेट लिमिटेड	130.	5930	मैसर्स फोएनिक्स कार्स्टिंग लिमिटेड
100.	5544	मैसर्स ब्राईट इंजीनियरिंग कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	131.	5913	मैसर्स मोना प्राईवेट लिमिटेड
101.	5758	मैसर्स चित्रा सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	132.	5907	मैसर्स वालिया नीशिमोटो प्राईवेट लिमिटेड
102.	5770	मैसर्स वाईट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	133.	5926	मैसर्स गृहालक्ष्मी हाउसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
103.	5778	मैसर्स कामधेनू ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	134.	5904	मैसर्स श्री पुलाकेशी सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	5779	मैसर्स नाथ एण्ड नाथ एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	135.	5890	मैसर्स मेट्रोपोल हाउसिंग डेवलपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
105.	5785	मैसर्स सिटिजन रिफाईनरीज प्राईवेट लिमिटेड	136.	5899	मैसर्स श्री वन्यनकारी लीसिंग कम्पनी लिमिटेड
106.	5788	मैसर्स सहयाद्री सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	137.	5975	मैसर्स पाक्सल लिजिंग लिमिटेड
107.	5718	मैसर्स पाली-पोसाईड सिस्टमस एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	138.	5965	मैसर्स हेक्सापेस्ट कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
108.	5761	मैसर्स कर्नाटक ऑटो कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	139.	6000	मैसर्स मन्जू मिनरल्स वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
109.	5867	मैसर्स महालक्ष्मी मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	140.	6004	मैसर्स बन्धारी फूटवेयर प्राईवेट लिमिटेड
110.	5870	मैसर्स मंध्या मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	141.	5995	मैसर्स श्री धूवनेश्वरी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	5863	मैसर्स वेलगाम कम्प्यूटर्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	142.	5992	मैसर्स राजन पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	5864	मैसर्स ट्रेवल करे (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	143.	5937	मैसर्स पैनोरमा एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
113.	5862	मैसर्स एसोसिएटेड वेलडमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	144.	5945	मैसर्स रायचूर इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	5854	मैसर्स गोविन्दप्पा बूलन इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड	145.	5949	मैसर्स वेन्वर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
115.	5796	मैसर्स रामकृष्णा दाल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	146.	5968	मैसर्स सरकूलर सैक्स (कर्नाटक) प्राईवेट लिमिटेड
			147.	6013	मैसर्स पारस ऑटो एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
148.	6044	मैसर्स वनू स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
149.	5059	मैसर्स केम-ओ-फ्लेयूर प्राईवेट लिमिटेड
150.	6056	मैसर्स मैक्स पावर एक्ज्यूमुलेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
151.	6075	मैसर्स नी-वोन फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
152.	6088	मैसर्स नर्मदा मार्केटिंग एण्ड एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
153.	6087	मैसर्स विदार प्रेशर वेसल्स प्राईवेट लिमिटेड
154.	6057	मैसर्स मार्वल इन्डस्ट्री (मंगलौर) प्राईवेट लिमिटेड
155.	6085	मैसर्स जोर्ड टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
156.	6080	मैसर्स कार्टिक एपेरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	6078	मैसर्स एशिया ग्राफिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
158.	6121	मैसर्स विन्डसोर कंस्ट्रक्शन्स एण्ड टेक्नीकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
159.	6138	मैसर्स इसमेस इंडस्ट्रीयल प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	6107	मैसर्स के सी पी एफ फेरो कंक्रीट प्राईवेट लिमिटेड
161.	6111	मैसर्स अदलान्द्रस ऑयल एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
162.	6097	मैसर्स वेनाका पेपर्स बोर्ड्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
163.	6098	मैसर्स किंगस्टन पर्ल पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
164.	6154	मैसर्स वेस्टर्न रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड
165.	6155	मैसर्स इन्टरनेशनल शोक एक्जोवर्स लिमिटेड
166.	6142	मैसर्स विनय इन्टरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड
167.	6029	मैसर्स ग्रीन लीक्स आरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
168.	6082	मैसर्स मैन-जोग लीजिंग एण्ड हायर परचेज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
169.	6161	मैसर्स डायना फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
170.	6164	मैसर्स लिब्रा लिंक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
171.	6173	मैसर्स अजित सिलिन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
172.	6185	मैसर्स अरसलन मास कैन मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
173.	6212	मैसर्स जी के ऑयल मिल्स एण्ड रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड
174.	6211	मैसर्स कम्मार केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
175.	6192	मैसर्स चारगनी लिमिटेड
176.	6215	मैसर्स वम्बर डेयरी फार्म प्राईवेट लिमिटेड
177.	6219	मैसर्स एग-फो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
178.	6220	मैसर्स श्री कृष्णा टेक्नोक्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
179.	5871	मैसर्स पिजय एक्सपोर्ट्स एण्ड रियलेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
180.	6239	मैसर्स यूनित प्लाईवूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
181.	6268	मैसर्स डाइट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
182.	6229	मैसर्स बंगलोर कंसल्टिंग ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड
183.	6244	मैसर्स सायटोजायम सेल्स (कर्नाटक) प्राईवेट लिमिटेड
184.	6246	मैसर्स गायत्रा रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड
185.	6249	मैसर्स शरावती मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड
186.	6251	मैसर्स मारुती सी प्राईवेट लिमिटेड
187.	6274	मैसर्स होयशाला थर्मो फोर्म्स प्राईवेट लिमिटेड
188.	6287	मैसर्स एजेंट्स केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
189.	6283	मैसर्स स्नोवाइट डिटरजेंट प्राईवेट लिमिटेड
190.	6393	मैसर्स क्रियोनिक्स शांति माईक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
191.	6389	मैसर्स मोर्या इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
192.	6391	मैसर्स पेंटागन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
193.	6325	मैसर्स ज्यूपिटर रिसोर्स इंटरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
194.	6300	मैसर्स एन टी ए प्राईवेट लिमिटेड
195.	6266	मैसर्स ब्रायलर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
196.	6298	मैसर्स एम जे एस ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
197.	6294	मैसर्स विश्वन जनेया लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
198.	9154	मैसर्स इम्पावर कंट्रोल सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
199.	6361	मैसर्स अलोक फिशरीज एण्ड रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
200.	6346	मैसर्स मारुती इन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
201.	6437	मैसर्स एस एमो फोर्म्स प्राईवेट लिमिटेड
202.	6417	मैसर्स अलोक माईनिंग एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
203.	6425	मैसर्स सुपर फेब्री टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
204.	6426	मैसर्स सुरेश कलर लैक्स प्राईवेट लिमिटेड
205.	6423	मैसर्स त्रिविक्रानंद मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
206.	6427	मैसर्स वंगलार हेल्थकेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
207.	6445	मैसर्स गेज केल टेक्स्टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
208.	6428	मैसर्स वेल्थ गेम्डीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
209.	6468	मैसर्स बंगलोर टफग्लास प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
210.	6509	मैसर्स मैसूर रोक मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
211.	6479	मैसर्स सी. आर. इंजीनियरिंग एण्ड कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
212.	6494	मैसर्स होयशाला प्रिया दर्शिनी इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
213.	6498	मैसर्स बोर-बोरा सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
214.	6525	मैसर्स बीजेएस सीलनेक्स प्राईवेट लिमिटेड
215.	6523	मैसर्स पूर्वाजा मकैयईल प्राईवेट लिमिटेड
216.	6519	मैसर्स मॉडर्न ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
217.	6442	मैसर्स त्रिप्ती मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
218.	6510	मैसर्स पम्पासर केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	6478	मैसर्स गोल्डन कास्मेटिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
220.	6464	मैसर्स यूरो प्लास्टिक्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
221.	6461	मैसर्स मेट्रो बंगलोर ब्रिक्स वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
222.	6414	मैसर्स श्री ग्यानाक्षी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
223.	6552	मैसर्स एशिया प्रिफेक्स प्राईवेट लिमिटेड
224.	6546	मैसर्स मल्लूर टेक्नो मैनेजेरियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
225.	6544	मैसर्स गुलबर्ग फूल्लर्स इसर्थ प्राईवेट लिमिटेड
226.	6554	मैसर्स आरमौर प्राईवेट लिमिटेड
227.	6557	मैसर्स एग्रो कोल्डस्टोरेज एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
228.	6573	मैसर्स रोड कैरियर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
229.	6571	मैसर्स ग्रेट वर्थ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
230.	6567	मैसर्स स्कार्ग स्टील प्राईवेट लिमिटेड
231.	6605	मैसर्स सुपर गैलेक्सी ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
232.	6603	मैसर्स रोटिस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
233.	6620	मैसर्स इरिन प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
234.	6563	मैसर्स झानी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
235.	6607	मैसर्स लिब-केम प्राईवेट लिमिटेड
236.	6606	मैसर्स पी सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
237.	6619	मैसर्स मोमेचन पोलीफेब प्राईवेट लिमिटेड
238.	6614	मैसर्स मॉडर्न टेक्नीकल्स शूज प्राईवेट लिमिटेड
239.	6581	मैसर्स कंसोलीडेटेड ट्रांसमिशंस प्राईवेट लिमिटेड
240.	6601	मैसर्स जी. पी. होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
241.	6721	मैसर्स आरजे एल्यूमिनियम प्राईवेट लिमिटेड
242.	6650	मैसर्स जयश्री ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
243.	6626	मैसर्स रूबी सीमेंट्स इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
244.	6638	मैसर्स सोनी वायसाईकिल प्राईवेट लिमिटेड
245.	6645	मैसर्स अल-अमीन टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
246.	6649	मैसर्स एच सुवान्ना एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
247.	6676	मैसर्स त्रिचूर फर्नीचर इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
248.	6655	मैसर्स वल्टैपैक एयर कोरियर सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
249.	6714	मैसर्स इलिजैट बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
250.	6713	मैसर्स प्राइम पोली प्लास्ट इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
251.	6733	मैसर्स आकाश एयर ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
252.	6727	मैसर्स अल्फा ओमेगा टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
253.	6709	मैसर्स इल्लार इमिको (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
254.	6707	मैसर्स त्राउवुड इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
255.	6702	मैसर्स इनटेल कम्प्यूट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
256.	6693	मैसर्स आरो कैप प्राईवेट लिमिटेड
257.	6691	मैसर्स वैक्स इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
258.	6868	मैसर्स एस. एस. कम्पवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
259.	6752	मैसर्स वेलटेक्स इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
260.	6764	मैसर्स इम्पू रिकार्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
261.	6755	मैसर्स लिथिक स्टोन एण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
262.	6750	मैसर्स पी. एल. इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
263.	6744	मैसर्स हेमावशी पैकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
264.	6786	मैसर्स निरलो नर्नाटक सिंथेटिक फाईवर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
265.	6738	मैसर्स माइक्रो इमेजिंग टेक्नोलोजिस लिमिटेड
266.	6806	मैसर्स मैसूर कैप्स एण्ड कैस प्राईवेट लिमिटेड
267.	6849	मैसर्स बैकर एण्ड बैकर्स प्राईवेट लिमिटेड
268.	6851	मैसर्स आमला ताशा फार्मास्यूटिकल्स एण्ड फाइन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
269.	6834	मैसर्स काश स्टील प्राईवेट लिमिटेड
270.	6815	मैसर्स फैबनिट्स प्राईवेट लिमिटेड
271.	6820	मैसर्स मारुती ग्लास इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
272.	5234	मैसर्स सैफसिल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. व्ही. सजीवन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 13th September 2007

No. DP/Pers.I/2007/2310/A-20023/7/82—Shri Tejpal Singh relinquished charge of the post of Dy. Legal Adviser, CBI with effect from 31.08.2007 (A. N.) on attaining the age of superannuation.

SURINDER MOHAN  
Admin. Officer (Pers.)

The 24th September 2007

No. DP/Pers.I/2007/169/3/11/87—Shri A. S. Kulaye relinquished charge of the post by Dy. Legal Adviser, CBI with effect from 30.06.2007 (A. N.) on attaining the age of superannuation.

SURINDER MOHAN  
Admin. Officer (Pers.)

The 25th September 2007

No. DP/Pers.I/2007/170/3/35/2007—Smt. Sushma Sharma, Senior Hindi Translator, Department of Official Languages has joined as Hindi Officer in Central Bureau of Investigation w.e.f. the forenoon of 21.08.2007 on her promotion to the rank of Assistant Director (Official Languages), on ad hoc basis in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/-, in pursuance of Ministry of Home Affairs (Department of Official Language)'s order No. 5/3/2005-OL (Services) dated 24th July, 2007.

SURINDER MOHAN  
Admin. Officer (Pers.)

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 24th September 2007.

No. 2/21/07-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Surjit Singh, Under Secretary in the Commission as Officer on Special Duty, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, on ad hoc basis with effect from the forenoon of 18.09.2007 for a period of three months or till further order, whichever is earlier.

P. M. PILLAI  
Officer on Special Duty (Admn)  
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 18th September 2007

No. P. III-2/2007-Pers-3—Consequent on their promotion to the post of Administrative/Section Officer, the following

Subedar Major/Office Superintendent have taken over charge as Administrative/Section Officer in the Offices and dates as mentioned against each :

Sl. No.	Name of Officer	Office in which Posted	Date of taking over charge
01.	Shri K. Ponnusamy, Adm. Officer (IRLA-7258)	O/o The Addl. DIGP, Group Centre, CRPF, Avadi, Chennai	02.09.2007 (FN)
02.	Shri Harsh Kumar, Adm. Officer (IRLA-7265)	O/o the Addl. DIGP, Group Centre, CRPF, Rampur (UP)	27.06.2007 (FN)
03.	Shri Mangla Ram, Adm. Officer (IRLA-7268)	O/o The IGP, RAJ/CRPF, New Delhi	09.07.2007 (FN)
04.	Shri S. K. Garg, Adm. Officer (IRLA-7270)	O/o The DIGP, CRPF, Agartala	09.07.2007 (FN)
05.	Shri Kanwar Singh, Adm. Officer (IRLA-7260)	O/o The IGP, NWS, CRPF, Chandigarh	16.07.2007 (FN)
06.	Shri K. T. Gopala-krishnan, Adm. Officer (IRLA-7275)	Ops Branch of Dte. General, CRPF, New Delhi	18.07.2007 (FN)
07.	Shri P. Raghavan, Adm. Officer (IRLA-7264)	O/o The IGP, Central Sector, CRPF, Lucknow	19.07.2007 (FN)
08.	Shri C. B. Ravveer-dran, Adm. Officer (IRLA-7252)	O/o The Addl. DIGP, Group Centre, CRPF, Gurgaon	18.08.2007 (FN)
09.	Shri Abul Hussain, Adm. Officer (IRLA-7272)	O/o The IGP, Adm. Srinagar Sector, CRPF (J&K)	27.08.2007 (FN)

K. K. SIVA PRASAD  
Addl. DIG (Pers III)

The 24th September 2007

No. P. III-2/2007-Pers-3—Consequent on his promotion to the post of Administrative/Section Officer, Shri C. K. Sukumaran (IRLA-7263) of office of Addl. DIGP, Group Centre, CRPF, Hyderabad have taken over charge as Administrative/Section Officer at Group Centre CRPF, Hyderabad on 31.05.2007 (FN) on his allotment to Bihar Sector. He has further been posted to Group Centre, CRPF, Mokamghat.

K. K. SIVA PRASAD  
Addl. DIGP (Pers-III)

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110 003, the 13th September 2007

No. E-28017/6/Not-2007-Pers-II/2246—Consequent upon his voluntarily retirement from Govt. service under Rule-45A,



of CCS (Pension) Rules, 1972, Shri C. S. Walia, relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, NLC, Neyveli in the afternoon of 15.08.2007.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

The 18th September 2007

No. E-28017/6/Noti/2007/Pers-II/2281—Shri V. K. Sharma, Assistant Commandant, CISF 8th Res Bn Kishtwar expired on 03.07.2007. His name stands struck off from the strength of CISF with effect from the forenoon of 04.07.2007.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

No. E-28017/6/Noti/2007/Pers-II/2282—Shri P. L. Thakur, Dy. Commandant, CISF Unit, FBP Farakka expired on 03.04.2007 due to Cardio respiratory failure. His name stands struck off from the strength of CISF with effect from the forenoon of 04.04.2007.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 20th August 2007

No. Admn. I/1255-IV/2007-08/702.—Under kind orders of the Principal Accountant General (A&E), West Bengal dated 31.07.2007, the following Section Officers are promoted as Assistant Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 01.08.2007 (FN) or the date(s) of taking over charge as Assistant Accounts Officer, whichever is later :—

1. Shri Ajit Kr. Sau.
2. Shri Sawapan Kr. Roy-II

On promotion, their pay will be fixed under FR-22 I(a)(i) for which they may exercise option within one month from the date(s) of their promotion.

J. R. BISWAS  
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500 004, the 21st September 2007

No. AG(A&E)/Admn.-I/8-88/2007-08/92—Accountant General (A&E), A. P., Hyderabad is pleased to promote the

undermentioned Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the date shown against her name.

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge as A.O.
1.	Smt. M. Jyothi	07.09.2007 (FN)

The promotion ordered is without prejudice to the claims of her seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhya Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

E. SREENIVASAN  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF MINES  
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 12th September 2007

No. A-19012/460/2007-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri S. W. Dhoke, Senior Technical Assistant (M. E.) is promoted to the post of Asstt. Mining Engineer in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 27.08.2007 (F.N.).

S. DASGUPTA  
Sr. Admn. Officer  
for Controller General

Nagpur, the 14th September 2007

No. 19011/178/2006 Estt.—APP "Shri Alok Basu, Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the afternoon of 31.8.2007 on attaining the age of superannuation.

A. N. NANDANWAR  
Asstt. Admin. Officer

MINISTRY OF CULTURE,  
ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 20th September 2007

No. 4-339/2007/Estt.—The Director-in-Charge, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Dr. Murali Kotal, Research Associate (Physical) attached to the North East Regional Centre of this Survey at Shillong to the post of Assistant Anthropologist (Physical), Group-B (Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- at the same station with effect from the forenoon of 28th August, 2007 until further orders.

S. I. AHMAD  
Head of Office

**SURVEY OF INDIA  
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE**

Dehradun-248001, the 17th September 2007

No. C-266/698-MAP Curator.—Shri B. R. Chakraborty, Assistant is hereby appointed to the post of Map Curator, General Central Service (Group 'B' Gazetted) on deputation basis in West Bengal & Sikkim GDC, Survey of India, Kolkata in the pay scale of Rs. 5,500-175-9,000/- with effect from 06.08.2007 (FN) for a period of three years or a lesser period, if necessary.

M. GOPAL RAO  
Major General  
Surveyor General of India

**BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE**

Mumbai-85, the 10th September 2007

No. PD/7(7)/2007-R-IV/SO(D)/7862.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of 1st February, 2007 except Smt. Indira S. Nair, Sl. No. 7 and Shri Jaipal Singh, Sl. No. 13, whose dates of appointment are with effect from the forenoon of February 5, 2007 and February 26, 2007 respectively, in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade
1	2	3
1.	Shri Amit Kulshrestha	SO/C
2.	Shri Sanjay Kumar Shrotriya	SO/C
3.	Shri Sanjay Vishwasrao Ingale	SO/C
4.	Shri Jayaprakash Devadas	SO/C
5.	Shri Pradeep Chandra	SO/C
6.	Shri Sulendra Bhushan Kulshrestha	SO/C
7.	Smt. Indira S. Nair	SO/C
8.	Shri Hari Ganapat Pawar	SO/C
9.	Shri Navnath Eknath Mawal	SO/C
10.	Shri Sushen Joydhar	SO/C
11.	Shri Bhaskar Sanyal	SO/C
12.	Shri Ajay Kumar	SO/C
13.	Shri Jaipal Singh	SA/E
14.	Shri Vedesh Krishnacharya Varakhedkar	SO/C

1	2	3
15.	Shri Narendra Khandelwal	SO/C
16.	Shri Vijay Singh	SO/C
17.	Smt. Smithri Manilal	SO/C
18.	Shri Pulipaka Venkata Srinivas	SO/C
19.	Shri J. K. Dhondkar	SO/C
20.	Shri L. Ramachandran	SO/C
21.	Dr. (Smt.) Volga Sandeep More	SO/C
22.	Dr. Kaushik Chatterjee	SO/C
23.	Shri Pramod Kumar Gautam	SO/C
24.	Shri Pratap Singh	SO/C
25.	Shri Solapurkar Mahipat Narayan	SO/C
26.	Shri Kanhaiya Singh	SO/C
27.	Shri Narasimhan Alagarsamy	SO/C
28.	Shri Kalappurayil Kesavan Sanu	SO/C
29.	Shri Vilas Govind Shelar	SO/C
30.	Shri Dani Ponnuraj Rajiah	SO/C
31.	Shri Anil Anant Shanbhag	SO/C
32.	Shri Rajendra Krishnarao Shivade	SO/C
33.	Shri Ravinder Rajaram Bhingare	SO/C
34.	Shri Shashank Suresh Saindane	SO/C
35.	Shri Shreenivas Vaikuntam	SO/C

(Dr.) G. D. PUNGLI  
Controller

Mumbai-85, the 17th September 2007

No. PD/7(6)/2007-R-IV/SO(C)/8055.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of 1st February, 2007 except Shri Harimohan Easwar Iyer, Sl. No. 1, whose dates of appointment is with effect from the forenoon of February 5, 2007 in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade
1	2	3
1.	Shri Harimohan Easwar Iyer	SO/SB
2.	Smt. Seema Sanjay Raul	SO/SB

1	2	3
3.	Shri Dileep Kumar Nehru	SO/SB
4.	Shri Dharendra Kumar Verma	SA/D
5.	Shri Chambyal Sher Singh	SA/D
6.	Shri Soubhagya Kumar Nayak	SO/SB
7.	Shri Amod Kumar Mishra	SO/SB
8.	Shri Pandara Purayil Aneesh	SA/D
9.	Shri Aravind Ajithkumar	SA/D
10.	Smt. Sofia Chand Patel	SA/D
11.	Shri Iranaguda Ninganaagouda Nargund	SO/SB
12.	Shri Kailash Haibatirao Gharat	SO/SB
13.	Shri R. Jeeva	SO/SB

S. G. MARKANDEYA  
Controller

No. PD/7(6)/2007-R-IV : 8055.—The President is pleased to appoint Shri Dinesh Thattathuvalappil Vasudevan, a Station Officer 'A' of the Bhabha Atomic Research Centre as Station Officer 'B' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/—, in the same Research Centre with effect from the forenoon of February 1, 2007, in an officiating capacity until further orders.

S. G. MARKANDEYA  
Controller

The 18th September 2007

No. PD/2(7)/2006/R-IV/8106.—President is pleased to appoint Dr. Nandan Manohar Kamat as a Scientific Officer 'D' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-+ N P A in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from forenoon of 6th August 2007 until further orders.

S. G. MARKANDEYA  
Controller

Mumbai-85, the 17th September 2007

No. PD/6(2)/2007-R-III/2007/8067.—Controller, BARC appoint Smt. Meenakshi Subramanian, Assistant, BARC, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- at BARC, Mumbai w.e.f. the forenoon of 3rd September 2007 on regular basis until further orders

D. DASARATHAN  
Dy. Establishment Officer

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 17th August 2007

No. 20/3(7)/2006-CCS/29.—On attaining the age of superannuation, Shri P. Venugopalan, Controller (Scale of pay of Rs. 18,400—22,400/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department, retired from Government service on 30.06.2007 (AN).

SOBHA DEVIN.  
Under Secy.

No. 26/2(1)/2005-CCS/30.—On attaining the age of superannuation, Shri S. Ganguly, Dy. Chief Security Officer (Scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department, retired from Government service on 31.07.2007 (AN).

SOBHA DEVIN.  
Under Secy.

No. 20/3(4)/2005-CCS/31.—On attaining the age of superannuation, Shri M. Unnikrishnan, Administrative Officer-III (Scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department, retired from Government service on 31.05.2007 (AN).

SOBHA DEVIN.  
Under Secy.

No. 26/2(1)/2005-CCS/32.—The President is pleased to appoint Shri D. Bandyopadhyay, Security Officer (Scale of pay of Rs. 6,500—10,500/-), Variable Energy Cyclotron Centre, Kolkata of this Department as Dy. Chief Security Officer (Scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-) in the same Centre with effect from the forenoon of 01.08.2007 until further orders.

SOBHA DEVIN.  
Under Secy.

No. 20/3(7)/2006-CCS/33.—The President is pleased to assign the responsibilities of the post of Controller, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai including powers to exercise the statutory functions to Dr. G. D. Pungle, IDAS (85), Internal Financial Advisor, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai as a temporary measure in addition to his own duties with effect from 02.07.2007 (FN) and until further orders vice Shri P. Venugopalan retired on superannuation.

SOBHA DEVIN.  
Under Secy.

The 21st August 2007

No. 20/13(1)/2007-CCS/34—The President is pleased to appoint Shri K. Gopalakrishnan, Assistant Personnel Officer (Scale of pay of Rs. 6,500—10,500/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Deputy Establishment Officer (Scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-) in the same Centre on ad hoc basis with effect from 11.06.2007 (FN) to 01.08.2007 (AN).

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

The 6th September 2007

No. 21/3(2)/2007-CCS/35—The President is pleased to appoint Shri S. Sambath, Senior Accounts Officer (Scale of pay of Rs. 8,000—13,500/-), Variable Energy Cyclotron Centre, Kolkata of this Department as Deputy Contoller of Accounts (Scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-) in the same Centre with effect from the forenoon of 17.08.2007 until further orders.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

No. 22/3(1)/2007-CCS/36—The President is pleased to appoint Smt. Shobhana Praful Hadalgi, Assistant Purchase Officer (Scale of pay of Rs. 6,500—10,500/-), Central Purchase Unit, Directorate of Purchase & Stores, Mumbai of this Department as Purchase Officer (Scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-) in the same Unit with effect from the forenoon of 10.08.2007 until further orders.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

No. 22/3(1)/2007-CCS/37—The President is pleased to appoint Shri Devdas G. Pardasani, Assistant Purchase Officer (Scale of pay of Rs. 6,500—10,500/-), Central Purchase Unit, Directorate of Purchase & Stores, Mumbai of this Department as Purchase Officer (Scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-) in the same Unit with effect from the forenoon of 10.08.2007 until further orders.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

Mumbai, the 10th September 2007

No. 6 (2429)/2006-Adm. 5714—The President is pleased to appoint Dr. B. Purniah, Scientific Officer (G) (Scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/-), Department of Atomic Energy, Mumbai as Scientific Officer (H) in the Scale of pay of

Rs. 18,400-500-22,400/- in the same Department with effect from the forenoon of August 10, 2007.

P. P. MADHAVAN KUNDA  
Under Secy.

#### ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai-400 094, the 7th September 2007

No. AERB/Adm G 214 629—Chairman, Atomic Energy Regulatory Board appoints Shri Ashok . Gerira, Assistant, Department of Atomic Energy to officiate as Assistant Personnel Officer (Scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-) in the Atomic Energy Regulatory Board on regular basis, with effect from the afternoon of 31st August 2007 until further orders.

V. M. THOMAS  
Admn. Officer III

#### VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700 064, the 13th September 2007

No. VECC/Prom (Aug) 2007/3366—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer/H in the Scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from August 10, 2007 (FN) until further orders:—

Sl. No.	Name	Present Post	Scale of pay
1.	Dr. A. K. Chaudhuri	Scientific Officer (G)	Rs. 16,400-450-20,000/-

S. B. BOSE  
Admn. Officer III

No. VECC/Prom (Aug) 2007/3367—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer/H in the Scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from August 10, 2007 (FN) until further orders:

Sl. No.	Name	Present Post	Scale of pay
1.	Dr. Udayan De	Scientific Officer (G)	Rs. 16,400-450-20,000/-

S. B. BOSE  
Admn. Officer III

No. VECC/Prom (Aug)/2007/3368—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Outstanding Scientist in the Scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from August 10, 2007 (FN) until further orders:—

Sl. No.	Name	Present Post	Scale of pay
1.	Dr. Y. P. Viyogi	Scientific Officer (H)	Rs. 18,400-500-22,400/-

S. B. BOSE  
Admn. Officer-III

No. VECC/Prom (Aug)/2007/3369—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer/H in the Scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from August 10, 2007 (FN) until further orders:—

Sl. No.	Name	Present Post	Scale of pay
1.	Shri S. K. Mitra	Scientific Officer (G)	Rs. 16,400-450-20,000/-

S. B. BOSE  
Admn. Officer-III

#### RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 12th September 2007

No. RRCAT/Adm/R-902/886—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers in a substantive capacity to the grade and with effect from the date indicated against each in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore :—

Sl. No.	Name	Design	w.e.f.
1	2	3	4
1.	Dr. (Smt.) Aparna Chakrabarti	SOE	01.04.2001
2.	Shri Ashish Kumar Tiwari	SOD	01.04.2003
3.	Shri Sobhan Choudhary	SOD	01.04.2003
4.	Dr. Haranath Ghosh	SO/E	01.10.2003

1	2	3	4
5.	Shri Praveen Mohania	SOC	01.10.2004
6.	Shri Akash Deep	SOC	01.10.2004
7.	Shri Ritesh Malik	SOC	01.10.2004
8.	Dr. Kaustuv Das	SO/E	01.04.2005
9.	Shri Shwet Ketu Mishra	SO/C	01.10.2005
10.	Shri Nitin Lulani	SO/C	01.10.2005
11.	Shri Sanyasi Rao Bobbili	SO/C	01.10.2005
12.	Shri Ravi Shankar Verma	SO/C	01.10.2005
13.	Shri C. Kamal	SO/C	01.10.2005
14.	Shri Surendra Yadav	SO/C	01.10.2005
15.	Shri Abdurrahim	SO/C	01.10.2005
16.	Shri Himanshu Srivastava	SO/C	01.10.2005
17.	Shri Saroj Kumar Jena	SO/C	01.10.2005
18.	Kum. Amita Chaturvedi	SO/C	01.10.2005
19.	Shri Siddhesh Arun Pai	SO/C	01.10.2005
20.	Shri Anuj Upadhyay	SO/C	01.10.2005
21.	Shri Aniruddha Bose	SO/C	01.10.2005
22.	Shri Praveen Kumar Yadav	SO/C	01.10.2005
23.	Dr. Chandra Pal Singh	SO/D	01.04.2006
24.	Smt. Itisri Kalpana Nayak	SO/C	01.10.2006
25.	Shri Tirumala Prasad Tenka	SO/C	01.10.2006
26.	Shri Rajesh Kumar Patidar	SO/C	01.10.2006

T. N. NAIR  
Chief Administrative Officer

#### NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 31st August 2007

No. NFC/Adm/Pen/EC-1358/1464—On attaining the age of superannuation, Shri P. K. Marthanda Pillai, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-0845/1465—On attaining the age of superannuation, Shri P. J. Vijayan, Scientific Officer 'E'

(Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-2229/1466—On attaining the age of superannuation, Shri A. Venkata Rama Rao, Scientific Officer 'G' (Scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.06.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-0328/1467—On attaining the age of superannuation, Shri Prakash, Scientific Officer 'D' (Scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.08.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-2280/1468—On attaining the age of superannuation, Shri K. Laxman Rao, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.07.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-1319/1469—On attaining the age of superannuation, Shri C. H. Singaiah, Asstt. Personnel Officer (Scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.07.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-2857/1470—On attaining the age of superannuation, Shri C. Nageswara Rao, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-0140/1471—On attaining the age of superannuation, Shri M. S. Haranadha Sarma, Sr. Private Secretary (Scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.07.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-2826/1472—On attaining the age of superannuation, Shri K. K. Ramanujacharyulu, Scientific Officer 'F' (Scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-3333/1473—On attaining the age of superannuation, Shri N. Ravindranath, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.06.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-0817/1474—On attaining the age of superannuation, Shri S. Chaudhary, Scientific Officer 'B' (Scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.07.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-1897/1475—On attaining the age of superannuation, Shri N. Bharath Raj, Scientific Officer 'D' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.06.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-2920/1476—On attaining the age of superannuation, Shri K. Gurumurthy, Scientific Officer 'F' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.06.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-0231/1477—On attaining the age of superannuation, Shri P. V. Ramana Murthy, Scientific Officer 'F' (Scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-0815/1478—On attaining the age of superannuation, Shri P. S. Prakash, Scientific Officer 'H' (Scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.04.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-2710/1479—On attaining the age of superannuation, Shri P. Basaveswara Rao, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.07.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-0623/1480—On attaining the age of superannuation, Shri M. H. Bikshapathi, Scientific Officer 'C' (Scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has

relinquished the charge of the post with effect from 30.06.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-1268/1481—On attaining the age of superannuation, Shri V. K. Gopalakrishnan, Scientific Officer 'D' (Scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/Adm/Pen/EC-0792/1482—On attaining the age of superannuation, Shri P. N. Sadasivan Pillai, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.04.2007 (AN).

K. S. MURTY  
Asstt. Personnel Officer

Hyderabad-500 062, the 8th September 2007

No. NFC/PAR-I/03/58/1076—Chief Executive, NFC appoints Shri V. S. Ramakrishna Rao, Stenographer Gr. I as Private Secretary (NS) on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 22.8.2007 to 21.11.2007 or until further orders, whichever is earlier.

A. S. LAXMAN RAO  
Admin. Officer

#### ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 6 September 2007

No. AMD-4/3/2007-Rectt./842—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad to the grade of Scientific Officer-H carrying the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in the same Directorate in an officiating capacity with effect from the dates shown against each, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Promotion to Grade	Substantive post held	Date of Assumption Charge
1.	Achuta Pandit (Dr.) S.	SO-G	SO-H	Group-A (Sci.)	10.08.2007
2.	Uinamaheswar K	SO-G	SO-H	Group-A (Sci.)	10.08.2007

Dr. ANJAN CHAKI  
Director

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
the M/s. Kotdwar Refractories Private Limited

Kanpur-208 001, the 24th September 2007

No. LC/560(3)/20-021114/1253—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kotdwar Refractories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
the following Companies :

Patna-800 001, the 17th September 2007

No. ROC/PAT/560(5)/5123.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved.

Sl. No.	Regd. Number	Name of the Company
1	2	3
1.	4068	M/s. Hotel Anis Private Limited
2.	4076	M/s. Chamunda Construction Private Limited
3.	4079	M/s. Radhey Savitri Contractors Private Limited
4.	4045	M/s. Yosiba Constructions Private Limited
5.	4059	M/s. Saloo Construction Private Limited
6.	4056	M/s. Trigunait Construction Private Limited
7.	3927	M/s. Shekhar Foundry Work Private Limited
8.	3926	M/s. Raan Construction (India) Private Limited
9.	4050	M/s. India Cookers Private Limited
10.	4051	M/s. Avinash Engineers Private Limited
11.	3931	M/s. The Khandelwal Textiles Mills Private Limited
12.	3945	M/s. Niwas Builders Private Limited

1	2	3
13.	3943	M/s. M. K. Products & Printers Private Limited
14.	3940	M/s. Ajeayvani Publications Limited
15.	3938	M/s. Pathak Cold Storage Private Limited
16.	3937	M/s. Kanwar Builders Private Limited
17.	3935	M/s. Hazaribagh Construction Private Limited
18.	3932	M/s. Japla Construction Private Limited
19.	3921	M/s. Daud Nagar Construction Private Limited
20.	3928	M/s. Chapardah Constructions Private Limited
21.	4134	M/s. Chaharia Chem & Disvilleries Private Limited
22.	4136	M/s. Awas Foundation & Consultants Private Limited
23.	4140	M/s. Sashakt Engicons Private Limited
24.	4141	M/s. Captain Transport Co. Private Limited
25.	4146	M/s. Ajay Projects Private Limited
26.	4148	M/s. Pushpanjali Developers Private Limited
27.	4147	M/s. Shree Radha Krishna Engicons Private Limited
28.	4149	M/s. Minakshi Nursing Home Private Limited
29.	4151	M/s. Indu Nagar Builders (India) Private Limited
30.	4159	M/s. S. S. Tubes Private Limited
31.	3674	M/s. Krishna Engitech Private Limited
32.	3702	M/s. SM Rubber Products Private Limited
33.	3703	M/s. Bharat Singh Construction Private Limited
34.	3705	M/s. Fantast-O-Print Private Limited
35.	3708	M/s. Lalmani Pigments Private Limited
36.	3713	M/s. Ambuja Impex Private Limited
37.	3717	M/s. Anand Vihar Enterprises (India) Private Limited
38.	3721	M/s. Guncha Engicons Private Limited
39.	3669	M/s. Paramount Glass Industries Private Limited



1	2	3	1	2	3
40.	3665	M/s. Abhinaba Apartment Private Limited	69.	2466	M/s. Orbit Food Private Limited
41.	3720	M/s. Sone Nagar Food & Chemicals Private Limited	70.	2255	M/s. Kamla Lamp Private Limited
42.	3675	M/s. Zodioc Construction Private Limited	71.	2251	M/s. Amit Cosmetics & Chemicals Private Limited
43.	3718	M/s. Indraprastha Construction (India) Private Limited	72.	8193	M/s. Muneshwar Yogeshwar Adarsh Cold Storage Private Limited
44.	3661	M/s. Dark Engineering & Consultant (India) Private Limited	73.	8189	M/s. Texas Information Technology Limited
45.	3673	M/s. Modern Hatcheries Private Limited	74.	8155	M/s. Kabhas Agro Auto Marketing Private Limited
46.	3670	M/s. Laxmi Special Smokeless Fuel Private Limited	75.	8196	M/s. Anandi Iron & Steel Private Limited
47.	3662	M/s. D. K. Meteres & Equipments (India) Private Limited	76.	8194	M/s. Progressive Management Consultancy Services Private Limited
48.	6938	M/s. Quark Softwares Private Limited	77.	3876	M/s. Tufail Ahmad Khan Construction Private Limited
49.	865	M/s. Bihar Aromatic Private Limited	78.	3600	M/s. Chhotanagpur Ayurved Bhawan Private Limited
50.	937	M/s. Tirhut Fruits & Agro Industries Private Limited	79.	3650	M/s. Mega Builders Private Limited
51.	817	M/s. Sinco Terylon Mills Private Limited	80.	3649	M/s. Suveedha Marketing & Services Private Limited
52.	948	M/s. Beear Minerals Private Limited	81.	3648	M/s. Jay Kay Nursing Home Private Limited
53.	972	M/s. Metachem Engineers Private Limited	82.	3645	M/s. Ahadmun Exim Private Limited
54.	1803	M/s. J. D. Construction Private Limited	83.	3644	M/s. Chandan Kundan Constructions & Suppliers Private Limited
55.	1874	M/s. Solanky Construction Private Limited	84.	3642	M/s. Talent Constructions Private Limited
56.	1806	M/s. Hotel Rupsi Private Limited	85.	3640	M/s. Birsa Coal Carriers Private Limited
57.	1865	M/s. B. I. Consultants Private Limited	86.	3638	M/s. Bishakha Civ-Mech Private Limited
58.	203	M/s. The Biyahut Company Private Limited	87.	3637	M/s. Juguar Constuction Private Limited
59.	2851	M/s. Ranchi Monofilament Industries Private Limited	88.	3512	M/s. Bimla Flour Mills Private Limited
60.	370	M/s. Bihar Agricultural Social Unit Private Limited	89.	3511	M/s. Nayana Chemicals & Engineers Private Limited
61.	668	M/s. Behar Construction Private Limited	90.	3633	M/s. J. G. Constructions (India) Private Limited
62.	361	M/s. Magadh Cold Storage Private Limited	91.	3514	M/s. Mediquet Laboratories Private Limited
63.	672	M/s. Pioneer Transportation & Construction Private Limited	92.	3524	M/s. Shabdeo Engicon Private Limited
64.	2570	M/s. Laxmi Etta Private Limited	93.	3526	M/s. Kamdhenu Developers Private Limited
65.	2272	M/s. Sant Kabir Cold Storage Private Limited	94.	3528	M/s. Sanjeev Construction (Ranchi) Private Limited
66.	1912	M/s. Kanisk Builders Private Limited	95.	3529	M/s. Janki Builders Private Limited
67.	1951	M/s. Pradhan Construction & Carriers Private Limited			
68.	2345	M/s. Mauryen Plywood Industries Private Limited			

1	2	3
96. 3531	M/s. Bindhwasni Carbons Private Limited	
97. 3534	M/s. Shiv Gadgets & Appliances Private Limited	
98. 3539	M/s. P. H. Consultants Architects and Engineers Private Limited	
99. 3541	M/s. Ashoka Calcivied Coke Private Limited	
100. 3548	M/s. Vivek Vishal Organic Chemicals Private Limited	

K. PRASAD  
Registrar of Companies  
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Patna-800 001, the 17th September 2007

No. ROC/PAT/560/5163.--Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved.

Sl. No.	Regn. Number	Name of the Company
1	2	3
1.	3550	M/s. Kay Vee Packers Private Limited
2.	3551	M/s. Ideal Biscuit Company Private Limited
3.	3577	M/s. Bombhole Khandsari Sugar Mills Private Limited
4.	3575	M/s. Organise Pharmaceuticals Private Limited
5.	3570	M/s. Jagdamba Constructions Private Limited
6.	3569	M/s. Vice Tech Engineers Private Limited
7.	3568	M/s. Harshwardhan Developers (India) Private Limited
8.	3565	M/s. Emm Vee Traders Private Limited
9.	3564	M/s. Edwin Pharma Private Limited
10.	3563	M/s. Petro Chem Private Limited
11.	3578	M/s. Bindhwasni Khandsare Sugar Mills Private Limited
12.	3618	M/s. Ravi Shankar Prasad Constructions Private Limited

1	2	3
13.	3616	M/s. B. Construction Private Limited
14.	3615	M/s. Devanand Construction Company Private Limited
15.	3614	M/s. Dwivedi Construction Private Limited
16.	3612	M/s. Sergeant Construction Company Private Limited
17.	3611	M/s. Bhawan Parijat Builders & Engineers Private Limited
18.	3610	M/s. Vijeta Weekly Lottery Agency Private Limited
19.	3875	M/s. Rna Builders Private Limited
20.	3874	M/s. Vidyapati Construction Private Limited
21.	3871	M/s. Pratima Construction Private Limited
22.	3872	M/s. Banta Constructions Private Limited
23.	3870	M/s. Mahapati Construction Private Limited
24.	3868	M/s. Rajkumar Bansidhar Constructions Private Limited
25.	3867	M/s. Ramchandra & Bageswar Construction Private Limited
26.	3865	M/s. Ghayal Construction Private Limited
27.	3863	M/s. Kanak Limited Sheet Industries Private Limited
28.	3862	M/s. Chitragupta Builders Private Limited
29.	3810	M/s. Makant Constructions Private Limited
30.	3849	M/s. Udayan Builders (India) Private Limited
31.	3846	M/s. A. P. Dhanawa Constructions Private Limited
32.	3853	M/s. Kaushalya Constructions Private Limited
33.	3852	M/s. S. K. P. Builders (India) Private Limited
34.	3856	M/s. Ravindra Kumar Singh Contractors Private Limited
35.	3854	M/s. Sonha Engineers Private Limited
36.	3804	M/s. I. B. Engitech Private Limited
37.	3809	M/s. Anar Ujala Constructions Private Limited
38.	3771	M/s. Aman Rakesh Constructions Private Limited
39.	3778	M/s. Forbesganj Constructions Private Limited

1	2	3	1	2	3
40. 3877	M/s. Sitaram Singh Construction Private Limited		66. 4002	M/s. Anand Kunj Estate Developers Co. Private Limited	
41. 3727	M/s. Swan (India) Construction Private Limited		67. 4001	M/s. Amar Ratan Estate Private Limited	
42. 3728	M/s. S. I. P. Hatchery Private Limited		68. 3903	M/s. Choudhary & Achyut Construction Company (1989) Private Limited	
43. 3732	M/s. Nav Nalanda Vihar Construction Private Limited		69. 3908	M/s. Ram Briksh Construction Private Limited	
44. 3733	M/s. Ranglalahi Construction Private Limited		70. 3911	M/s. Kveer Techno Engineers Private Limited	
45. 3735	M/s. Pooja Smokeless Fuel & Coaltar Private Limited		71. 3914	M/s. Kalyaniasha Constructions Private Limited	
46. 3736	M/s. Pooja Pigments & Oil Products Private Limited		72. 3915	M/s. Korra Constructions Private Limited	
47. 3737	M/s. Larcons Private Limited		73. 3919	M/s. Ram Lakhan Enterprises Private Limited	
48. 3740	M/s. Roshpa Printek Private Limited		74. 4042	M/s. Cee Vee Electronic Private Limited	
49. 3742	M/s. R. M. P. Sinha Construction Private Limited		75. 4118	M/s. J. N. C. Computers In Limited	
50. 3745	M/s. Liladhar Tiwari Construction Private Limited		76. 4040	M/s. K. K. Tiwary Contractors Private Limited	
51. 3750	M/s. Rajeshwar Yadav Builders Private Limited		77. 4091	M/s. T. K. Builders (India) Private Limited	
52. 3751	M/s. Sheokumar Builders Private Limited		78. 4089	M/s. Sri Ganesh Projects Private Limited	
53. 3755	M/s. K. B. C. Marketing Company Private Limited		79. 4103	M/s. Ritu Sugar Mills Private Limited	
54. 3756	M/s. Somesh Construction & Engineers Private Limited		80. 4101	M/s. Palamue Builders Private Limited	
55. 3779	M/s. Keshari Nandan Construction Private Limited		81. 4100	M/s. Rnvijay Singh Construction Private Limited	
56. 3700	M/s. S. B. Pipes Private Limited		82. 4083	M/s. Mijay & Mijay Energy Equipments Private Limited	
57. 4017	M/s. Eastern Poles Private Limited		83. 4094	M/s. Peacock Boards Private Limited	
58. 4019	M/s. Sher Hotel Complex Private Limited		84. 4093	M/s. Tirhut Food Products Private Limited	
59. 4028	M/s. Chiku Construction Private Limited		85. 4038	M/s. Purushottam Contractors Private Limited	
60. 4013	M/s. Baij Nath Cold Storage & Ke Plant Private Limited		86. 4088	M/s. Kusumpur Rural Re-construction Private Limited	
61. 4011	M/s. Nag Construction Private Limited		87. 4121	M/s. Deepshikha Engineers Private Limited	
62. 4007	M/s. Amal Chemical & Distilleries India Private Limited		88. 4120	M/s. Sashi Fertilizers Private Limited	
63. 4005	M/s. Amrendra Prasad Singh Construction Private Limited		89. 4125	M/s. Nasrganj Engineers Private Limited	
64. 4004	M/s. Jai Bhole Nath Constructions Private Limited		90. 4043	M/s. Trusted Couriers Private Limited	
65. 4003	M/s. Dev-Mata Granite Private Limited		91. 4123	M/s. Sunishka Chemical Industries Private Limited	
			92. 6938	M/s. Quark Softwares Private Limited	
			93. 4129	M/s. Matri Construction Private Limited	

1	2	3	1	2	3
94. 4037	M/s. Amit Techno Enterprises Private Limited		121. 3402	M/s. Pancham Agrochem Industries Private Limited	
95. 4032	M/s. G. N. S. Constructions Private Limited		122. 3401	M/s. Samata Cold Storage Private Limited	
96. 4014	M/s. Regency Minerals Private Limited		123. 3592	M/s. Omkar Ferro Castings Private Limited	
97. 4086	M/s. Shanico Biscuits Private Limited		124. 3583	M/s. Arman Construction & Land Developers Private Limited	
98. 4115	M/s. Associated Zinc Industries Private Limited		125. 3585	M/s. Pabra Construction Private Limited	
99. 4184	M/s. Affiche Advertising Private Limited		126. 3591	M/s. Pylon Resorts & Estates Private Limited	
100. 10279	M/s. Tripur Sundari Construction Private Limited		127. 3500	M/s. Ramsons Traders Private Limited	
101. 4182	M/s. D. N. R. Engicon Private Limited		128. 3504	M/s. S. R. S. Constructions Company Private Limited	
102. 4178	M/s. Kautilya Security Services Private Limited		129. 3505	M/s. Mahalaxmi Cultivator Enterprises Private Limited	
103. 4177	M/s. Amber Electronics (India) Limited		130. 3506	M/s. Bhima Engicon Private Limited	
104. 4173	M/s. Sikrana Nirman Private Limited		131. 3415	M/s. Archean Gneiss Construction Company Private Limited	
105. 4169	M/s. Glorious Consultant & Services Private Limited		132. 3418	M/s. Spatco Agencies Private Limited	
106. 4167	M/s. R. N. Sharaff Marketing (India) Private Limited		133. 3426	M/s. Turya Constructions Private Limited	
107. 4163	M/s. Osho Fabchem Industries Private Limited		134. 3425	M/s. Gidhaur Estate Private Limited	
108. 4162	M/s. Shandil & Pandit Constructions Private Limited		135. 3456	M/s. Shyama Yadav Cold Storage Private Limited	
109. 4161	M/s. Assal Chem Private Limited		136. 3459	M/s. S. S. R. Construction (India) Private Limited	
110. 4156	M/s. B. N. Builders Private Limited		137. 3461	M/s. Daimmalwa Constructions Company Private Limited	
111. 4158	M/s. Verma Mechanised Bricks Private Limited		138. 3449	M/s. Shark Apperel Private Limited	
112. 3925	M/s. A. B. D. Rai Constructions Private Limited		139. 3437	M/s. Champaran Chemicals Private Limited	
113. 3924	M/s. Anantkala Construction Private Limited		140. 3453	M/s. M. S. Leathers Private Limited	
114. 3923	M/s. Jaumuhar Constructions Private Limited		141. 3421	M/s. Suman Sop Private Limited	
115. 3921	M/s. L. N. Constructions Private Limited		142. 3439	M/s. Bishwanath Constech Private Limited	
116. 3920	M/s. Medania Constructions Private Limited		143. 3443	M/s. Astha Computers and Data Processing Private Limited	
117. 3408	M/s. Computage Carving & Services Private Limited		144. 3445	M/s. A. Pertus Printing Works Private Limited	
118. 3407	M/s. Kautilya Developers (India) Private Limited		145. 3446	M/s. Ultra Chemicals Private Limited	
119. 3409	M/s. Sheevalaya Markets (India) Limited		146. 3484	M/s. Simant Travels Private Limited	
120. 3404	M/s. Progressive Fuels Private Limited		147. 3485	M/s. Kiran Developers (India) Private Limited	
			148. 3487	M/s. Bhola Coal Enterprises Private Limited	

1	2	3
149.	3495	M/s. Trimurti Hire Purchase Private Limited
150.	3458	M/s. Patliputra Vanaspati (India) Private Limited
151.	3432	M/s. Vardhman Cold Retreads Private Limited
152.	3482	M/s. Sapna Apartments Limited
153.	3480	M/s. Bishwambhar Prasad Singh Constructions Private Limited
154.	3467	M/s. Ashmo Engineers (India) Private Limited
155.	3416	M/s. Bihar Research & Studies Private Limited
156.	3428	M/s. Sunrise Tanning Industries Private Limited
157.	3429	M/s. A. A. K. Constructions Company Private Limited
158.	3430	M/s. P. K. R. Construction Private Limited
159.	3436	M/s. Friends Carbonic Industries Private Limited
160.	3438	M/s. Moti Fertilizer Private Limited
161.	3400	M/s. Sunil & Surendra Transport Company Private Limited
162.	3772	M/s. Rana & Rana Films Private Limited
163.	3759	M/s. Benefic Security Services (India) Private Limited
164.	3760	M/s. Bhagwan Bhagwani Constructions Private Limited
165.	3761	M/s. Baba Kashi Biswanath Constructions Private Limited
166.	3764	M/s. O. S. Construction Private Limited
167.	3768	M/s. Mithilanchal Cattle Feeds Private Limited
168.	3770	M/s. Shyam Bahadur Singh Nirman Private Limited
169.	4189	M/s. Pallawi Motel Private Limited
170.	4193	M/s. Singh & Sharma Construction Private Limited
171.	4195	M/s. Ojha Ceramic Private Limited
172.	4188	M/s. Texcon Rayon Private Limited

K. PRASAD  
Registrar of Companies  
Bihar & Jharkhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gurukrupa Auto Linkers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00289/7814—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Gurukrupa Auto Linkers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vikamsey Resort Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01219/7818—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vikamsey Resort Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Naroda Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01188/7822—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Naroda Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajpipla Pharmaceutical Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01161/7829—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajpipla Pharmaceutical Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saubhagya Entertainment Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01071/7834—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saubhagya Entertainment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. H. Vrajlal Construction Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00329/7838—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. H. Vrajlal Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sparsh Super Structure Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00312/7842—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sparsh Super Structure Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gama Securities Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00315/7844—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gama Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wotec Water Technologies Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00322/7850—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Wotec Water Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sujay Infotech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00416/7854—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sujay Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Smita Technologies Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00451/7858—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Smita Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Al-Karim Exim Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00391/7862—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Al-Karim Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Perfect Maintenance Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00404/7866—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Perfect Maintenance Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Akashneel Travels Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00583/7870—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Akashneel Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mega Finstock Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00542/7874—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mega Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Savita Auto-Pack Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00660/7878—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Savita Auto-Pack Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vrajbhoomi Finance Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00634/7882—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vrajbhoomi Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nigar Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00606/7886—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nigar Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Perna Telecom Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00321/7890—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Perna Telecom Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trident Engineering and Management  
Consultants Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00905/8252—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Trident Engineering and Management Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Neeraj Refoils Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00767/8255—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Neeraj Refoils Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jaydeep Hygiene Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00916/8257—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jaydeep Hygiene Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hinglaj Agro Steel Industries Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00314/8266—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hinglaj Agro Steel Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bileshwar Oil Product Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00991/8729—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bileshwar Oil Product Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bolts Manufacturers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00981/8733—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of



Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bolts Manufacturers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Essen Media Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01058/8737—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Essen Media Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ratnadeep Finance Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00973/8741—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ratnadeep Finance Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vranz Techno-Engineers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01231/8745—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vranz Techno-Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dushyant Construction Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01212/8749—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dushyant Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nitin and Nilesh Exports Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01194/8753—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nitin and Nilesh Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Adachi Agrotech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01122/8757—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Adachi Agrotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arken Pollution Controls Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01043/8761—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arken Pollution Controls Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yash Infrastructure Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00704/8765—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yash Infrastructure Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shreya Motors Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00727/8769—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shreya Motors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gujarat Veener and Plywood Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00743/8777—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gujarat Veener and Plywood Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nest Transmission Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00267/8777—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nest Transmission Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mili Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00234/8781—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mili Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Singhal Polyesters Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00194/8785—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Singhal Polyesters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lakshya Developers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00006/8789—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lakshya Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Satnam Formulations Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00299/8793—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Satnam Formulations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Het Management Consultancy Services  
Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00945/8797—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Het Management Consultancy Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Quick Tradelinks Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00949/8801—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Quick Tradelinks Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Madhuram Silk Mills Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00952/8805—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madhuram Silk Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanjog Pharma Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00964/8809—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sanjog Pharma Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashirvad Dairy Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00934/8813—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ashirvad Dairy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Perfect Lubricants Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00937/8817—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Perfect Lubricants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arun Dyestuff Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00941/8821—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arun Dyestuff Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chotila Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00930/8825—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chotila Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yuraj Polysack Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00779/8829—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yuraj Polysack Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Keshan Fashion Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01500/8833—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Keshan Fashion Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ekta Steel Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00357/8845—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ekta Steel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. A-one Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00218/8849—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A-one Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jolly Fabs Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00204/8853—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jolly Fabs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ahmedabad Polyclinic Private Limited  
Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00197/8857—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ahmedabad Polyclinic Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Patidhar Social Club Private Limited  
Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00166/8861—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Patidhar Social Club Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ranco Electronics Private Limited  
Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00074/8865—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ranco Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Khodal Polyfibres Private Limited

Ahmedabad-380.013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00058/8869—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Khodal Polyfibres Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rushabha Textiles Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01651/8873—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rushabha Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dip Foods Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01618/8874—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dip Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Avon Rang Rasayan Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00515/8878—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)

of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Avon Rang Rasayan Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Balaram Texchem Industries Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00578/8883—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Balaram Texchem Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bharat Cement Industries (Gujarat) Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01594/8887—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bharat Cement Industries (Gujarat) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yogi Estates Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01575/8891—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yogi Estates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ajay Departmental Stores Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01551/8895—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ajay Departmental Stores Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Poonam Tours Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01540/8899—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Poonam Tours Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vego Polymers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01506/8903—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vego Polymers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Baba Polypropylene Industries Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01484/8907—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Baba Polypropylene Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhakti Lamination Industries Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01462/8911—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhakti Lamination Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Oswal Laminates Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00247/8915—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Oswal Laminates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Eco-Development and Management Research  
Centre Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01435/8919—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Eco-Development and Management Research Centre Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vanjy Poly Packs Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 13th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01641/8923—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vanjy Poly Packs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Royal Pre-Cast Products Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00888/8621—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Royal Pre-Cast Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Subh Yog Leasing and Finance Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00844/8625—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Subh Yog Leasing and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pushkaravat Finlease Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00977/8629—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pushkaravat Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aniket Motels Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01020/8632—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aniket Motels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Raj Engineering Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00989/8637—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Raj Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zencox Chem Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01026/8641—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Zencox Chem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Swisskem Healthcare Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00014/8645—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swisskem Healthcare Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Harsh Securities Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00018/8649—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Harsh Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Deveena Securities Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00030/8653—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deveena Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bablu Cargo Movers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00044/8657—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of



Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bablu Cargo Movers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Apna Television and Communication Private Limited  
Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/  
00054/8661—Notice is hereby given pursuant to Sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Apna Television and Communication Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off from  
the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Haridham Finance and Investment Private Limited  
Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/  
00061/8665—Notice is hereby given pursuant to Sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Haridham Finance and Investment Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Govind Softech Private Limited  
Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/  
00068/8669—Notice is hereby given pursuant to Sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Govind Softech Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Euthenics Labs Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/  
00079/8673—Notice is hereby given pursuant to Sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Euthenics Labs Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Patel Art Jewellers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/  
00092/8677—Notice is hereby given pursuant to Sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Patel Art Jewellers Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Samundragupt Granites and Minerals Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/  
00100/8681—Notice is hereby given pursuant to Sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Samundragupt Granites and Minerals Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off from  
the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kiran Tempo Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00106/  
8685—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kiran Tempo Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Poojan Engineering Company Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00112/8689—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Poojan Engineering Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yash Technocrafts Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00120/8693—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yash Technocrafts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nikhil Synthetics Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00132/8697—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nikhil Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Siddharth Fiscal Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00144/8701—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Siddharth Fiscal Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shainaz Poultry and Foods Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00159/8705—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shainaz Poultry and Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Madhuram Finance and Builders Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00183/8709—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madhuram Finance and Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Atlantic Poultry Farm Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00202/8713—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)

of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Atlantic Poultry Farm Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Commandor Stones Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00220/8717—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Commandor Stones Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shri Siddhanath Finance Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00276/8721—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Siddhanath Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yashvi Finvest Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01134/8827—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yashvi Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sarvoday Cattle Feed Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00922/8831—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sarvoday Cattle Feed Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rennovative Sellers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00925/8835—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rennovative Sellers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paras Strips Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00816/8839—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Paras Strips Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Milan Cold Storage Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00823/8843—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Milan Cold Storage Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

**PREMLAL BHANJURAM MALIK**

Authorising Officer

Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maurya Petroleum Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00789/8847—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maurya Petroleum Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

**PREMLAL BHANJURAM MALIK**

Authorising Officer

Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Orbit Worldwide Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00842/8851—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Orbit Worldwide Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

**PREMLAL BHANJURAM MALIK**

Authorising Officer

Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Agroha Industrial Gases Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00890/8855—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Agroha Industrial Gases Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

**PREMLAL BHANJURAM MALIK**

Authorising Officer

Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Padmavati Edible Oil Mill Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00919/8859—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Padmavati Edible Oil Mill Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

**PREMLAL BHANJURAM MALIK**

Authorising Officer

Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pratap Fertilchem Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00508/8863—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pratap Fertilchem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

**PREMLAL BHANJURAM MALIK**

Authorising Officer

Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jay Fabrichem Engineers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01460/8867—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jay Fabrichem Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

**PREMLAL BHANJURAM MALIK**

Authorising Officer

Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manoj Minerals (Kutch) Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01481/8871—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Manoj Minerals (Kutch) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arc Laboratories Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01515/8879—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arc Laboratories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Adarsh Alloys Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01170/8883—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Adarsh Alloys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Patson Forging Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01198/8887—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Patson Forging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Madhuvan Builders Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01298/8891—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madhuvan Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shaltees Dairy Products Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01324/8895—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shaltees Dairy Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ambica Iron and Re-Rolling Mills (Gujarat)  
Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00521/8899—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ambica Iron and Re-Rolling Mills (Gujarat) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gujarat Motels Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00824/8902—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gujarat Motels Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aaradhna Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00817/8903—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aaradhna Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Royal Ferro Alloys Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01142/8911—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Royal Ferro Alloys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. H Ramchand Cement Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01120/8915—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. H Ramchand Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sant Jaram Printing Mills Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01106/8919—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sant Jaram Printing Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Monolith Construction Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01092/8923—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Monolith Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Munshi Construction Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01437/8931—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Munshi Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mangalhari Fineap Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00892/8935—Notice is hereby given pursuant to Sub-

section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mangalmurti Fincap Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bharat Khand Textile Manufacturing Co. Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00048/8939—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bharat Khand Textile Manufacturing Co. Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Contryside Construction Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00058/8943—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Contryside Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashoka Mills Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00064/8947—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ashoka Mills Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prashant Finstock Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00076/8951—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prashant Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashddeep Industries Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00094/8955—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ashddeep Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mech-Men Engineers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00108/8959—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mech-Men Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gujarat Pharmaceutical Works Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 14th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01502—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)

of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gujarat Pharmaceutical Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pelican Paints Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00124/8963—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pelican Paints Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yakin Finlease Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00149/8967—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yakin Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Premium Cements Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00161/8971—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Premium Cements Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Radhakisan Marketing and Finance Company  
Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00428/8978—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Radhakisan Marketing and Finance Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Malhotra Brothers Investments Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00026/8982—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Malhotra Brothers Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paridhan Finvest Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00448/8986—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Paridhan Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maria Credit-Capital Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00458/8990—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of



Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maria Credit-Capital Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Harvi Finance Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00462/8994—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Harvi Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saminaat Builders Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00470/8998—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saminaat Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Marshal Finstock Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00477/9002—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marshal Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kard Healthcare Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s 560(3)/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00483/9006—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kard Healthcare Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ultrapure Ice-Cubes Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00492/9010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ultrapure Ice-Cubes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hmedabad Cotton Mfg. Co. Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00041/9014—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hmedabad Cotton Mfg. Co. Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mount Packers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00176/9018—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mount Packers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Earth Buildcon Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00194/9022—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Earth Buildcon Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajmani Poly-Chem Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00207/9026—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajmani Poly-Chem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dipti Overseas Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00220/9030—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dipti Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Navjyot Finvest Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00238/9034—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Navjyot Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Puremetal Exports Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00252/9038—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Puremetal Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Habk Club Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01449/9042—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Habk Club Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jivanlal Chaudhary Investment Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01488/9046—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jivanlal Chaudhary Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Subhlaxmi Plastics Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00648/9050—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Subhlaxmi Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Iceberg Zoon Fiscal Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00592/9054—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Iceberg Zoon Fiscal Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pramukh Oxytech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00523/9058—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pramukh Oxytech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Palmon Fishries Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00504/9062—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Palmon Fishries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mahali Marble Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00445/9066—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mahali Marble Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Guruashish Ship Breaking Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00384/9070—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Guruashish Ship Breaking Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Impex (India) Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00367/9071—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Impex (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Laher Garments Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00355/9075—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Laher Garments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chaitali Investment Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00332/9079—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chaitali Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Tulsi Allumils Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00299/9083—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Tulsi Allumils Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rath Travelnet Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00441/9087—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rath Travelnet Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Star Bottling Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00734/9091—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Star Bottling Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vastu Sanskar Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00730/9095—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vastu Sanskar Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ruby Laboratories Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00719/9099—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ruby Laboratories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Daisy Toys Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00699/9103—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Daisy Toys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shiraj Synthetics Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00693/9108—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiraj Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhumica Engineering Works Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00684/9111—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhumica Engineering Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jay Jay Investments Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00681/9115—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jay Jay Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Echjay Investments Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00678/9119—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Echjay Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tehmuras Investments Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00675/9123—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tehmuras Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Keerat Ceramics Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00672/9127—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Keerat Ceramics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ridhi Sidhi Leasing and Finance Co. Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00669/9131—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ridhi Sidhi Leasing and Finance Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gujarat Eviro Projects Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00968/9135—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gujarat Eviro Projects Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Realty Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01676/9143—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Realty Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saatvik Intech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01793/9139—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saatvik Intech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rep-Reb Earth Movers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01691/9142—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rep-Reb Earth Movers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanabil Developers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01704/9151—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sanabil Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Achyuta Consultants Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01811/9155—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Achyuta Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paradise Card Holders Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01812/9159—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Paradise Card Holders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Uttkal Aluminium and Conductor Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01806/9163—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Uttkal Aluminium and Conductor Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shrinathji Met-Equip Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01757/9167—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shrinathji Met-Equip Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shilp Real Estate Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01374/9171—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shilp Real Estate Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sheela Prints Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01343—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sheela Prints Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajsahyog Marketing Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01380/9179—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajsahyog Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pavagadhi Exports Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01348/9183—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pavagadhi Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kavhilaroxygen Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00228/9187—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kavhilaroxygen Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Brahma Aerochem Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01357—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Brahma Aerochem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hi-Time Security and Investment Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01362/9195—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hi-Time Security and Investment Private Limited

unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalindi Finance Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007-01365/9199—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kalindi Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jayson Steels and Alloys Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007-01368/9207—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jayson Steels and Alloys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Supreme Aequa Estate Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 16th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007-01371/9207—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Supreme Aequa Estate Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Authorising Officer  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli



In the matter of Companies Act, 1956 and  
of following Companies

Kolkata-700 020, the 18th September 2007

No. ROC/WB/IPC/560(SM)/07—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 under Suo Motu that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and is dissolved :—

Sl. No.	Company CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	19319	M/s. A. Pandit & Brothers (1916) Private Limited
2.	89949	M/s. A. V. Galvanising Private Limited
3.	72450	M/s. Aayush Agency Private Limited
4.	72451	M/s. Aayush Suppliers Private Limited
5.	46045	M/s. Abhinava Consumer Products Private Limited
6.	80086	M/s. Abhishek Ply Products Private Limited
7.	29722	M/s. Achari & Co. India Private Limited
8.	78510	M/s. Adcom Traders Private Limited
9.	27766	M/s. Adsigns Design & Display, Services Private Limited
10.	85059	M/s. Advance Fabrication Private Limited
11.	36658	M/s. ADVIVVM Chemicals Private Limited
12.	19288	M/s. Agencies & Supplies Private Limited
13.	27313	M/s. Agricultural Inputs Supplies Private Limited
14.	30300	M/s. Air Compressor and Pneumatic Tools (India) Private Limited
15.	53966	M/s. Ajeet Plastics Private Limited
16.	29842	M/s. Aladro Private Limited
17.	30356	M/s. Albatross Private Limited
18.	85640	M/s. Allied Fabricator & Engineers Private Limited
19.	79068	M/s. Amco Commercial Private Limited
20.	81242	M/s. Anaam Consultants Private Limited
21.	38637	M/s. Anamica Services Private Limited
22.	44251	M/s. Ananya Leasing & Housing Finance Private Limited

1	2	3
23.	84052	M/s. ANC Trading & Finance Co. Private Limited
24.	31104	M/s. Angel Finance (Chit) & Trading Co. Private Limited.
25.	44888	M/s. Anglia Packers Private Limited
26.	23090	M/s. Anjan Films Private Limited
27.	19491	M/s. Annapurna Farming and Fisheries Private Limited
28.	55409	M/s. Anu Management Services Private Limited
29.	82879	M/s. Anudeep Commodities Private Limited
30.	85171	M/s. Anupra Suppliers Private Limited
31.	78056	M/s. Anurodh Commercial Private Limited
32.	19826	M/s. Anushilam Agency Private Limited
33.	79757	M/s. Apcon Estates Private Limited
34.	68994	M/s. Apogee Mercantile Private Limited
35.	79823	M/s. APS Griha Nirman Company Private Limited
36.	66373	M/s. Apsara Overseas Private Limited
37.	75861	M/s. Aquila Trading Private Limited
38.	55364	M/s. Arash Investments Private Limited
39.	85597	M/s. Aries Infotech Private Limited
40.	28784	M/s. Arun Sales Private Limited
41.	28312	M/s. Arun Tea Co. Private Limited
42.	30366	M/s. Arveen Chits & Trading Co. Private Limited
43.	84260	M/s. Ashan Properties Private Limited
44.	55490	M/s. Ashish Computer Consultancy Private Limited
45.	28426	M/s. Ashok Steel Corpn. Limited
46.	24682	M/s. Asiatic Mfg. & Trading Co. Private Limited
47.	9597	M/s. Assam Bengal Corpn. Private Limited
48.	30659	M/s. Associated Coal Co. Private Limited
49.	27067	M/s. Associated Forge Selling Co. Private Limited
50.	27377	M/s. Associated Patterned & Wired Glass Private Limited
51.	85198	M/s. Aster Garments Private Limited
52.	78289	M/s. Atlanta Consultancy & Services Private Limited

1	2	3	1	2	3
53.	26816	M/s. Atlas Industries (Battery) Private Limited	86.	7888	M/s. Bharat Industrial Corpn. Private Limited
54.	76609	M/s. August Dealers Private Limited	87.	12032	M/s. Bharat Paint Colours & Varnish Works Private Limited
55.	53289	M/s. August Technologies Private Limited	88.	26642	M/s. Bharati Spun Pipe Private Limited
56.	73903	M/s. Aurovil Merchandise Private Limited	89.	29357	M/s. Bhattacharjee & Choudhury Private Limited
57.	38337	M/s. Auto Offset Private Limited	90.	11285	M/s. Bhattacharjee (Agency) & Co. Private Limited
58.	19944	M/s. Auto Power (India) Private Limited	91.	70179	M/s. Bhrosemand Sales Private Limited
59.	79687	M/s. Avam Tracon Private Limited	92.	14075	M/s. Bijlee Press Private Limited
60.	75490	M/s. Avishek Services & Transport Private Limited	93.	76931	M/s. Bikashkana Properties Private Limited
61.	71455	M/s. Awagaman Tie-up Private Limited	94.	19655	M/s. Bimala Enterprises (India) Private Limited
62.	8897	M/s. B. K. Dutt & Co. Private Limited	95.	71834	M/s. Binani Texfin Private Limited
63.	77233	M/s. Baisno Mercantile Private Limited	96.	79537	M/s. Binay Fusion Systems Private Limited
64.	44718	M/s. Bajrangbali Foundry Private Limited	97.	38402	M/s. Binay Iron Private Limited
65.	14708	M/s. Bakshi Manohar Lal & Sons Private Limited	98.	46099	M/s. Biopt Cold Process & Holdings Private Limited
66.	73239	M/s. Banijya Investments Private Limited	99.	34541	M/s. Biosyn Private Limited
67.	28333	M/s. Bansam Agencies Private Limited	100.	87484	M/s. Bisco Textile Private Limited
68.	89980	M/s. Barasat Farm Products Private Limited	101.	14347	M/s. Bishnupur Film Corpn Private Limited
69.	70765	M/s. Bardoli Commercial Company Private Limited	102.	12728	M/s. Bishnupur Silk Industries Private Limited
70.	8799	M/s. Barick Cinema Corpn. (India) Private Limited	103.	85078	M/s. Bluemax Courier & Cargo Services Private Limited
71.	30382	M/s. Basak Banerjee Private Limited	104.	73444	M/s. Bongaon Sub-Divisional Pisciculture Private Limited
72.	70976	M/s. Basanth Sales Private Limited	105.	36142	M/s. Bonsen Containers Private Limited
73.	85086	M/s. Basanti Infrastructure Private Limited	106.	11499	M/s. Book Emporium Private Limited
74.	31762	M/s. Basil Electricals Private Limited	107.	27215	M/s. Book Service Private Limited
75.	85908	M/s. BD Chemicals Private Limited	108.	55878	M/s. Borealis Credit Private Limited
76.	38734	M/s. Beeline Commerce Private Limited	109.	10829	M/s. Bose Brothers & Co. Private Limited
77.	9712	M/s. Behar Miscellany Private Limited	110.	87714	M/s. Bowbazar Holdings Private Limited
78.	67904	M/s. Bellona Labels Private Limited	111.	36029	M/s. Brahaspati Properties Private Limited
79.	28111	M/s. Benaras Textiles Private Limited	112.	44822	M/s. Bright Constructions Private Limited
80.	19189	M/s. Bengal Agency & Stores Syndicate Private Limited	113.	44610	M/s. Brown Petrochem Private Limited
81.	11833	M/s. Bengal Iron Works Private Limited	114.	71914	M/s. Budget Marketing Private Limited
82.	38583	M/s. Bengal Synthoplast Process Private Limited	115.	28304	M/s. Bunidi Coal & Agency Company Private Limited
83.	11780	M/s. Bengal Wire Nails Co. Private Limited			
84.	78817	M/s. Bhagya Merchants Private Limited			
85.	24739	M/s. Bharat Foundry Private Limited			

1	2	3	1	2	3
116.	31361	M/s. C. D. Cold Drinks Private Limited	144.	17310	M/s. Clarita Private Limited
117.	44617	M/s. C. K. Furnace Erectors & Consultancy Services Private Limited	145.	79248	M/s. Classic Marine Products Private Limited
118.	28808	M/s. C. R. Wallace Co. Private Limited	146.	52160	M/s. Classic Multimax Private Limited
119.	7797	M/s. Calcutta Collapsible Gate Co. Private Limited	147.	12555	M/s. Coal Products Private Limited
120.	8996	M/s. Calcutta Credit Corpn. Private Limited	148.	67183	M/s. Cocetra Commodities Private Limited
121.	26695	M/s. Calcutta Hosiery Works Private Limited	149.	26972	M/s. Cocks & Valves Mfg. Specialist Private Limited
122.	44803	M/s. Calcutta Laser-Graphics Private Limited	150.	86482	M/s. Consumer Tradewings Private Limited
123.	20808	M/s. Calcutta Sheel-Lime Agency Private Limited	151.	34167	M/s. Control Engineering Private Limited
124.	31462	M/s. Calcutta Wecon Supply Private Limited	152.	27303	M/s. Control Instruments & Equipment Co. Private Limited
125.	44278	M/s. Camac Investments Private Limited	153.	55714	M/s. Cornflower Merchandise Private Limited
126.	70593	M/s. Cats View Traders Private Limited	154.	14596	M/s. Corporated Engineers (India) Private Limited
127.	7368	M/s. Central Trading Co. Private Limited	155.	14341	M/s. Cosmic Engineering Corpn. Private Limited
128.	84334	M/s. Centrepoint Tours Private Limited	156.	52821	M/s. Cosmo Housing Private Limited
129.	44306	M/s. Cew Engineers Private Limited	157.	70254	M/s. Cosy Trading Private Limited
130.	30384	M/s. Chaitali Chit Schemes & Investment Co. Private Limited	158.	44128	M/s. Cownpore Finance Private Limited
131.	74170	M/s. Chakradhari Marketing Private Limited	159.	79269	M/s. Creative Aesthetics Private Limited
132.	12707	M/s. Charak Chemical Works Private Limited	160.	71891	M/s. Creative Projects Private Limited
133.	19924	M/s. Charu Chaitra Private Limited	161.	38220	M/s. Croda Chemicals Private Limited
134.	44399	M/s. Chawla Racing Company Private Limited	162.	75858	M/s. D. P. Synthetics Private Limited
135.	79157	M/s. Chetak Tracon Private Limited	163.	10841	M/s. D. S. Banerjee & Co. Private Limited
136.	70014	M/s. Chik Consultancy Private Limited	164.	73577	M/s. D. G. A. Consultants Private Limited
137.	19001	M/s. Child & Co. Private Limited	165.	35746	M/s. Dafodil Laboratories Private Limited
138.	29326	M/s. Chirukunda Iron & Steel Industries Private Limited	166.	78499	M/s. Dalal Street Vinimay Private Limited
139.	72744	M/s. Chitravali Retailers Private Limited	167.	23097	M/s. Daljit Singh & Co. Private Limited
140.	77505	M/s. Choksi Machinery Private Limited	168.	66393	M/s. Damn Mercantiles Private Limited
141.	10055	M/s. Churulia Sadhu's Estate Private Limited	169.	36876	M/s. Damodar (Power) Electricals Private Limited
142.	86343	M/s. Citro Aroma Private Limited	170.	27574	M/s. Darpan Pictures Private Limited
143.	34207	M/s. Clarion Finance & Investment Co. Private Limited	171.	27159	M/s. Das & Bhowmic Agencies Private Limited
			172.	19222	M/s. Das & Das Private Limited
			173.	33176	M/s. Dayaleshwar Industrial Finance Private Limited
			174.	29502	M/s. Deluxe Paints & Chemical Company Private Limited

1	2	3	1	2	3
175.	10299	M/s. Debisahay Surajmall Private Limited	205.	44793	M/s. Durga Prasad Finance Private Limited
176.	44023	M/s. Dee Pee Metcab Private Limited	206.	75636	M/s. Durgapur Computer Services Private Limited
177.	82122	M/s. Delta Coke Company Private Limited	207.	79857	M/s. East Cost Petroleum Private Limited
178.	19006	M/s. Deluxe Private Limited	208.	11351	M/s. East Godhur Colliery Private Limited
179.	66377	M/s. Denimite Consultants Private Limited	209.	10695	M/s. Eastern Smelting & Refining Co. Private Limited
180.	46736	M/s. Desktop Print Private Limited	210.	52819	M/s. Eastman Tribotech Private Limited
181.	19172	M/s. Dethlefsen & Balk (India) Private Limited	211.	12043	M/s. Economic Housing Private Limited
182.	32980	M/s. Devkanta Publishers Private Limited	212.	19336	M/s. Economic Printing Works Private Limited
183.	44480	M/s. Devron Exports Private Limited	213.	19369	M/s. Economic Engineering Works Private Limited
184.	85664	M/s. Dey Tours and Travels Private Limited	214.	44472	M/s. FFI Food Limited
185.	71476	M/s. Dhanchakra Commodore Private Limited	215.	26333	M/s. Flandeo Scientific Products Private Limited
186.	79225	M/s. Dhanwanti Marketing Private Limited	216.	19227	M/s. Elmec Private Limited
187.	27074	M/s. Dhenkanal Agro Products Private Limited	217.	30264	M/s. Elora Chit & Finance Centre Private Limited
188.	77361	M/s. Dhenu Sales Promotion Private Limited	218.	70284	M/s. Empathy Distributors Private Limited
189.	44160	M/s. Dhinjan Construction Company Private Limited	219.	19767	M/s. Empire Hosiery Mills Private Limited
190.	44698	M/s. Dhulian Flour Mill Private Limited	220.	73797	M/s. Empire Retailer Private Limited
191.	55985	M/s. Dial Data Services Private Limited	221.	19994	M/s. Engineers & Contractors Syndicate Private Limited
192.	44852	M/s. Digital Gadgets Private Limited	222.	70541	M/s. Epza Distributors Private Limited
193.	37192	M/s. Dipsom Pharmaceuticals Private Limited	223.	84185	M/s. Escon Marine Products Private Limited
194.	77232	M/s. Divakar Trading Private Limited	224.	35221	M/s. Eveland Hotel and Travelling Private Limited
195.	44423	M/s. Dolphin Agencies Private Limited	225.	75820	M/s. Excel Estates Private Limited
196.	8518	M/s. Don Watson & Co. Private Limited	226.	68314	M/s. Exelsion Emporium Private Limited
197.	70125	M/s. Doot Commercial Private Limited	227.	28044	M/s. Explorer Engineers Private Limited
198.	31324	M/s. Doshi Gandhi Investment Private Limited	228.	77507	M/s. Ezra Electricals and Electronics Private Limited
199.	24464	M/s. Doz & Co. Private Limited	229.	36170	M/s. Farohar Agencies Private Limited
200.	28935	M/s. Dr. Bose & Co. (Chemical Specialities) Private Limited	230.	82196	M/s. ENF Electromould Private Limited
201.	70027	M/s. Drauya Barter Private Limited	231.	74655	M/s. Fortune Tradefin Private Limited
202.	73092	M/s. Dream Marketing Services Private Limited	232.	82518	M/s. Eureka Chemicals Co. Private Limited
203.	78004	M/s. Dreams Finvest Private Limited	233.	44164	M/s. G. R. C. Transport Company Private Limited
204.	31340	M/s. Dunhams (India) Private Limited	234.	52768	M/s. G. & C. Marketing Private Limited

1	2	3	1	2	3
235.	15051	M/s. G. N. Biswas & Sons Private Limited	265.	75819	M/s. Highland Developers Private Limited
236.	10822	M/s. Ganges Shipping Co. Private Limited	266.	76373	M/s. Highland Park Enclave Private Limited
237.	28980	M/s. General Industrial Security & Investigators Private Limited	267.	44375	M/s. Himel Ice Private Limited
238.	19541	M/s. General Service Agency Private Limited	268.	70290	M/s. Hinayana Dealers Private Limited
239.	9721	M/s. General Trading Corporation Private Limited	269.	30276	M/s. Hindustan Handloom Private Limited
240.	44757	M/s. Genesis Publicite Private Limited	270.	10255	M/s. Hindustan Pharmaceutical Works Private Limited
241.	31805	M/s. Geomin Consultants (India) Private Limited	271.	52841	M/s. Hotel Chandralika Private Limited
242.	19151	M/s. Ghosh Pharmacy Private Limited	272.	44940	M/s. Hotel Shahenshah Private Limited
243.	34568	M/s. Gifford Investments Private Limited	273.	86922	M/s. Hotline Appliances Private Limited
244.	72873	M/s. Glacial Fininvest Private Limited -	274.	19391	M/s. House of Commerce Private Limited
245.	44593	M/s. Globe Developers Private Limited	275.	28427	M/s. Howrah Potteries Private Limited
246.	86259	M/s. Goldlink Management Services Private Limited	276.	55113	M/s. Image & Impression Private Limited
247.	79525	M/s. Goldstake Overseas Private Limited	277.	44893	M/s. Impact Apparels Private Limited
248.	86583	M/s. Gomati Marketing Private Limited	278.	89971	M/s. Impressive Leather Innovation Private Limited
249.	70656	M/s. Goodhope Vyapaar Private Limited	279.	14040	M/s. India Drugs Laboratory Private Limited
250.	78825	M/s. Goodrock Trading Private Limited	280.	78829	M/s. Indivar Commercial Private Limited
251.	11715	M/s. Gopal Chandra Nandi Private Limited	281.	19947	M/s. Inkay Private Limited
252.	9435	M/s. Gouripur Industries Private Limited	282.	77357	M/s. Innovative Devlocon Private Limited
253.	52809	M/s. Greenland Properties & Finance Private Limited	283.	74408	M/s. Insilco Dealers Private Limited
254.	29829	M/s. Griplex Alloys Private Limited	284.	17924	M/s. Insurance Friends Co. Private Limited
255.	72464	M/s. Gyanijay Commodeal Private Limited	285.	55443	M/s. Integratise Management Private Limited
256.	20795	M/s. H. Hoodaty & Ghose Co. Private Limited	286.	10155	M/s. International Lubricants Private Limited
257.	44136	M/s. Hailey-Seldon Pharmaceuticals Private Limited	287.	55808	M/s. Interways Marketing Services Private Limited
258.	76566	M/s. Halden Impex Private Limited	288.	85233	M/s. Invincible Engineering Company Private Limited
259.	44526	M/s. Haldia Abasan Prakalpa Company Private Limited	289.	75066	M/s. Iris Media and Communication Private Limited
260.	74163	M/s. Hariom Vinimoy Private Limited	290.	76165	M/s. Ispa Systems Private Limited
261.	87630	M/s. Hati Construction Co. Private Limited	291.	12034	M/s. J. B. Dutt & Co. Private Limited
262.	89853	M/s. Herz Tourism and Marketing (I) Private Limited	292.	19790	M/s. J. Motibhai & Co. Private Limited
263.	29543	M/s. Hexad Massif & Co. (Chemicals) Private Limited	293.	44665	M/s. J. N. S. Fabrics Private Limited
264.	79759	M/s. Hi Tech Reprographics Private Limited	294.	28319	M/s. J. C. Narang Mining Co. Private Limited
			295.	78808	M/s. J. K. Enterprises Kalyani Private Limited

1	2	3	1	2	3
296.	33827	M/s. Jack Healers Pharmaceuticals Private Limited	329.	29572	M/s. Kalyaneswari Savings Funds Private Limited
297.	31243	M/s. Jagdeep Tours & Travels Private Limited	330.	44741	M/s. Kamala Cement Company Private Limited
298.	76886	M/s. Jaghadatri Vintrade Private Limited	331.	44906	M/s. Kamla Holdings Private Limited
299.	20344	M/s. Jaharlal Pannalall & Co. Private Limited	332.	75410	M/s. Kamla Vencer Mills Private Limited
300.	70336	M/s. Jaidhan Vyapaar Private Limited	333.	84151	M/s. Kanakdhara Marketing Private Limited
301.	70337	M/s. Jairadha Merchants Private Limited	334.	53931	M/s. Kanha Tea Packaging Private Limited
302.	11577	M/s. Jajodia Mercantile Co. Private Limited	335.	55347	M/s. Karani Enclave & Holding Private Limited
303.	70583	M/s. Jalaram Merchants Private Limited	336.	89983	M/s. Karmayogi Agro Products Private Limited
304.	70662	M/s. Jalasree Commerce Private Limited	337.	81306	M/s. Karundia Transport Agency Private Limited
305.	38210	M/s. Jalpaiguri Woodcrafts Private Limited	338.	77667	M/s. Kasturi Projects Private Limited
306.	55197	M/s. Janitor Developers and Sky Scrapers Private Limited	339.	23130	M/s. Kays Construction Co. Private Limited
307.	44662	M/s. Jaya Constructions Private Limited	340.	78266	M/s. K. B. M. Pharmaceutical Private Limited
308.	70615	M/s. Jaydhan Traders Private Limited	341.	27785	M/s. Kentex Chemicals (India) Private Limited
309.	55165	M/s. J. C. D. Stock Brokers Private Limited	342.	72471	M/s. Kennex Barter Private Limited
310.	38389	M/s. Jenson Traders Private Limited	343.	70335	M/s. Keval Sales Private Limited
311.	9283	M/s. Jhunjhunwala Sons Private Limited	344.	17440	M/s. Keymer Bagshawe & Co. India Private Limited
312.	18207	M/s. Jijnasa Agencies Limited	345.	27088	M/s. Keystone Screw & Rivet Private Limited
313.	55129	M/s. Jirat Card Board Mfg. Co. Private Limited	346.	18467	M/s. Khas Jeenagora Coal Co. Private Limited
314.	74166	M/s. J. K. B. Builders Private Limited	347.	29251	M/s. Khedwal Organisation (India) Private Limited
315.	11710	M/s. Jorekuri Coal Co. Private Limited	348.	11724	M/s. Khemka Brothers Private Limited
316.	77792	M/s. J. T. M. Exports Private Limited	349.	76571	M/s. Kitkat Vyapaar Private Limited
317.	55070	M/s. Juhi Suppliers Private Limited	350.	68313	M/s. Kokila Syntex Private Limited
318.	44554	M/s. Jul Chemicals Private Limited	351.	19118	M/s. Konark Minerals Private Limited
319.	72663	M/s. Jupax Vinimay Private Limited	352.	18952	M/s. K. P. Ghosh & Co. Private Limited
320.	89915	M/s. Jupiter Spun Pipes & Casting Private Limited	353.	82581	M/s. Krish Finvest Private Limited
321.	55602	M/s. Jyot Agencies Private Limited	354.	29514	M/s. Krishna Metal & Steel Factory Private Limited
322.	19968	M/s. K. C. Ghosh & Bros Private Limited	355.	78245	M/s. Krishna Oriental Export Private Limited
323.	14095	M/s. K. C. Gupta & Robson Private Limited	356.	55477	M/s. Kritt Securities Consultants Private Limited
324.	12005	M/s. K. C. Pramanic Estates Private Limited			
325.	75301	M/s. K. M. N. Traders & Exporters Private Limited			
326.	14874	M/s. K. N. Himatsingha & Co. Private Limited			
327.	86783	M/s. Kalion Exim Private Limited			
328.	36540	M/s. Kalyaneshwari Products Private Limited			

1	2	3	1	2	3
357.	55693	M/s. Krupp Steels Private Limited	390.	12054	M/s. Manufacturers Agencies Private Limited
358.	68834	M/s. Kshanika Retailer Private Limited	391.	70373	M/s. Manush Commodities Private Limited
359.	74131	M/s. Kuil Distributors Private Limited	392.	70371	M/s. Manush Goods Private Limited
360.	79878	M/s. Kundu Finance & Investment Limited	393.	70372	M/s. Manush Vinimay Private Limited
361.	36636	M/s. L. N. Properties Private Limited	394.	34543	M/s. Mark Publicity Private Limited
362.	29243	M/s. Labco (Foundry Engineering) Private Limited	395.	84283	M/s. Mars Protin Private Limited
363.	78506	M/s. Lagan Vinimay Private Limited	396.	19659	M/s. Mechanical & Electrical Engineering Co. Private Limited
364.	12087	M/s. Laikdih Coal Co. Private Limited	397.	79545	M/s. Medi Bliss Service Centre & Diagnostic Private Limited
365.	9614	M/s. Land & Housing Private Limited	398.	82610	M/s. Meera Food Manufacturers & Distributors Private Limited
366.	70562	M/s. Leader Barter Private Limited	399.	75970	M/s. Meghstress Retailers Private Limited
367.	27285	M/s. Leatherex Private Limited	400.	79831	M/s. Meksin Shipping Co. Private Limited
368.	44511	M/s. Leo Builders Private Limited	401.	77631	M/s. Merc Electronics Private Limited
369.	76166	M/s. Lipzick Construction Private Limited	402.	71135	M/s. Mercury Chemicals and Machinery Company Private Limited
370.	19636	M/s. M. A. Art Press Private Limited	403.	38422	M/s. Metal Spinners (India) Private Limited
371.	19735	M/s. M. I. Miscellany Private Limited	404.	10907	M/s. Mines & Minerals Private Limited
372.	44524	M/s. M. K. Polymers Private Limited	405.	75969	M/s. Minga Barter Private Limited
373.	19863	M/s. M. L. Chatterjee Estate Private Limited	406.	71808	M/s. Mirik Barter Private Limited
374.	18702	M/s. M. P. Works Private Limited	407.	19911	M/s. Mitdut Traders Private Limited
375.	44917	M/s. M. Prabha Pigchems Private Limited	408.	44487	M/s. Mittal Plastiglas Private Limited
376.	52375	M/s. Maa Padma Roadways Private Limited	409.	71460	M/s. Modern Petro Distributors Private Limited
377.	19187	M/s. Madarihat Vaneer & Saw Mills Private Limited	410.	29949	M/s. Modern Surveyors & Assessors Private Limited
378.	79516	M/s. Mag Buildcon Private Limited	411.	44556	M/s. Mohit Finance & Builders Private Limited
379.	19132	M/s. Mahamaya Co. Private Limited	412.	78628	M/s. Montari Consultancy Private Limited
380.	24529	M/s. Mahamaya Engg. Works Private Limited	413.	87130	M/s. Morris Commercial Private Limited
381.	75339	M/s. Mainstream Sales Private Limited	414.	70359	M/s. Mortoo Distributors Private Limited
382.	11593	M/s. Maitra Brothers & Co. Private Limited	415.	74365	M/s. Mount Vyapaar Private Limited
383.	46418	M/s. Malanchal Finance & Investment Company Private Limited	416.	60544	M/s. M. S. R. Trade & Equipment Private Limited
384.	74135	M/s. Mangal Kripa Sales Private Limited	417.	27272	M/s. Mukamit Auto Service Private Limited
385.	73392	M/s. Mangal Tubes Private Limited	418.	79886	M/s. Mukta Developers Private Limited
386.	75521	M/s. Mangalpur Steel Private Limited	419.	73016	M/s. Multiple Chemicals and Coatings Private Limited
387.	52230	M/s. Manipur Tea & Marketing Private Limited	420.	82510	M/s. Multiplex Exports Private Limited
388.	75413	M/s. Manjari Enclave Private Limited			
389.	34539	M/s. Manu Private Limited			

1	2	3	1	2	3
421.	71969	M/s. Multistyle Vyapaar Private Limited	452.	72613	M/s. Pakheru Supplier Private Limited
422.	18024	M/s. N. D. Banerjee & Co. Private Limited	453.	89865	M/s. Palassey Agro Farms Private Limited
423.	52204	M/s. N. E. Buildings Projects Private Limited	454.	8143	M/s. Palasthal Coal Concern Private Limited
424.	71492	M/s. Nadia Cement Works Private Limited	455.	55573	M/s. Pam Exim & Tower Private Limited
425.	78653	M/s. Nagina Suppliers Private Limited	456.	86334	M/s. Pambros Exports Private Limited
426.	77340	M/s. Nagori Tradelink Private Limited	457.	38742	M/s. Pananiviko Export Limited
427.	87657	M/s. Naka Enterprises Private Limited	458.	68909	M/s. Panchjanya Marketing Private Limited
428.	10187	M/s. Nandalal & Co. Private Limited	459.	44551	M/s. Panchmukhi Steel Company Private Limited
429.	10704	M/s. National Union Industries Private Limited	460.	73695	M/s. Parimal Contra Private Limited
430.	34509	M/s. Navneet Builders Private Limited	461.	75625	M/s. Partap Commercial Private Limited
431.	10098	M/s. Netai Lal Dey & Bros. Private Limited	462.	72727	M/s. Patole Agencies Private Limited
432.	28958	M/s. New Asia Rolling Mills Private Limited	463.	38586	M/s. Pavi Sales Private Limited
433.	19102	M/s. New Bengal Cabinet Co. Private Limited	464.	84385	M/s. Pawanputra Food Private Limited
434.	18013	M/s. New Comers Trading Syndicate Private Limited	465.	79569	M/s. P. C. Datamatics Private Limited
435.	19347	M/s. New Golden Art Press Private Limited	466.	70989	M/s. Peacock Tradelink Private Limited
436.	71345	M/s. Nibedita Shilpa Traders Private Limited	467.	44532	M/s. Pelikan Inks India Private Limited
437.	44406	M/s. Nilanjana Housing Company Private Limited	468.	28045	M/s. Peoples Homoeo Laboratory Private Limited
438.	81055	M/s. Nilyog Commercial Private Limited	469.	55325	M/s. Perfect Architects and Builders Private Limited
439.	29568	M/s. Nirsa Transport Private Limited	470.	55216	M/s. Perkins Markets Private Limited
440.	28153	M/s. Nowrang Roy Pravin Kumar (Trading) Private Limited	471.	87981	M/s. Piccadali Holdings Private Limited
441.	44536	M/s. N. P. Sales Private Limited	472.	77283	M/s. Pioneer Hatchery Private Limited
442.	84046	M/s. Nutanganj Lives Stock Farm Private Limited	473.	44730	M/s. Plasma Engineering Private Limited
443.	36072	M/s. Nutri Pharma Private Limited	474.	78493	M/s. Poddar Vinimay Private Limited
444.	55948	M/s. Oceanfresh Foods Private Limited	475.	73640	M/s. Poornima Trading Company Private Limited
445.	84207	M/s. O. M. C. Joint Venture Private Limited	476.	23080	M/s. Portside Engg. Co. Private Limited
446.	31879	M/s. Orient Meccon Private Limited	477.	75975	M/s. Prabhat Tie Up Private Limited
447.	36682	M/s. OKion Products Private Limited	478.	79477	M/s. Pradeep Exports Private Limited
448.	46000	M/s. Overland Electronics Private Limited	479.	44292	M/s. Prag Associate Private Limited
449.	17153	M/s. P. C. Banerjee & Bose Bros. Private Limited	480.	44927	M/s. Pragmatic Erector Private Limited
450.	55986	M/s. P. M. Finvest Private Limited	481.	76300	M/s. Prajapati Engineers & Consultants Private Limited
451.	44499	M/s. Pabs Properties Private Limited	482.	78595	M/s. Pranit Merchants Private Limited
			483.	52322	M/s. Prasad Agro Processors Private Limited
			484.	77703	M/s. Pratibhuti Financial Services Private Limited



1	2	3	1	2	3
485.	17347	M/s. Precision Instrument Corpn. (India) Private Limited	515.	70515	M/s. Ravati Vinimay Private Limited
486.	38719	M/s. Precision Controls Private Limited	516.	75523	M/s. Ray Dyers Private Limited
487.	79426	M/s. Prime Elcap (India) Private Limited	517.	89858	M/s. Raizzle Dazzle Enterprises Private Limited
488.	46116	M/s. Prithwi Compo-Consultancy Private Limited	518.	82181	M/s. R. B. G. Udyog Private Limited
489.	70376	M/s. Priyaranjan Commodities Private Limited	519.	28381	M/s. Reliance Paper (India) Private Limited
490.	76424	M/s. Progressive Towers Private Limited	520.	44293	M/s. Renukapa Iron Industries Private Limited
491.	84064	M/s. Punfin Holdings Private Limited	521.	34261	M/s. Rhythm Steels Private Limited
492.	77391	M/s. Punsuni Commercial Private Limited	522.	87384	M/s. Ritman Concrete Private Limited
493.	38234	M/s. Purbanchal Housing & Credit Co. Private Limited	523.	36913	M/s. Rituraj Private Limited
494.	11766	M/s. Pure Samla Coal Co. Private Limited	524.	77680	M/s. Roha Computech Private Limited
495.	12586	M/s. Pure Tasra Colliery Co. Private Limited	525.	38651	M/s. Rohini India Private Limited
496.	73364	M/s. Pushpanjali Barter Private Limited	526.	30837	M/s. Rohit Vikram Priya Private Limited
497.	34292	M/s. Quswa Manufacturing Udyog Private Limited	527.	29659	M/s. Rohtas Chit Schemes Private Limited
498.	12571	M/s. R. C. Paul Private Limited	528.	85003	M/s. Rollex Food Products Private Limited
499.	37963	M/s. R. R. Trexim Private Limited	529.	34259	M/s. Royal Foods (India) Private Limited
500.	53600	M/s. Rab Digitals Private Limited	530.	55564	M/s. Roymji Engineers Complex (India) Private Limited
501.	44818	M/s. Radiant Builders Private Limited	531.	55249	M/s. Rukmo Arunachal Plantations Private Limited
502.	30361	M/s. Rahmatnagar Savings & Chit Fund Private Limited	532.	53681	M/s. Rx Maxsteam Engineers Private Limited
503.	78651	M/s. Raja Dealers Private Limited	533.	28027	M/s. S. Gupta Biri Manufactures Private Limited
504.	55514	M/s. Raja Promoters & Investors Private Limited	534.	85162	M/s. S. N. D. Supertech Private Limited
505.	44121	M/s. Rajat Marketing Private Limited	535.	44713	M/s. S. V. Elektronik Systems Private Limited
506.	52910	M/s. Rajkamal Impex & Commercials Private Limited	536.	73803	M/s. S. D. Castings & Forgings Private Limited
507.	10888	M/s. Rally Engineering Works Private Limited	537.	31527	M/s. S. P. Castings Private Limited
508.	11172	M/s. Rama Investors & Traders Private Limited	538.	44288	M/s. Sadhu Machinery & Equipment (India) Private Limited
509.	72561	M/s. Ramnik Export Private Limited	539.	89992	M/s. Sadhvi Engineering Private Limited
510.	11923	M/s. Ramsaran Das & Rathor Private Limited	540.	30726	M/s. Safdar Private Limited
511.	77250	M/s. Ranaghat Export Private Limited	541.	34565	M/s. Salome Holdings Private Limited
512.	24912	M/s. Rani Products Private Limited	542.	55434	M/s. Samusukti Trading Private Limited
513.	81077	M/s. Ranjan Electronics Private Limited	543.	27165	M/s. Sanam Engineers Private Limited
514.	19411	M/s. Rare Mineral & Mica Mining Co. Private Limited	544.	55868	M/s. Sandeep Oil & Seed Private Limited
			545.	55858	M/s. Sankatmochan Distributors Private Limited

1	2	3	1	2	3
546.	19621	M/s. Santosh Sugar Private Limited	576.	81107	M/s. Shree Ganesh Vyapaar Private Limited
547.	12280	M/s. Sanyal & Co. Private Limited	577.	37754	M/s. Shree Giriraj Trading & Investment Private Limited
548.	74136	M/s. Sarajevo Comotrade Private Limited	578.	52931	M/s. Shree Hanuman Trading & Inv. Co. Private Limited
549.	29612	M/s. Saraswati Savings & Chit Fund Co. Private Limited	579.	10938	M/s. Shree Khetawat Oil & Rice Mills Private Limited
550.	31489	M/s. Sardar Furan and Rajnikant Private Limited	580.	30357	M/s. Shree Shivdham Steel Private Limited
551.	79532	M/s. Sarvamangala Heemghar Private Limited	581.	44189	M/s. Shreema Properties Private Limited
552.	10245	M/s. Satanarian Shyamsundar Private Limited	582.	55857	M/s. Shri Mazda Finance & Trading Company Private Limited
553.	78001	M/s. Sati Tie Up Private Limited	583.	72328	M/s. Siddharth Paints and Coatings Private Limited
554.	27957	M/s. Sayanti Iron Foundry Private Limited	584.	87032	M/s. Sierra Estates Private Limited
555.	66380	M/s. Scope-N-Rolly Exports Private Limited	585.	75171	M/s. Sigma Courier & Consultancy Services Private Limited
556.	72729	M/s. Scranel Commerce Private Limited	586.	72507	M/s. Sigma Infotech Private Limited
557.	35548	M/s. Seaqueen Shipping Private Limited	587.	72615	M/s. Sikaria Barter Private Limited
558.	14389	M/s. Selected Chora Coal Co. Private Limited	588.	19506	M/s. Silver Screen Corpn. Private Limited
559.	19298	M/s. Selected Pathardih Coal Co. Private Limited	589.	81981	M/s. Simran Tradings Private Limited
560.	73453	M/s. Selehium Agents Private Limited	590.	46381	M/s. Sinchan Aquas (India) Private Limited
561.	10934	M/s. Senapati Bros. Private Limited	591.	72141	M/s. Singhal Food's Private Limited
562.	55984	M/s. Senior Management Consultants Private Limited	592.	55435	M/s. Sipra Grease Manufacturing Company Private Limited
563.	19565	M/s. Sethia & Co. Private Limited	593.	29902	M/s. Six Stars Sales Private Limited
564.	31093	M/s. Sett Estate Development & Construction Co. Private Limited	594.	38744	M/s. Skei (India) Private Limited
565.	27281	M/s. Seven Seas Chemicals Private Limited	595.	68025	M/s. S. L. C. Share Brokers Private Limited
566.	84321	M/s. Shahabadi Films Private Limited	596.	75386	M/s. Softstar Systems Private Limited
567.	76199	M/s. Shakti Spinning Company Private Limited	597.	11098	M/s. Sonaley Pineapple Producers Private Limited
568.	82100	M/s. Shakun Finex Private Limited	598.	79383	M/s. Sopan Consortium Private Limited
569.	26818	M/s. Shambazar Service Station Private Limited	599.	36135	M/s. Sophistech Engineering Works Private Limited
570.	76214	M/s. Shan Stock Hunters Private Limited	600.	75972	M/s. Soportline Agency Private Limited
571.	26387	M/s. Shau & Co. Manufacturers Private Limited	601.	11264	M/s. Southend Engineering Co. Private Limited
572.	10765	M/s. Sheosahaimull Hiralall Private Limited	602.	29907	M/s. Southern Tankers Private Limited
573.	71976	M/s. Shilpi Overseas Private Limited	603.	38208	M/s. Soyuz Electricals Private Limited
574.	79072	M/s. Shivali Tieup Private Limited	604.	85168	M/s. Speed Bird Financial Services Private Limited
575.	73696	M/s. Shivpujan Vanijya Private Limited	605.	29191	M/s. Spur Pharmaceuticals Private Limited

1	2	3	1	2	3
606.	44075	M/s. Sreema Engineering Company Private Limited	634.	70483	M/s. Sutlaj Merchants Private Limited
607.	9646	M/s. Sreeram Chandra Sinha Roy & Co. Private Limited	635.	44149	M/s. Suyes Developers Private Limited
608.	70328	M/s. Sridhara Commodeal Private Limited	636.	73591	M/s. S. V. J. Finance & Capital Services Private Limited
609.	70327	M/s. Srirupayan Commercial Private Limited	637.	72191	M/s. Swami Sales Private Limited
610.	38435	M/s. S. R. M. Industries Private Limited	638.	89913	M/s. Swarna Kalash Commercial Private Limited
611.	10920	M/s. Star Minerals Syndicate Private Limited	639.	87718	M/s. Swift Carriage & Trade Services Private Limited
612.	23525	M/s. Stavco Automobiles Private Limited	640.	84332	M/s. Synchron Consultancy Services Private Limited
613.	38644	M/s. Stuard Marketing Consultants Private Limited	641.	89946	M/s. Tanusmita Minerals Private Limited
614.	52889	M/s. Subarna Investment & Auto Savings Company Private Limited	642.	19901	M/s. Tara Colliery Private Limited
615.	31792	M/s. Subasana Cold Storage & Ice Industries Private Limited	643.	46267	M/s. Taxon Development Consultants Private Limited
616.	55556	M/s. Subham Vyapar & Vanijya Private Limited	644.	31898	M/s. Tea Land Beverages Private Limited
617.	19017	M/s. Suburban (Ali-Tolly) Properties Private Limited	645.	36148	M/s. Techno Steel India Private Limited
618.	27127	M/s. Sudha Finance & Marketing Agency Private Limited	646.	37069	M/s. Teja Seema India Private Limited
619.	29640	M/s. Sujala Agrochem Private Limited	647.	44533	M/s. Thakkars Construction Private Limited
620.	81263	M/s. Sujata Tracom Private Limited	648.	82112	M/s. The Ganges Fabricators & Engineers Private Limited
621.	87951	M/s. Sumangal Sarees Private Limited	649.	10320	M/s. The Methodist Church In Northern India Trust Association
622.	71809	M/s. Sumanshree Marketing Private Limited	650.	79570	M/s. Tides India Private Limited
623.	71916	M/s. Sumi Aquatic (India) Private Limited	651.	52275	M/s. Tirupati Balaji Road, Carriers Private Limited
624.	72527	M/s. Suneps Tradelinks Private Limited	652.	29598	M/s. Tirupati Chit Fund Co. Private Limited
625.	55021	M/s. Suniti Trafim's Private Limited	653.	44107	M/s. Tiwari Brothers Construction Private Limited
626.	55732	M/s. Suniyojit Finvest & Credit Private Limited	654.	76257	M/s. Top People Advisory Private Limited
627.	23428	M/s. Sunshade Co. Private Limited	655.	77218	M/s. Topcone Electronics Private Limited
628.	29997	M/s. Super Carcare Products Private Limited	656.	70304	M/s. Toplight Sales Private Limited
629.	44809	M/s. Super Ferro Industries Private Limited	657.	44808	M/s. Toppers Cosmetics India Private Limited
630.	89938	M/s. Supreme Welding Equipments Private Limited	658.	44097	M/s. Tora Chem Private Limited
631.	78952	M/s. Supriya Traders Private Limited	659.	66406	M/s. Trailer Textiles Private Limited
632.	81143	M/s. Survi Consultants Private Limited	660.	53708	M/s. Trend Technocrafts & Technologist Private Limited
633.	71051	M/s. Surya Techno Soft Private Limited	661.	79544	M/s. Trident Synthetics Private Limited
			662.	78924	M/s. Trio Trading Private Limited

1	2	3
663.	55763	M/s. Trishna Managements Private Limited
664.	44230	M/s. Tristar Constructions Private Limited
665.	78645	M/s. Triton Tradelink Private Limited
666.	74022	M/s. Tulip Medics Private Limited
667.	19516	M/s. Tulsidas & Co. Private Limited
668.	75123	M/s. Tumpa Trading Private Limited
669.	77559	M/s. U. B. Commercial Private Limited
670.	11260	M/s. U. N. Dhur & Sons Private Limited
671.	17442	M/s. Uday Nagar Private Limited
672.	72631	M/s. Udayan Sea Foods Private Limited
673.	63838	M/s. Uma Himghar Private Limited
674.	38761	M/s. Umesh Investment Private Limited
675.	34583	M/s. U. M. T. Minerals Enterprises Private Limited
676.	85129	M/s. Unicorn Travel Services Private Limited
677.	28827	M/s. Unimagazines Private Limited
678.	44098	M/s. Unique Promoters Private Limited
679.	73383	M/s. Uniset Press Inks Private Limited
680.	79755	M/s. Upkar Holdings Private Limited
681.	87038	M/s. Uttaran Marketing Private Limited
682.	75977	M/s. Vakreshwar Dealers Private Limited
683.	19661	M/s. Varma Cutchi Supply Ing. Co. Private Limited
684.	74042	M/s. Vashistha Finance Private Limited
685.	74808	M/s. Vertex Dealer Private Limited
686.	44916	M/s. Vibgyor Leather Finishes Private Limited
687.	44555	M/s. Victor Credit & Constructions Private Limited
688.	11478	M/s. Victory Construction Co. Private Limited
689.	77493	M/s. Videocity Electricals Private Limited
690.	20485	M/s. Vidyamandir Press Private Limited
691.	44008	M/s. Vidyut Traders Private Limited
692.	44453	M/s. Vijaya Minerals Private Limited
693.	79304	M/s. Vinayaka Management Private Limited
694.	55019	M/s. Vindhvasini Sales Agency Private Limited
695.	46079	M/s. Vinod Baid & Associates Private Limited

1	2	3
696.	44645	M s. V. J. P. Food Products Private Limited
697.	75526	M s. Vivekananda Tyres Traders Private Limited
698.	55733	M s. V. S. S. Consulting Private Limited
699.	9606	M s. Waldies Zinc Sgments Private Limited
700.	73642	M s. Wall Street Commerce Private Limited
701.	55783	M s. Wave O Print Private Limited
702.	52200	M s. Wellman Pharmaceuticals Private Limited
703.	78126	M s. White Tiger Tours & Travels Private Limited
704.	78943	M s. Winsome Tradelink Private Limited
705.	55486	M s. Winsum Dicount Card Private Limited
706.	89912	M s. Yamamoto Chandra Khakhigori Private Limited
707.	70365	M s. Yashman Dealers Private Limited
708.	78916	M s. Zessora Tradelinks Private Limited
709.	66407	M s. Zither Trading Private Limited
710.	44133	M s. Zodiac Lift Private Limited

## Annexure 'A'

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15255	M/s. Eton Press Private Limited
2.	30619	M s. Everest Hardware Private Limited
3.	77780	M s. Everrise Products Private Limited
4.	81006	M s. Evershine Agencies Private Limited
5.	64067	M s. Everytouch Vinimay Private Limited
6.	44508	M s. Excel Visions Private Limited
7.	38525	M s. Exclusive Marketing & Services Private Limited
8.	54154	M s. Executive Couriers & Cargo Private Limited
9.	66446	M s. Executive Electronics Equipments Private Limited
10.	52712	M s. Exim Scrips Exchange Private Limited
11.	52873	M s. Exim Scrips Private Limited
12.	30414	M s. Expion Petrochem Private Limited
13.	17642	M s. Factories Private Limited
14.	76882	M s. Falcom Vintrade Private Limited

1	2	3	1	2	3
15.	74759	M/s. Federal Vanijya Private Limited	46.	70508	M/s. Goodhope Marketings Private Limited
16.	70856	M/s. Feozz Commercial Private Limited	47.	77366	M/s. Goodward Commercial Private Limited
17.	79242	M/s. Fineline Agencies Private Limited	48.	32974	M/s. Goombira Warehouse Private Limited
18.	54145	M/s. Floriculture Holdings and Business Private Limited	49.	10882	M/s. Gopal Trading Co. Private Limited
19.	18766	M/s. Flower & Flora Private Limited	50.	77497	M/s. Gopala Auto Traders Private Limited
20.	54577	M/s. Flying Viniyog & Commercial Private Limited	51.	55354	M/s. Gope Movies Private Limited
21.	72930	M/s. Frazer Sale & Services Private Limited	52.	55405	M/s. Gopi Silk Private Limited
22.	77296	M/s. Fribson Projects India Private Limited	53.	16510	M/s. Gopiballavpur Pathachari Sangaha Private Limited
23.	64225	M/s. Frontier Tradelink Private Limited	54.	44459	M/s. Gour Packaging Industries Private Limited
24.	67457	M/s. Fullbloom Distributors Private Limited	55.	15611	M/s. Great India Suppliers Private Limited
25.	32400	M/s. G. P. Gupta & Co. (Agencies) Private Limited	56.	18028	M/s. Great National Trading Co. Private Limited
26.	30621	M/s. G. C. Chemicals Private Limited	57.	16070	M/s. Green Valley Farm & Fisheries Private Limited
27.	73581	M/s. G. M. H. Enterprises Private Limited	58.	30043	M/s. Greenland Export Private Limited
28.	60478	M/s. Gainwell Commercial Private Limited	59.	77439	M/s. Grindwell Traders Private Limited
29.	44867	M/s. Galaxy Impex Private Limited	60.	52665	M/s. GSA Trading & Finance Private Limited
30.	60706	M/s. Ganapati Plaza Private Limited	61.	30069	M/s. Gupta Needle Industries Private Limited
31.	38245	M/s. Ganesh Apartment Private Limited	62.	78173	M/s. Guruvayoor Devlocon Private Limited
32.	60757	M/s. Ganga Finesse Private Limited	63.	52622	M/s. Gutgutia Commercial & Engineers Private Limited
33.	20612	M/s. Ganges Plywood Fmg. Co. Private Limited	64.	15631	M/s. H. D. Mukherjee & Co. Private Limited
34.	52648	M/s. Gauhati Indore Roadways Private Limited	65.	20133	M/s. H. K. Laha Private Limited
35.	38872	M/s. Gemco Business Private Limited	66.	66025	M/s. Haldia Shipping Agencies Private Limited
36.	52136	M/s. Gemex Lefin Private Limited	67.	33008	M/s. Hallmark Exports Private Limited
37.	81297	M/s. Gemus Dealers Private Limited	68.	32437	M/s. Haralalka Scrap Processing Company Private Limited
38.	28920	M/s. General Appliances Private Limited	69.	53042	M/s. Hariom Commerce & Credit Private Limited
39.	30937	M/s. General Equipments (West Bengal) Private Limited	70.	78172	M/s. Hariom Vintrade Private Limited
40.	29348	M/s. Geotechnique (India) Private Limited	71.	29530	M/s. Harirampur Concrete Constructions Private Limited
41.	37506	M/s. Global Infratech Private Limited	72.	74432	M/s. Harsh Tradevin Private Limited
42.	54932	M/s. Glory Development & Management Consultants Private Limited	73.	37035	M/s. Hassarams Impex Trading Group Private Limited
43.	27542	M/s. GMEW Auto Engg. Works Private Limited	74.	46946	M/s. Helots Transport Private Limited
44.	31001	M/s. Golden Typewriter & Equipments Private Limited	75.	76451	M/s. Hi Tech Wires Private Limited
45.	70845	M/s. Gomantuc Engineers Private Limited			

1	2	3	1	2	3
76.	33753	M/s. Hi-Line Products Private Limited	104.	16994	M/s. Indo China Trading Co. Private Limited
77.	32085	M/s. High Duty Metals Private Limited	105.	28993	M/s. Indranil Finance Centre Private Limited
78.	32438	M/s. Himalaya Construction Company Private Limited	106.	76658	M/s. Indranil Projects Private Limited
79.	74179	M/s. Himalaya Vincom Private Limited	107.	16066	M/s. Industrial Gardeners Private Limited
80.	20207	M/s. Himkalyan Works Private Limited	108.	36547	M/s. Inimax Traders Private Limited
81.	66498	M/s. Himsagar Tracon Private Limited	109.	79980	M/s. Initial Finance Private Limited
82.	18568	M/s. Hindusthan Scientific Chemical Industries Private Limited	110.	36593	M/s. Inmare Consultants Private Limited
83.	51531	M/s. Homely Savings & Investment Company Private Limited	111.	77357	M/s. Innovative Devlocon Private Limited
84.	36208	M/s. Hopas Consultants Private Limited	112.	53323	M/s. Inset Trading Private Limited
85.	29435	M/s. Hospital Appliances Manufacturing Co. India Private Limited	113.	20787	M/s. International Associates Private Limited
86.	31353	M/s. Howrah Shyama Sree Talkies Private Limited	114.	15473	M/s. International Publishing House Private Limited
87.	60692	M/s. Human Management Consultants Private Limited	115.	61527	M/s. Intras Com Ware Private Limited
88.	38342	M/s. I. M. C. A. Machinery Manufacturing Private Limited	116.	20670	M/s. Investment & Credit Corpn Private Limited
89.	36739	M/s. I. R. I. (Food & Chemical) Private Limited	117.	80149	M/s. Isha Graphics Private Limited
90.	53748	M/s. I. S. Trading & Holding Private Limited	118.	18482	M/s. Ishan Chandra Chatterjee & Son Private Limited
91.	32402	M/s. Ichor Paints Private Limited	119.	33113	M/s. Isheeka Investment and Commercial Co. Private Limited
92.	35489	M/s. Icon Consultants Private Limited	120.	55712	M/s. Ishwar Sales & Suppliers Private Limited
93.	52643	M/s. IJS Trading & Finance Private Limited	121.	17848	M/s. IICO Private Limited
94.	51655	M/s. Imperial Plastic Works Private Limited	122.	12798	M/s. J. Agarwala & Sons Private Limited
95.	70923	M/s. Impex India Trading & Manufacturing Private Limited	123.	32344	M/s. J T Investment Private Limited
96.	38301	M/s. Incotech Electronics Private Limited	124.	87304	M/s. J. M. Electronics Private Limited
97.	17983	M/s. India Exchange Corpn (1949) Private Limited	125.	20197	M/s. Jagadish Investment Private Limited
98.	12312	M/s. India Industrial Works Private Limited	126.	70619	M/s. Jagannath Barter Private Limited
99.	18729	M/s. India Metal Mfg. Co. Private Limited	127.	52634	M/s. Jagjivan Enterprises Private Limited
100.	12545	M/s. Indian Economic & Press Private Limited	128.	80804	M/s. Jai Ma Kali Auto Finance Private Limited
101.	12039	M/s. Indian Economist Private Limited	129.	35960	M/s. Jain & Agarwal Associates Private Limited
102.	12528	M/s. Indian General Commerce Private Limited	130.	27360	M/s. Jain Aluminising Works Private Limited
103.	16445	M/s. Indian Scientific Accessories Company Private Limited	131.	70337	M/s. Jaradha Merchants Private Limited
			132.	60577	M/s. Janadesh Savings & Finance Limited
			133.	79220	M/s. Jashmine Tracon Private Limited

1	2	3	1	2	3
134.	70121	M/s. Jatau Comodeal Private Limited	165.	33479	M/s. Kanchanjungha Electronics Private Limited
135.	12356	M/s. Jatia Industries Private Limited	166.	80877	M/s. Kanocean Export Private Limited
136.	17295	M/s. Jatiya Silponnayano Punorbasati Samity Private Limited	167.	15352	M/s. Kanoria General Dealers Private Limited
137.	28057	M/s. Jay Pee Minerals & Chemicals Private Limited	168.	29589	M/s. Kartisa India Private Limited
138.	50764	M/s. Jee World Vide Private Limited	169.	44807	M/s. Kashmir Shawl Bhandar Private Limited
139.	20353	M/s. Jeenagarh (East Bararee) Colliery Co. Private Limited	170.	66307	M/s. Kasturi Vanijya & Viniyog Private Limited
140.	38803	M/s. Jessore Comb Industries Private Limited	171.	36676	M/s. Kathadia Techno-Engineering Private Limited
141.	80397	M/s. Jewelrock Commotrade Private Limited	172.	70974	M/s. Kepler Suppliers Private Limited
142.	32219	M/s. Jhargram Ceramics Private Limited	173.	36713	M/s. Keyning Chrome & Chemicals Private Limited
143.	18154	M/s. Jhargram Transport Private Limited	174.	79031	M/s. Khattry Stock Broking Private Limited
144.	89864	M/s. JSP Constructions Private Limited	175.	64029	M/s. Khatu Agro Products Private Limited
145.	44554	M/s. Jul Chemicals Private Limited	176.	79265	M/s. Kihara Aqua Private Limited
146.	72668	M/s. Jupax Distributors Private Limited	177.	54439	M/s. K. K. Cables India Private Limited
147.	72660	M/s. Jupax Sales & Supply Private Limited	178.	44117	M/s. Ko-Hi-Noor Food Industries Private Limited
148.	29985	M/s. Jupiter Electricals Private Limited	179.	29646	M/s. Kodarma Service Station Private Limited
149.	35894	M/s. Jyoti Developments Private Limited	180.	29423	M/s. Kohinoor Overseas Private Limited
150.	29285	M/s. Jyoti Electronics Private Limited	181.	84085	M/s. Kolay Biscuit Company 1996 Private Limited
151.	88612	M/s. Jyotsna Agro Products Private Limited	182.	79133	M/s. Konark Lodge Private Limited
152.	30699	M/s. K. K. Agencies Private Limited	183.	55854	M/s. Konica Leasing Private Limited
153.	09499	M/s. K. K. Saha & Co. Private Limited	184.	60852	M/s. Konsumex Microsystems Private Limited
154.	44330	M/s. K. B. S. Foam Private Limited	185.	32349	M/s. Kothary Ispat Private Limited
155.	77171	M/s. K. G. N. Fishery Project Private Limited	186.	87908	M/s. KPS Printers Private Limited
156.	46481	M/s. K. M. Lodha Traders Private Limited	187.	53938	M/s. Krishna Akash Mercantile Private Limited
157.	66331	M/s. K. R. Management Private Limited	188.	55335	M/s. Krishna Apparels Private Limited
158.	18150	M/s. Kaamkartas Private Limited	189.	53239	M/s. Krishna Kamalabala Credit & Holdings Private Limited
159.	36578	M/s. Kadex India Private Limited	190.	20513	M/s. Krishna Nagar Motor Transport Private Limited
160.	75511	M/s. Kailash Tea Private Limited	191.	19250	M/s. Krishna Sree Private Limited
161.	19907	M/s. Kalyan Pharmaceuticals Private Limited	192.	52852	M/s. Kubasa Techno Kraft Impex Private Limited
162.	54148	M/s. Kamal Construction & Enclave Private Limited			
163.	70984	M/s. Kamalpur Merchants Private Limited			
164.	66096	M/s. Kamrup Tie-up Private Limited			

1	2	3	1	2	3
193.	77328	M/s. Kuber Vinimay Private Limited	225.	17419	M.s. Majumdar Brothers India Private Limited
194.	27510	M/s. Kumarghat Paper Industries Private Limited	226.	35714	M.s. Maks Therm Foundry Private Limited
195.	34534	M/s. Kunal Products Private Limited	227.	77180	M.s. Malancha Tea Company Private Limited
196.	29399	M/s. Kwaliti Hotels Private Limited	228.	15293	M.s. Mall Brothers Private Limited
197.	35032	M/s. Latif Sons (India) Private Limited	229.	44825	M.s. Mamta Coal & Coke Private Limited
198.	17900	M/s. Laury & Co. Private Limited	230.	70599	M.s. Manchaahdhan Distributors Private Limited
199.	37889	M/s. Leader Artex Private Limited	231.	76577	M.s. Mangolee Comotrade Private Limited
200.	80218	M/s. Legal Information and Data Processing Systems Private Limited	232.	70065	M.s. Manichandan Tie-up Private Limited
201.	55319	M/s. Leo Impex Private Limited	233.	70211	M.s. Manjan Sales Private Limited
202.	70758	M/s. Libra Equipref Services Private Limited	234.	52639	M.s. Manju Finance Private Limited
203.	52620	M/s. Life-Diamond Commercial Finvest India Private Limited	235.	70201	M.s. Manokamna Sales Private Limited
204.	87647	M/s. Lila Auto Finance Private Limited	236.	44240	M.s. Mantri Financial Consultants Private Limited
205.	17162	M/s. Lime White Industries Private Limited	237.	43639	M.s. Martix Organics Private Limited
206.	78023	M/s. Livewell Enterprises Private Limited	238.	52630	M.s. Mashitona Hotels India Private Limited
207.	77777	M/s. Lokarpan Commerce Private Limited	239.	72586	M.s. Mass Media Sales Private Limited
208.	80946	M/s. Lokenath Consultancy Private Limited	240.	20914	M.s. Mastertons Private Limited
209.	72211	M/s. M. B. Financial Research Private Limited	241.	53286	M.s. Mataji Apartment Company Private Limited
210.	70919	M/s. M. B. Construction Private Limited	242.	70936	M.s. Maverick Consultants Private Limited
211.	37515	M/s. M. K. S. Operators Private Limited	243.	35198	M.s. Maxworth Properties Private Limited
212.	52680	M/s. M. T. C. Exports Private Limited	244.	37205	M.s. Mayuk (Freighters) Private Limited
213.	70797	M/s. Maasfricht Commerce Private Limited	245.	37681	M.s. Mayurakshi Construction Private Limited
214.	66030	M/s. Mabco Travin Private Limited	246.	30657	M.s. Megegor & Balfour (India) Limited
215.	12392	M/s. Machineries & Stores Private Limited	247.	30231	M.s. Meattles Trading Private Limited
216.	75150	M/s. Madhusudan Himghar Private Limited	248.	66583	M.s. Medini Enterprises Private Limited
217.	77333	M/s. Madurai Barter Private Limited	249.	82985	M.s. Megal Screen Advertising & Marketing Private Limited
218.	77820	M/s. Mahadhan Promarketing Private Limited	250.	84032	M.s. M.s. Megh Dhanush Chemicals Private Limited
219.	28357	M/s. Mahajan Engg. Works Private Limited	251.	36491	M.s. Mehra Electrical Private Limited
220.	26623	M/s. Mahalderam Tea Estate Private Limited	252.	32186	M.s. Meltronics Private Limited
221.	78076	M/s. Mahamaya Tracon Private Limited	253.	38960	M.s. Metcon Castings Private Limited
222.	80855	M/s. Maharaja Marketing Private Limited	254.	28968	M.s. Metropolitan Wire Industries Private Limited
223.	51590	M/s. Maharashtra Green Fields Private Limited			
224.	74156	M/s. Mahasweta Vanijya Private Limited			



1	2	3	1	2	3
255.	66586	M/s. Mezzo Merchants Private Limited	288.	73802	M/s. Neelima Plantations & Resorts Private Limited
256.	80336	M/s. Micro Dimensions Private Limited	289.	20584	M/s. Neo Progressive Pictures Private Limited
257.	70597	M/s. Middleton Vinimay Private Limited	290.	26468	M/s. Neo-Print Private Limited
258.	66064	M/s. Mina Enterprises Private Limited	291.	32451	M/s. Neuin (Rubber) Private Limited
259.	30411	M/s. Mira Tailoring Works Private Limited	292.	15754	M/s. New Halftone Private Limited
260.	44758	M/s. Mistry Electronics Private Limited	293.	53992	M/s. New United Engineers Private Limited
261.	79337	M/s. MLS Clinic Centre Private Limited	294.	27099	M/s. Nibbon Engineering Industries Private Limited
262.	32911	M/s. Modway Hotels Housing & Industrial Estate Private Limited	295.	33950	M/s. Niccolite Private Limited
263.	35097	M/s. Modak Cold Storage Private Limited	296.	38433	M/s. Nilachal Wires Private Limited
264.	28343	M/s. Monalisa Chemical Industries Private Limited	297.	84323	M/s. Nine Star Novelties Private Limited
265.	66955	M/s. Monorate Suppliers Private Limited	298.	36459	M/s. Nir-Vin Electricals Private Limited
266.	55718	M/s. Monotona Marketing Private Limited	299.	73188	M/s. Nirikshan Barter Private Limited
267.	66000	M/s. Mortar Merchants Private Limited	300.	70788	M/s. Nissim Marketing Private Limited
268.	34525	M/s. Mukherjee Alloys Private Limited	301.	54248	M/s. Nook Fiscal Private Limited
269.	72443	M/s. Multi Style Marketing Private Limited	302.	33108	M/s. North Benal Research Clinic Co. Private Limited
270.	77959	M/s. Murshidabad Construction Consortium Private Limited	303.	20771	M/s. Northern Paper House Private Limited
271.	79983	M/s. Mystic Finance Private Limited	304.	37782	M/s. Northern Pharmaceuticals Private Limited
272.	15768	M/s. N. Bose & Co. Private Limited	305.	54334	M/s. Novex Mercantile Private Limited
273.	28909	M/s. N. Banerjee & Co. Private Limited	306.	72634	M/s. Novonika Commodities Private Limited
274.	28891	M/s. N. K. Chakrabarty Private Limited	307.	70708	M/s. NPS Roadways Private Limited
275.	17604	M/s. N. L. Roy & Sons Private Limited	308.	64006	M/s. NRI Solar Thermal Private Limited
276.	19725	M/s. N. Maitra Bros & Co. Private Limited	309.	74360	M/s. Nucleus Vyapaar Private Limited
277.	30061	M/s. Naaz Finance (Chit) & Trading Co. Private Limited	310.	51473	M/s. Nursingh Trading & Investment Private Limited
278.	20794	M/s. Nabin Chandra Das & Sons Private Limited	311.	43657	M/s. O. P. A. Financial Services Private Limited
279.	20533	M/s. Nadia Sampad Private Limited	312.	54245	M/s. O. Y. H. Finvest Private Limited
280.	36773	M/s. Najat Impexp Private Limited	313.	79294	M/s. Omniam Fincon Private Limited
281.	70204	M/s. Nand Tie-up Private Limited	314.	43656	M/s. OPA Supply & Services Private Limited
282.	52767	M/s. Narmada Promoters Private Limited	315.	44962	M/s. Open Air Communications Private Limited
283.	79460	M/s. Nasiva Finance & Investments Private Limited	316.	31551	M/s. OPS Publishers Private Limited
284.	18055	M/s. National Chamois Work (1949) Private Limited	317.	77266	M/s. Opulent Dealers Private Limited
285.	75779	M/s. Naveen Tradecon Private Limited	318.	79317	M/s. Orbital Agencies Private Limited
286.	31571	M/s. N. D. M. Co. Private Limited			
287.	82990	M/s. Neelambar Engineers Private Limited			

1	2	3	1	2	3
319.	31167	M/s. Orient Micro Abrasives Limited	348.	17364	M/s. Pichri Colliery Co. Private Limited
320.	79017	M/s. Oriental Commerce Private Limited	349.	20368	M/s. Pioneer Coke & Coal Private Limited
321.	29484	M/s. Oriental Transformers Co. Private Limited	350.	66447	M/s. Pismire Sales Private Limited
322.	24288	M/s. Oscar Engineering Works Private Limited	351.	72317	M/s. Piyush Gases Private Limited
323.	44362	M/s. P. E. Exports Private Limited	352.	28547	M/s. Plastic Extruders (India) Private Limited
324.	16407	M/s. P. P. Pathak & Sons Private Limited	353.	29248	M/s. Polygon Engineers Private Limited
325.	66044	M/s. Paas Salt Processing Private Limited	354.	75973	M/s. Poorash Merchants Private Limited
326.	35240	M/s. Paf Products Private Limited	355.	15309	M/s. Power Battery & Plate Mfg Co. Private Limited
327.	72613	M/s. Pakheru Supplier Private Limited	356.	70956	M/s. Prabhudhan Suppliers Private Limited
328.	38639	M/s. Panchkoti Agriculture & Miners (India) Private Limited	357.	09417	M/s. Prakash & Co. Private Limited
329.	53399	M/s. Panchsheel Tower Private Limited	358.	30607	M/s. Pramod Steel Industries Private Limited
330.	51893	M/s. Panchwati Trade & Finance Private Limited	359.	66081	M/s. Pranitwa Sandhan & Proyog Private Limited
331.	30266	M/s. Pandab Savings & Chit Scheme Private Limited	360.	44629	M/s. Prayog Advertising Private Limited
332.	44138	M/s. Pankaj Movies Private Limited	361.	32803	M/s. Precision Electronics Private Limited
333.	20664	M/s. Paper Mill Suppliers Private Limited	362.	61433	M/s. Prelinary Commercial Private Limited
334.	33368	M/s. Paramount Fibre Glass Industries Private Limited	363.	31586	M/s. Premier Holdings Private Limited
335.	35906	M/s. Parasmani Investment Co. Private Limited	364.	9510	M/s. Prima Films (1938) Private Limited
336.	30294	M/s. Parbati Savings & Investment (Chit) Co. Private Limited	365.	36566	M/s. Prity Shares & Securities Private Limited
337.	52715	M/s. Parijat Land & Housing Company Private Limited	366.	88514	M/s. Priyanti Construction Private Limited
338.	38552	M/s. Parkar Trades Private Limited	367.	32361	M/s. Professional Fabrication & Manufacturing Co. (India) Private Limited
339.	38774	M/s. Parker Savings & Investment Private Limited	368.	79120	M/s. Progressive Card Board Box Private Limited
340.	80530	M/s. Patel House Private Limited	369.	53411	M/s. Prolific General Hire Purchase and Housing Finance Private Limited
341.	54213	M/s. Pathar Pratima Shib Shakti Ice Factory Private Limited	370.	44802	M/s. Prostuti Hire Purchase & Finance Private Limited
342.	29631	M/s. Paul Chowdhury & Associates Private Limited	371.	66475	M/s. PRP Investment Company Private Limited
343.	51454	M/s. Paul Oil Fitting Private Limited	372.	67233	M/s. Puffco Sales Private Limited
344.	54271	M/s. PCI Technology Private Limited	373.	30650	M/s. Pullman Exports Private Limited
345.	60811	M/s. Perfect Vyapaar Private Limited	374.	84497	M/s. Pullock Mercantiles Private Limited
346.	46414	M/s. Petal Impex Private Limited	375.	32268	M/s. Purbani Paper Mills Private Limited
347.	82993	M/s. Petrushka Trading Private Limited	376.	12586	M/s. Pure Tasra Colliery Co. Private Limited
			377.	28289	M/s. Purulia Refractories & Ceramics Private Limited

1	2	3	1	2	3
378.	17939	M/s. Purushottam Ramji & Sons Private Limited	407.	31305	M/s. RDG Press Private Limited
379.	37851	M/s. Quali Photo Process Private Limited	408.	38787	M/s. Redbank Tea Exports Private Limited
380.	36808	M/s. Quality Builders & Promoters Private Limited	409.	81237	M/s. Reema Paints Private Limited
381.	37858	M/s. Quality Diesel Accessories & Engineers Private Limited	410.	37216	M/s. Regal Advertising Service Private Limited
382.	81320	M/s. Quantum Exports Private Limited	411.	43382	M/s. Regency Bearings Private Limited
383.	15549	M/s. Queen Stationery Stores Private Limited	412.	32429	M/s. Regulators (India) Private Limited
384.	44337	M/s. R. C. M. Commercial Private Limited	413.	36769	M/s. Rekon Pharmaceuticals Private Limited
385.	36463	M/s. R. K. Rolling Mills Private Limited	414.	26575	M/s. Reliance Threems (Distributors) Private Limited
386.	60441	M/s. R. M. Technoplast & Engineering Private Limited	415.	67881	M/s. Renovision Tracon Private Limited
387.	38996	M/s. Radha Niket Apartments Private Limited	416.	30681	M/s. Repute Finance & Savings Private Limited
388.	89805	M/s. Radhe Alum Chemicals Private Limited	417.	70906	M/s. Ricochet Sales Private Limited
389.	33395	M/s. Raghavraj Products Private Limited	418.	70878	M/s. Ricochet Vyapaar Private Limited
390.	38792	M/s. Rahul Sinters Private Limited	419.	70876	M/s. Ricon Vyapaar Private Limited
391.	53004	M/s. Raikut Tea Private Limited	420.	79334	M/s. Riddhi Distribution Centre Private Limited
392.	70889	M/s. Raimcom Commercial Private Limited	421.	36584	M/s. Rinisura Pharmaceuticals Private Limited
393.	79131	M/s. Raj-N-Plastic Private Limited	422.	67911	M/s. Rinni Electricals Private Limited
394.	74002	M/s. Rajgir Emporium Private Limited	423.	52707	M/s. Rirtch Investments and Holdings Private Limited
395.	31255	M/s. Rajguru Machine Components Private Limited	424.	67722	M/s. Ritona Commodities Private Limited
396.	30617	M/s. Rajhans Finance & Chit Scheme Private Limited	425.	52888	M/s. RKG Multicom Private Limited
397.	29645	M/s. Rajrani Service Station Private Limited	426.	37288	M/s. Rockwell Puematics Private Limited
398.	10888	M/s. Rally Engineering Works Private Limited	427.	70060	M/s. Rollatainers Supply Private Limited
399.	20383	M/s. Ram Kumar Agarwala & Bros Private Limited	428.	55398	M/s. Rooming House Construction India Private Limited
400.	38804	M/s. Ramka Consultants Private Limited	429.	51597	M/s. Rose Tea Exports Private Limited
401.	31336	M/s. Rampal Private Limited	430.	32897	M/s. Rosidabh Survey Co. Private Limited
402.	79430	M/s. Rangkala Merchants Private Limited	431.	15991	M/s. Roy Brothers Private Limited
403.	34221	M/s. Ranisati Jute Industries Private Limited	432.	23112	M/s. Roy Chemical Private Limited
404.	53209	M/s. Ranjit Enterprises Private Limited	433.	16353	M/s. Roy Pharmacy Private Limited
405.	15953	M/s. Ranken & Co. Private Limited	434.	56028	M/s. Rum Ron Manufacturing Company Private Limited
406.	36786	M/s. Rasendu Resources Private Limited	435.	20980	M/s. S. B. Electric Mart Private Limited
			436.	12688	M/s. S. B. Industrial Development Co. Private Limited
			437.	15325	M/s. S. C. Chowdhury & Bros Private Limited

1	2	3
438.	44630	M/s. S. E. Construction Private Limited
439.	16397	M/s. S. G. R. Industries Private Limited
440.	39324	M/s. S. S. F. Resources Private Limited
441.	54378	M/s. S. Sen Consultants Private Limited
442.	37530	M/s. S. C. Chemicals Private Limited
443.	30469	M/s. S. D. B. Trading & Chitfund Private Limited
444.	44451	M/s. S. G. Engineering Private Limited
445.	52662	M/s. S. K. Digital Technology Private Limited
446.	38956	M/s. S. K. Pragati Private Limited
447.	37250	M/s. S. S. Sales & Services Private Limited
448.	79245	M/s. Sabitri Saree Centre Private Limited
449.	70207	M/s. Sadhan Vinimay Private Limited
450.	30227	M/s. Safe Chit Units Private Limited
451.	79013	M/s. Sahyogi Advisory Services Private Limited
452.	76157	M/s. Saikat Shyama Ma Fish Farm Private Limited
453.	44216	M/s. Saisounds Private Limited
454.	20668	M/s. Sakambari (India) Private Limited
455.	55390	M/s. Salt Lake Service Centre Private Limited
456.	46831	M/s. Samar Gupta Associates Private Limited
457.	37908	M/s. Sandra Builders & Traders Limited
458.	79045	M/s. Sangam Commotrade Private Limited
459.	37590	M/s. Sanira & Co. Private Limited
460.	66940	M/s. Sanjana Farms and Orchards Private Limited
461.	54269	M/s. Sanjeet Trading & Marketing Private Limited
462.	36848	M/s. Sanjeev Impex Services Private Limited
463.	31346	M/s. Sansar Savings Private Limited
464.	73135	M/s. Santa Cruz Finance & Investment Private Limited
465.	76687	M/s. Santac Trading Private Limited
466.	12280	M/s. Sanyal & Co. Private Limited
467.	52672	M/s. Sarath Holdings Private Limited
468.	53680	M/s. Sarbodhan Housing Complex Private Limited

1	2	3
469.	10245	M/s. Satanarian Shyamsundar Private Limited
470.	26603	M/s. Satya Narayan Colliery Private Limited
471.	70747	M/s. Satyaprakash Tie-up Private Limited
472.	30670	M/s. Savnac Fabritex Private Limited
473.	38905	M/s. Sawalka Auto (Maharashtra) Private Limited
474.	66720	M/s. SBG Leasing and Hire Purchase Private Limited
475.	77804	M/s. SBP Leathers Private Limited
476.	33288	M/s. Sean Impex Private Limited
477.	78494	M/s. Scandia Commercial Private Limited
478.	78495	M/s. Scandia Commodeal Private Limited
479.	52693	M/s. Scanner Diagnostic Clinic Private Limited
480.	18466	M/s. Sealdah Restaurant Private Limited
481.	79753	M/s. Secfina Holdings & Securities Private Limited
482.	54498	M/s. Sencon Construction Private Limited
483.	44632	M/s. Serampore Vehicle Finance Company Private Limited
484.	31093	M/s. Sett Estate Development & Construction Co. Private Limited
485.	61926	M/s. Seven Arcade Savings & Investment Company Private Limited
486.	36300	M/s. Shai Chemicals Private Limited
487.	18075	M/s. Shakhi Charan Roy & Sons Private Limited
488.	76423	M/s. Shalimar Polymers Private Limited
489.	18750	M/s. Sham Lal Sen Private Limited
490.	67082	M/s. Shankarparvati Dealcomm Private Limited
491.	34298	M/s. Shankerlal Mundra & Sons Private Limited
492.	53564	M/s. Shantanu Trading Private Limited
493.	44462	M/s. Shanti Rubber Industries Private Limited
494.	76807	M/s. Shekhawat Consultancy Private Limited
495.	79695	M/s. Shelja Securities Private Limited
496.	38508	M/s. Shellcraft India Private Limited
497.	28718	M/s. Shellka Woollens Works Private Limited

1	2	3	1	2	3
498.	28962	M/s. Shilpa Ice & Cold Storage Co. Private Limited	528.	54394	M/s. Sol Finvest Private Limited
499.	52748	M/s. Shitalamata Brick Field Private Limited	529.	76664	M/s. Sona Rice Mill Private Limited
500.	74977	M/s. Shiv Lalit Engineering Private Limited	530.	77152	M/s. Sony Air Booking Private Limited
501.	74978	M/s. Shiv Lalit Merchandise Private Limited	531.	70281	M/s. Soor Commodeal Private Limited
502.	52625	M/s. Shobha Commercial & Exim Private Limited	532.	52615	M/s. Sourindra Kiran Tea Private Limited
503.	53493	M/s. Shraddha Exim Private Limited	533.	11264	M/s. Southend Engineering Private Limited
504.	31161	M/s. Shree Agarwalla Enterprises (Agency) Private Limited	534.	37815	M/s. Southern Cross Resources Private Limited
505.	30419	M/s. Shree Archana Detergent & Chemical Private Limited	535.	76542	M/s. Spartex Engineering & Electronics Private Limited
506.	79173	M/s. Shree Radha Rani Marble & Granite Private Limited	536.	26341	M/s. Spartex Private Limited
507.	18050	M/s. Shree Ramkrishna Engg. Co. Private Limited	537.	77810	M/s. Speed Suppliers Private Limited
508.	54469	M/s. Shree Silkina Export Private Limited	538.	80814	M/s. Speedfast Merchants Private Limited
509.	36000	M/s. Shroff Resources Private Limited	539.	32428	M/s. Speedy Castings Private Limited
510.	54023	M/s. Siba Medicare and Research Institute Private Limited	540.	74134	M/s. Spinpik Suppliers Private Limited
511.	52661	M/s. Siddhant Granites Private Limited	541.	38167	M/s. Sree Durga Alloys and Traders Private Limited
512.	73942	M/s. Siddhi Commercial Private Limited	542.	32107	M/s. Sree Gopikishan Steel Works Private Limited
513.	52671	M/s. Signal words & Pictures Private Limited	543.	77876	M/s. Sri Balazi Enterprises Private Limited
514.	80854	M/s. Silicon Refractories Private Limited	544.	54022	M/s. Sri Shvam Tobacco Products Private Limited
515.	53842	M/s. Silver Streak Air Carriers Private Limited	545.	70961	M/s. Sridhan Commotrade Private Limited
516.	43715	M/s. Sinclairs Consultancy Private Limited	546.	31380	M/s. Srivastava Associates Private Limited
517.	51332	M/s. Singhanian Credit Private Limited	547.	80224	M/s. SRPC Marketing Private Limited
518.	60634	M/s. Siva Beauties Private Limited	548.	51694	M/s. Stainless Fiscal Services Private Limited
519.	26551	M/s. Skarad Engineering Private Limited	549.	44414	M/s. Stanmore Builders Private Limited
520.	46447	M/s. Skarm Mini Rice Mill Private Limited	550.	16296	M/s. Stannic Metals & Alloys Private Limited
521.	70952	M/s. Skipper International Private Limited	551.	16807	M/s. Star Cotton & Hosiery Mills Private Limited
522.	81026	M/s. Skylark Tourist & Travel Guide Private Limited	552.	29747	M/s. Star Laboratories Private Limited
523.	18283	M/s. Small Products Private Limited	553.	37418	M/s. Star Winding Wires Private Limited
524.	53279	M/s. Smidums Developers Private Limited	554.	70315	M/s. Stardust Commercial Private Limited
525.	79817	M/s. Snap Vanijya Private Limited	555.	26480	M/s. Steel Plant & Rolling Mill Engineers Private Limited
526.	78163	M/s. Snooper Suppliers Private Limited	556.	54112	M/s. Strumech (India) Cranes Private Limited
527.	27059	M/s. Sohanlal Properties & Investments Private Limited	557.	28318	M/s. Subarnarekha Investments Private Limited

1	2	3	1	2	3
558.	55236	M/s. Subham Housing & Finvestm Private Limited	586.	16339	M/s. Swanodent (Eastern) Private Limited
559.	35157	M/s. Subhdra Paper & Paper Products Private Limited	587.	51764	M/s. Swarnim Agencies Private Limited
560.	32599	M/s. Subir Estates Private Limited	588.	77430	M/s. Swarnreha Marketing Private Limited
561.	60570	M/s. Sugandh Home Finance Private Limited	589.	52884	M/s. Swastik Financial & Commercial Services Private Limited
562.	35399	M/s. Sujicon Consultants Private Limited	590.	79526	M/s. Symphony Projects Private Limited
563.	60980	M/s. Sukalpataru Clinic & Research Centre Private Limited	591.	76630	M/s. Symphony Textiles Private Limited
564.	50698	M/s. Sulabh Merchandise Private Limited	592.	35594	M/s. T. C. Auddy & Sons (Jewellers) Private Limited
565.	31330	M/s. Sulata Savings & Investment Private Limited	593.	54323	M/s. Tagore Park Estates Private Limited
566.	70323	M/s. Sulochana Vinimay Private Limited	594.	52640	M/s. Taipei Impex Private Limited
567.	66916	M/s. Sumegha Mercantile Private Limited	595.	16753	M/s. Tamiluk Workers Transport Private Limited
568.	54539	M/s. Sunanda Zincochem Private Limited	596.	30281	M/s. Tamralipta Chits & Investment Co. Private Limited
569.	53826	M/s. Sunayana Enclaves Private Limited	597.	31481	M/s. Tamralipta Cold Storage Co. Private Limited
570.	27098	M/s. Sunbeam Engineering Co. Private Limited	598.	29557	M/s. Tanson Navigation Co. Private Limited
571.	51899	M/s. Sunbeam Products Private Limited	599.	34559	M/s. Tanuj Private Limited
572.	37824	M/s. Sundaram Transport Private Limited	600.	51671	M/s. Tarai Investment & Leasing Private Limited
573.	10452	M/s. Sunderdas & Sons Private Limited	601.	37281	M/s. Tarit Power Electronics Private Limited
574.	32885	M/s. Sunflower Paper Converters Private Limited	602.	79209	M/s. Tatoo Commercial Private Limited
575.	43516	M/s. Sunflower Video & Advertising Private Limited	603.	27363	M/s. Taystee Food Products Private Limited
576.	55732	M/s. Suniyojit Finvest & Credit Private Limited	604.	88189	M/s. TBS Constructions Private Limited
577.	79018	M/s. Supack Trading Private Limited	605.	44234	M/s. Techno Aid Private Limited
578.	33074	M/s. Super Foundries Private Limited	606.	30672	M/s. Teetex India Private Limited
579.	30223	M/s. Supertronics Microdigital Private Limited	607.	30247	M/s. Tekdesign Private Limited
580.	44997	M/s. Support Systems Private Limited	608.	43314	M/s. Terra Firma (India) Private Limited
581.	66996	M/s. Suregrow Portfolio Consultants Private Limited	609.	16299	M/s. Textiles Distributors Private Limited
582.	43534	M/s. Surya Iron Works Private Limited	610.	77688	M/s. Three Cheers Developers Private Limited
583.	74905	M/s. Surya-Shakti Sales & Supply Private Limited	611.	76136	M/s. Tiloksans Brewery & Distillery Private Limited
584.	33676	M/s. Swadeshi Development Private Limited	612.	31878	M/s. Tipington India Private Limited
585.	15538	M/s. Swadeshi Enterprises Private Limited	613.	84199	M/s. Tippy India Private Limited
			614.	52684	M/s. Tirtha Bharati Housing & Auto Finance Private Limited
			615.	53155	M/s. TIS Finance & Investment Company Private Limited

1	2	3	1	2	3
616.	70509	M/s. Topgrain Agency Private Limited	646.	76491	M/s. Unison Exporters Private Limited
617.	70304	M/s. Toplight Sales Private Limited	647.	80167	M/s. Unitech Trailors & Body Mfg. Co. Private Limited
618.	44808	M/s. Toppers Cosmetics India Private Limited	648.	16252	M/s. United Bengal Printing Works Private Limited
619.	73134	M/s. Torit Engineering India Limited	649.	20498	M/s. United Paper Stationeries Private Limited
620.	67062	M/s. Towxic Dealcom Private Limited	650.	15257	M/s. United Trading Agency India Private Limited
621.	67257	M/s. Towxiic Vincom Private Limited	651.	30279	M/s. Universal Stampings Private Limited
622.	37201	M/s. Tradico Agencies Private Limited	652.	66471	M/s. Upswing Merchandise Private Limited
623.	72841	M/s. Tramark Consultants Private Limited	653.	29528	M/s. Usha Export Private Limited
624.	87072	M/s. Travel Universe Private Limited	654.	62262	M/s. Utsav Computers Private Limited
625.	52619	M/s. Treatment Home Products Private Limited	655.	79559	M/s. Uttar Siti Brick Works Private Limited
626.	30649	M/s. Trefoils Private Limited	656.	30740	M/s. V. S. Investment & Chit Scheme Private Limited
627.	53241	M/s. Tri Shakti Agro Eqpt Private Limited	657.	35824	M/s. Vaco Plast Private Limited
628.	27337	M/s. Tribeni Glass Industries Private Limited	658.	66612	M/s. Vaghani Properties Private Limited
629.	12009	M/s. Tripura Enterprises Private Limited	659.	76301	M/s. Vaishnov Engineers Private Limited
630.	84582	M/s. Trivene Suppliers Private Limited	660.	72532	M/s. Varun Textrade Private Limited
631.	89675	M/s. TRS Auto-Rest Private Limited	661.	37704	M/s. Vashist Properties Private Limited
632.	28345	M/s. Truform Tools & Gauges Private Limited	662.	76691	M/s. Vasundhra Marketing Private Limited
633.	31351	M/s. Trusses and Towers Concrete Private Limited	663.	76079	M/s. Vasundhra Tie-up Private Limited
634.	33079	M/s. Tulsi Electrical Industries Private Limited	664.	60960	M/s. Vee Pee Impex Private Limited
635.	64166	M/s. Tungabhadra Vyapaar Private Limited	665.	37279	M/s. Vibgyor Printing & Packing Limited
636.	67590	M/s. Tungrali Vyapaar Private Limited	666.	36386	M/s. Vijay Brothers Private Limited
637.	66587	M/s. Turmoil Trading Private Limited	667.	36754	M/s. Vijay Road Services Private Limited
638.	60917	M/s. Turnkey Consultants and Engineers Private Limited	668.	37152	M/s. Vijayata Shipping and Shipmanagement Private Limited
639.	74527	M/s. U-Nik Consultants Private Limited	669.	75991	M/s. Vijayshree Marketing Private Limited
640.	44739	M/s. Udayan Trading Company Private Limited	670.	27872	M/s. Vikas Producers and Traders Private Limited
641.	43619	M/s. Ultimate Finance Private Limited	671.	44621	M/s. Vikash Marketing Private Limited
642.	51670	M/s. Unicor Fabrication and Erection Private Limited	672.	76433	M/s. Vinar Commercial Private Limited
643.	36482	M/s. Uniflex Transmission Engineering Private Limited	673.	73301	M/s. Vinayak Barter Private Limited
644.	17756	M/s. Union Tea Garden Stores Private Limited	674.	70890	M/s. Viniyoga Sales Private Limited
645.	81127	M/s. Unisoft Informatique Private Limited	675.	72851	M/s. Vinlock Tie up Private Limited
			676.	79492	M/s. Vinod Financial Services Private Limited
			677.	38783	M/s. Vishal Distributors Private Limited

1	2	3
678.	789982	M/s. Vital Securities Private Limited
679.	20943	M/s. Vivekananda Press Private Limited
680.	28678	M/s. Wabshi & Duchamara Private Limited
681.	52641	M/s. Waspro Investment & Chemical Private Limited
682.	44325	M/s. Waves Export Private Limited
683.	82389	M/s. Wellplan Traders Private Limited
684.	66017	M/s. Wender Vanijya Private Limited
685.	23788	M/s. West Bengal General Engg. Corpn. Private Limited
686.	53902	M/s. West Wings Travels & Exports Private Limited
687.	38904	M/s. Western Pressing Private Limited
688.	30603	M/s. William Cox & Co. Private Limited
689.	43162	M/s. Wnmore Trade Holdings Private Limited
690.	51499	M/s. Woden Finance & Investment Company Private Limited
691.	38791	M/s. Workers Press Private Limited
692.	85095	M/s. Zambuki Overseas Private Limited
693.	46199	M/s. Zealot Construction Private Limited
694.	75626	M/s. Zenith Engineering & Electronics Private Limited
695.	44492	M/s. Zodiac Fibre Private Limited

NAUBAT SINGH  
Dy. Registrar of Companies  
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. South West Tennis Academy Private Limited

Ernakulam-682021, the 17th September 2007

No. 560/18778—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the name of the M/s. South West Tennis Academy Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

AMEERUL MILLATH S. M.  
Authorising Officer  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Susura Sales Private Limited

Ernakulam-682021, the 19th September 2007

No. w.s. 560(3) MCA/ROC-Ernakulam/sec 560/2007/00011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)

of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of the M/s. Susura Sales Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

AMEERUL MILLATH S. M.  
Authorising Officer  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Hyderabad-500 095, the 17th September 2007

No. RAP/SES-2003 560(5)/STA. I/07—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register of Companies and the same are dissolved.

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	34266	M/s. Sri Sarada Systems Private Limited
2.	26038	M/s. Milagro Enterprises Limited
3.	10000	M/s. Taranya Sea Foods Private Limited
4.	24300	M/s. NRS Hatcheries Private Limited

HANERY RICHARD  
Registrar of Companies  
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Bangalore-560 034, the 17th September 2007

No. ROCB/560(3) TA SVK/2007—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following 5 companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said Companies shall be dissolved.

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	20955	M/s. Excelsior Exports Private Limited
2.	7922	M/s. CNC Engineering Limited
3.	19230	M/s. Ishu Diagnostics Limited
4.	19231	M/s. Isue Resorts Limited
5.	19233	M/s. Aishwarya Silks Limited

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Karnataka



In the matter of Companies Act, 1956 and  
of the following Companies

Bangalore-560 034, the 20th September 2007

No. ROCB/560(3)/TA/JK/CVS/2007—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on expiry of three months from the date hereof, the names of the following 272 Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register maintained by this office and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Company Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	5003	M/s. Sunrise Apartments Private Limited
2.	5025	M/s. Emmaarjay Property Development and Management Consultants Private Limited
3.	5027	M/s. P and J Commutation Devices Private Limited
4.	5028	M/s. K. M. Alloy and Steels Private Limited
5.	5031	M/s. Syndicate Engineering Industries Private Limited
6.	5036	M/s. Remacon Resource Management Consultants Private Limited
7.	5037	M/s. Daaga Textile Processors Private Limited
8.	5040	M/s. M. S. Fasters Private Limited
9.	5042	M/s. Freeze Fast Private Limited
10.	5064	M/s. K. N. D. Foundries Private Limited
11.	5071	M/s. Sona Abrasives Private Limited
12.	5087	M/s. Ashoka Fruits Private Limited
13.	5092	M/s. H. M. Tiles Private Limited
14.	5097	M/s. Insat Electronics Industries Limited
15.	5104	M/s. Bandekar Engineering Industries Private Limited
16.	5105	M/s. Madhavi Builders Private Limited
17.	5126	M/s. Skanda Granite Private Limited
18.	5135	M/s. All-Yyam Travels and Allied Agencies Private Limited
19.	5145	M/s. Nitya Sarvamangala Trading and Allied Agencies Private Limited
20.	5159	M/s. Chopra Properties Private Limited
21.	5160	M/s. Royal Equipments Private Limited
22.	5169	M/s. Speciality Tea Services Private Limited
23.	5171	M/s. CATERAIDS (India) Private Limited
24.	5184	M/s. Electro Power Insulators Private Limited
25.	5217	M/s. Al-Amin Traders Private Limited
26.	5123	M/s. Rohini Strach and Allied Products Private Limited
27.	5223	M/s. Sun-Valley Cements Private Limited
28.	5224	M/s. Bonston Leasing (India) Private Limited
29.	5225	M/s. Ajay and Amit Marketing Private Limited
30.	5226	M/s. Rastapur Anand Hotels Private Limited
31.	5227	M/s. Somappa Ginning and Oil Mills Private Limited
32.	5236	M/s. Prasad Cashew Products Private Limited
33.	5250	M/s. 20th Century Prints Private Limited
34.	5256	M/s. M. Kannu Consultants Private Limited
35.	5318	M/s. Bangalore Offset Printers Private Limited
36.	5314	M/s. Yummy O Confectioneries and Allied Products Private Limited
37.	5303	M/s. Mahaveera Granite Private Limited
38.	5295	M/s. Gayathri Textiles Silk Mills Private Limited
39.	5294	M/s. Suri Associates Private Limited
40.	5275	M/s. Regal Machine Tools Private Limited
41.	5261	M/s. Belbro Cements Private Limited
42.	5275	M/s. Vandana Travels Private Limited
43.	5264	M/s. Rastriya Transport (India) Private Limited
44.	5395	M/s. Ketak Carriers Private Limited
45.	5277	M/s. Associated Architech and Engineers Private Limited
46.	5272	M/s. Pusalkar Engineers Private Limited
47.	5362	M/s. Gubbi Veeranna Bricks and Tiles Company Private Limited
48.	5259	M/s. S. V. S. Food Industry Private Limited
49.	5254	M/s. Kashyap Batteries Private Limited
50.	5352	M/s. Indo-Jap Ceramics Private Limited

1	2	3	1	2	3
51.	5348	M/s. Rajita Bandhu Box Wells Private Limited	80.	5648	M/s. Mathur Khandasari Sugars Private Limited
52.	5343	M/s. Swarna Precision Products Private Limited	81.	5645	M/s. Silver Bullet Motor Cycle Sports Show Company Private Limited
53.	5330	M/s. Perfect Drives Private Limited	82.	5628	M/s. Jadam Enterprise Private Limited
54.	5451	M/s. Prorex (India) Private Limited	83.	5624	M/s. Adarsha Tools Private Limited
55.	5469	M/s. Micam Private Limited	84.	5625	M/s. Dev. Perfumes Private Limited
56.	5470	M/s. Gigi Eletricals Private Limited	85.	5619	M/s. Deo Pax Private Limited
57.	5411	M/s. Twenty First Century Noah Consultants Private Limited	86.	5601	M/s. Karana Gas Cylinders and Allied Industry Private Limited
58.	5416	M/s. Vittal Fruits Canning Private Limited	87.	5609	M/s. Renu Tools Private Limited
59.	5426	M/s. Anugraha Enterprises Private Limited	88.	5757	M/s. Chitra Minerals Private Limited
60.	5434	M/s. Annapoorna Marketing and Trading Agencies Private Limited	89.	5755	M/s. Rajvanshi Constructions and Agencies Private Limited
61.	5439	M/s. Aapeksha Associates Private Limited	90.	5723	M/s. Roomman Insulations Private Limited
62.	5480	M/s. Power Line Constructions Private Limited	91.	5685	M/s. Unhodaya Machine Systems Private Limited
63.	5483	M/s. Adlib Private Limited	92.	5676	M/s. Samia Electronics Private Limited
64.	5476	M/s. Maa Engineering and Construction Company Private Limited	93.	5665	M/s. Enjay Steels Private Limited
65.	5475	M/s. Kannada Cements Company Private Limited	94.	5709	M/s. Adarsh Auto Workshop Private Limited
66.	5493	M/s. Rajdhani Cables and Concrete Products Private Limited	95.	5714	M/s. Multi Print Process Industry Private Limited
67.	5516	M/s. VCMS Private Limited	96.	5720	M/s. Neegson Private Limited
68.	5510	M/s. D. G. N. Pressings Private Limited	97.	5675	M/s. Belgundi Cements Limited
69.	5502	M/s. Bandm Private Limited	98.	5583	M/s. Kemtrode Private Limited
70.	5597	M/s. Kavita Dials Private Limited	99.	5449	M/s. Deemasu Silks Private Limited
71.	5600	M/s. Computek Software Systems Private Limited	100.	5544	M/s. Bright Engineering Components Private Limited
72.	5547	M/s. Poineer Extractions and Exports Private Limited	101.	5758	M/s. Chitra Cements Private Limited
73.	5557	M/s. Mulbagal Cements Private Limited	102.	5770	M/s. Byte (India) Private Limited
74.	5545	M/s. Medical Diagnostic Research Laboratories Private Limited	103.	5778	M/s. Kamadhenu Traders Private Limited
75.	5534	M/s. Sisasi Hotels Private Limited	104.	5779	M/s. Nath and Nath Associates Private Limited
76.	5533	M/s. Haryana Punjab Roadways Private Limited	105.	5785	M/s. Citizen Refineries Private Limited
77.	5521	M/s. New Delux Doublers Private Limited	106.	5788	M/s. Sahyadri Cements Private Limited
78.	5651	M/s. Dindet (India) Private Limited	107.	5718	M/s. Polyepoxide Systems and Engineering Private Limited
79.	5661	M/s. Jai Bhavani Silk Mills Private Limited	108.	5761	M/s. Karnataka Auto Components Private Limited
			109.	5867	M/s. Mahalakshmi Motors Private Limited

1	2	3	1	2	3
110.	5870	M/s. Mandhya Minerals Private Limited	141.	5995	M/s. Shri Dhuvaneshwari Hotels Private Limited
111.	5863	M/s. Belgaum Computor Services Private Limited	142.	5992	M/s. Rajan Pipes Private Limited
112.	5864	M/s. Travel Kare (India) Private Limited	143.	5937	M/s. Panorama Advertising and Marketing Private Limited
113.	5862	M/s. Associated Weldmets Private Limited	144.	5945	M/s. Raichur Electronics Private Limited
114.	5854	M/s. Govindappa Woollen Industry Private Limited	145.	5949	M/s. Venture Services Private Limited
115.	5796	M/s. Ramakrishna Daal Mills Private Limited	146.	5968	M/s. Circular Sacks (Karnataka) Private Limited
116.	5815	M/s. Citra Jewellers Private Limited	147.	6013	M/s. Paras Auto Agencies Private Limited
117.	5915	M/s. Pournamee Enterprise Private Limited	148.	6044	M/s. Banu Steel Private Limited
118.	5917	M/s. Mudra Graphics Private Limited	149.	6059	M/s. Chem-O-Flelur Private Limited
119.	5920	M/s. Farbendruck Private Limited	150.	6056	M/s. Max Power Accumulators Private Limited
120.	5921	M/s. Akshaya Mudran Private Limited	151.	6075	M/s. V-Won Food Products Private Limited
121.	5834	M/s. Venkateswara Pipes Manufacturing Private Limited	152.	6088	M/s. Narmada Marketing and Agencies Private Limited
122.	5835	M/s. Weldarc Private Limited	153.	6087	M/s. Bidar Pressure Vessels Private Limited
123.	5838	M/s. Aurolite Private Limited	154.	6057	M/s. Marble Industry (Mangalore) Private Limited
124.	5827	M/s. Roopa Metals Private Limited	155.	6085	M/s. Jord Technologies Private Limited
125.	5923	M/s. Deep Pressure Vessels (Karnataka) Private Limited	156.	6080	M/s. Cartic Apparels Private Limited
126.	5839	M/s. Integrated Consultancy Services Private Limited	157.	6078	M/s. Asia Graphics and Communications Private Limited
127.	5856	M/s. Srinidhi Silk Private Limited	158.	6121	M/s. Windsor Constructions and Technical Services Private Limited
128.	5868	M/s. Sutalya Steels Private Limited	159.	6138	M/s. Esmes Industrial Plastics Private Limited
129.	5855	M/s. Rathna Canned Foods Private Limited	160.	6107	M/s. K. C. P. F. Ferro Concrete Private Limited
130.	5930	M/s. Phoenix Castings Private Limited	161.	6111	M/s. Adlanrds Oils and Chemicals Limited
131.	5913	M/s. Mona Private Limited	162.	6097	M/s. Benaka Papers Boards Mills Private Limited
132.	5907	M/s. Wallia Neeshimoto Private Limited	163.	6098	M/s. Kingstons Pearl Packaging Private Limited
133.	5926	M/s. Gruhalakshmi Housing Company Private Limited	164.	6154	M/s. Western Refineries Private Limited
134.	5904	M/s. Sri Pulakeshi Cements Private Limited	165.	6155	M/s. International Shock Absorbers Limited
135.	5890	M/s. Metropole Housing Development Company Private Limited	166.	6142	M/s. Vinay Enterprise Private Limited
136.	5899	M/s. Sri Banashankari Leasing Company Private Limited	167.	6029	M/s. Green Leaves Organics Private Limited
137.	5975	M/s. Paxal Leasing Private Limited	168.	6082	M/s. Man-Jog Leasing and Hire Purchase Company Private Limited
138.	5965	M/s. Hexapest Control Private Limited	169.	6161	M/s. Dyna Foods Private Limited
139.	6000	M/s. Manju Mineral Works Private Limited			
140.	6004	M/s. Bandary Footwear Private Limited			

1	2	3	1	2	3
170.	6164	M/s. Libra Links (India) Private Limited	199.	6361	M/s. Alif Fisheries and Real Estates Private Limited
171.	6173	M/s. Ajit Cylinders Private Limited	200.	6346	M/s. Maruti Enterprise Private Limited
172.	6185	M/s. Arslan Mass Can Machines Private Limited	201.	6437	M/s. Ass Agro Forms Private Limited
173.	6212	M/s. G. K. Oil Mills and Refineries Private Limited	202.	6417	M/s. Alif Mining and Engineering Private Limited
174.	6211	M/s. Kammar Chemicals Industry Private Limited	203.	6425	M/s. Supra Fabri Tools Private Limited
175.	6192	M/s. Charagani Limited	204.	6426	M/s. Suresh Colour Labs Private Limited
176.	6215	M/s. Bumber Dairy Farm Private Limited	205.	6423	M/s. Vivekanand Minerals and Chemicals Private Limited
177.	6219	M/s. Ag-Fo Fuels Private Limited	206.	6422	M/s. Bangalore Healthcare Services Private Limited
178.	6220	M/s. Sri Krishna Technocraft Private Limited	207.	6445	M/s. Rose Hill Textiles Private Limited
179.	5871	M/s. Pijay Exportes and Realtors Private Limited	208.	6428	M/s. Weltry Remedies (India) Private Limited
180.	6239	M/s. Unit Plywood Industry Private Limited	209.	6468	M/s. Bangalore Toughglass Private Limited
181.	6268	M/s. Diets (India) Private Limited	210.	6509	M/s. Mysore Rock Mills Private Limited
182.	6229	M/s. Bangalore Consulting Group Private Limited	211.	6479	M/s. C. R. Engineering and Castings Private Limited
183.	6244	M/s. Cytozyme Sales (Karnataka) Private Limited	212.	6494	M/s. Hoysala Priya Darshini Estates Private Limited
184.	6246	M/s. Gayathri Refineries Private Limited	213.	6498	M/s. Bor-Bora Cements Private Limited
185.	6249	M/s. Sharavati Motels Private Limited	214.	6525	M/s. BJS Solnex Private Limited
186.	6251	M/s. Maruthi SI Private Limited	215.	6523	M/s. Poorvaja Mercantile Private Limited
187.	6266	M/s. Boilers (India) Private Limited	216.	6519	M/s. Modern Trading Private Limited
188.	6274	M/s. Hoysala Thermo Formers Private Limited	217.	6442	M/s. Tripti Marketing Private Limited
189.	6287	M/s. Essgvee Chemicals and Pharmaceuticals Private Limited	218.	6510	M/s. Pampar Chemicals Private Limited
190.	6283	M/s. Snowwhite Detergents Private Limited	219.	6478	M/s. Golden Cosmetics (India) Private Limited
191.	6393	M/s. Keonics Shanti Micro Electronics Limited	220.	6464	M/s. Euro Plasts and Chemicals Private Limited
192.	6389	M/s. Maurya Electronics Private Limited	221.	6461	M/s. Metro Bangalore Brick Works Private Limited
193.	6391	M/s. Pentagon Sales Private Limited	222.	6414	M/s. Sree Gnyanaxhi Constructions Private Limited
194.	6325	M/s. Jupiter Resource Enterprise Private Limited	223.	6552	M/s. Asia Prefabs Private Limited
195.	6300	M/s. NTA Private Limited	224.	6546	M/s. Mallur-Techno Managerial Services Private Limited
196.	6298	M/s. M J S Granites Private Limited	225.	6544	M/s. Gulbarga Fullers Easrth Private Limited
197.	6294	M/s. Viswanjaneya Leasing Private Limited	226.	6554	M/s. Armour Private Limited
198.	9154	M/s. Empower Control System Private Limited			

1	2	3	1	2	3
227.	6557	M/s. Agro Coldstorage and Marketing Private Limited	250.	6713	M/s. Prime Poly Plast Industry Private Limited
228.	6573	M/s. Road Carriers (India) Private Limited	251.	6733	M/s. Akash Air Travels Private Limited
229.	6571	M/s. Great Worth Electric Engineering Company Private Limited	252.	6727	M/s. Alpha Omega Technologies Private Limited
230.	6567	M/s. Skarg Steels Private Limited	253.	6709	M/s. Ellarr Emico (India) Private Limited
231.	6605	M/s. Super Galaxy Drugs Private Limited	254.	6707	M/s. Trauwood Engineering (India) Private Limited
232.	6603	M/s. Rotiss India Private Limited	255.	6702	M/s. Intel Computronics Private Limited
233.	6620	M/s. Erin Plastics Private Limited	256.	6693	M/s. Auro Cap Private Limited
234.	6563	M/s. Jhani Chemicals Private Limited	257.	6691	M/s. Baks Engineers Private Limited
235.	6607	M/s. Lib-Chem Private Limited	258.	6808	M/s. S. S. Compwares Private Limited
236.	6606	M/s. P. C. Services Private Limited	259.	6752	M/s. Weltex Engineers Private Limited
237.	6619	M/s. Momechn Polyfab Private Limited	260.	6764	M/s. Impu Recordings Private Limited
238.	6614	M/s. Modern Technicals Shoes Private Limited	261.	6755	M/s. Lithic Stone and Marbles Private Limited
239.	6581	M/s. Consolidated Transmissions Private Limited	262.	6750	M/s. P. L. Electronics Private Limited
240.	6601	M/s. G. P. Holdings Private Limited	263.	6744	M/s. Hemavashi Packagings Private Limited
241.	6721	M/s. Aarjay Aluminium Private Limited	264.	6786	M/s. Nirlon-Karnataka Synthetic Fibres and Chemicals Limited
242.	6650	M/s. Jayshree Travels Private Limited	265.	6738	M/s. Micro Imaging Technologies Limited
243.	6626	M/s. Ruby Cements Industry Private Limited	266.	6806	M/s. Mysore Caps and Cans Private Limited
244.	6638	M/s. Sony Bicycles Private Limited	267.	6849	M/s. Backer and Backers Private Limited
245.	6645	M/s. Al-meen Tours and Travels Private Limited	268.	6851	M/s. Amal Tasha Pharmaceuticals and Fine Chemicals Private Limited
246.	6649	M/s. H. Subanna and Sons Private Limited	269.	6834	M/s. Kas Steel Private Limited
247.	6676	M/s. Trichur Furniture Industries Private Limited	270.	6815	M/s. Fabknits Private Limited
248.	6655	M/s. Worldpack Air Courier Service India Private Limited	271.	6820	M/s. Maruthi Glass Industry Private Limited
6714		M/s. Elegant Biotech Private Limited	272.	5234	M/s. Safecyl Engineers Private Limited